सूर्योदय : 5:26
सूर्यास्त : 6:40
अधिकतम तापमान : 39.0
न्यूनतम : 24.0

RNI NO : UPHIN/2010/31173

डाक पंजीकरण संख्या:
SSP/LW/NP-422/2014-2016

वर्ष-17 अंक-326 पेज-16
मूल्य : 3 रुपया

लखनऊ, बुधवार, 08 मई 2024
28 शव्वाल, 1445 हिजरी

हिन्दी दैनिक

अवधनामा

www.avadhnama.com

लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण : 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग खत्म

असम में सबसे ज्यादा 76.55% वोटिंग

अमित शाह, दिग्विजय, ज्योतिरादित्य से लेकर डिंपल यादव और शिवराज हैं मैदान में

65.07

प्रतिशत डाले गये वोट

- ईवीएम में कैद 10 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत
- महाराष्ट्र में 55.54 प्रतिशत, बिहार-छत्तीसगढ़ में तीन की मौत

नई दिल्ली। 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीटों पर मंगलवार सुबह 7 बजे से जारी वोटिंग शाम छह बजे खत्म हो गई है। चुनाव आयोग के वोटर टर्नआउट ऐप पर रात 9 बजे तक के अपडेट के मुताबिक, 65.07 प्रतिशत लोगों ने वोट डाले। असम में सबसे ज्यादा 75.53 प्रतिशत, सबसे कम महाराष्ट्र में 55.54 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया। इससे पहले शाम पांच बजे तक 63.77 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 73.93 प्रतिशत और सबसे कम महाराष्ट्र में 53.40 प्रतिशत वोटिंग हुई थी।

वहीं दोपहर तीन बजे तक 53.60 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 63.11 प्रतिशत वोटिंग हुई और सबसे कम महाराष्ट्र में 42.63 प्रतिशत लोगों ने वोट डाले थे। बिहार में वोटिंग के दौरान पीठासीन अधिकारी और होमगार्ड जवान की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में मतदान करने पहुंचे एक बुजुर्ग वोटर की मौत हो गई। वहीं, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के भाजपा कैंडिडेट और टीएमसी समर्थक के बीच झड़प हुई है। यूपी के संभल में पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया। इसमें कुछ लोग घायल हो गए।

संभल में सबसे ज्यादा, आगरा में कम हुई वोटिंग

यूपी में 57.34 फीसदी मतदान

लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में यूपी की 10 सीटों पर मंगलवार को हुए मतदान ने भी पहले के दो चरणों की तरह निराश किया है। तीसरे चरण में मंगलवार शाम 8 बजे तक 57.34 फीसदी मतदान हुआ। तीसरे चरण में भी इस बार 2019 के मुकाबले मतदान कम ही हुआ। पिछली बार 60.52 फीसदी मतदान हुआ था। इस बार सबसे अधिक 62.81 प्रतिशत वोट सम्भल सीट पर पड़े जबकि सबसे कम 53.99 प्रतिशत मतदान आगरा सु.सीट पर हुआ। राहत यही है कि छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्वक सम्पन्न हुआ। इस तीसरे चरण के मतदान में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव, अखिलेश के परिवार के दो अन्य सदस्यों, प्रदेश सरकार के दो मंत्रियों और भाजपा के चार मौजूदा सांसदों का राजनीतिक भविष्य इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में दर्ज हो गया।

बंगाल में 25000 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने पर रोक

राहत

- 16 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट करेगा रेगुलर सुनवाई
- हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को नौकरियां रद्द की थीं

कोलकाता। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें पश्चिम बंगाल के सरकारी और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को अमान्य कर दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि चूंकि टेंटेड अप्वाइंटमेंट को अलग किया जा सकता है, इसलिए नियुक्तियों को पूरी तरह से रद्द करना नासमझी होगी। हालाँकि, शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि अवैध नियुक्तियों का वेतन वापस करना होगा। इसने सीबीआई को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार मामले की जांच जारी रखने की भी अनुमति दी। हालांकि, अदालत ने जांच एजेंसी से कहा कि उम्मीदवारों या अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। हमारा विचार है कि मामले का शीघ्र निपटान न्याय के हित में होगा, हम दिए गए अंतरिम संरक्षण को जारी रखते हैं। स स्पष्ट शर्त के अधीन कि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से नियुक्त पाया गया है और वर्तमान के परिणाम के रूप में जारी रखा गया है।

हरियाणा में गहराया सियासी संकट

तीन निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लिया

संकट

- कांग्रेस का दावा, बीजेपी खो चुकी है बहुमत
- हरियाणा सरकार से सरकार अल्पमत में
- दो महीने पहले फ्लोर टेस्ट किया था पास

जींद। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई गे रहा है। तीन स्वतंत्र विधायक जो पहले भाजपा के पक्ष में थे, ने अब अपना समर्थन वापस ले लिया है और कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। खबरों के मुताबिक, पूर्व सीएम भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने जानकारी दी है कि दादरी से विधायक सोमबीर सांगवान, नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंदर और पुंडरी से रणधीर गोलन ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। हरियाणा में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस लेने वाले निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन ने कहा, पिछले 4.5 वर्षों से हमने भाजपा को समर्थन दिया है। आज बेरोजगारी और महंगाई अपने चरम पर है। इसे देखते हुए, हम हमने (सरकार से) अपना समर्थन वापस ले लिया है। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि लोगों को वर्तमान सरकार पर भरोसा नहीं है और यह देखते हुए कि इन लोगों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है और कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। हुड्डा ने कहा कि उनका फैसला सही है, सही समय पर लिया गया सही फैसला है।

कर्नाटक भाजपा के अकाउंट से तुरंत हटाएं विवादित वीडियोः ईसी

बंगलूरू। चुनाव आयोग ने कर्नाटक भाजपा के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को तैयारी है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है।

दरअसल कर्नाटक भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने अकाउंट से एक विवादित वीडियो साझा किया था। इसके बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भाजपा को पत्र लिखकर वह पोस्ट हटाने का निर्देश दिया था। उधर कांग्रेस ने भी इस मामले में भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसके बाद भी जब कर्नाटक भाजपा ने अपने अकाउंट से वह विवादित पोस्ट नहीं हटाई, तो चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन लिया है। अब चुनाव आयोग ने माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स को तत्काल प्रभाव से उस विवादित पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई ने चार मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक एनिमेटेड वीडियो पोस्ट किया था। जिसमें आरक्षण विवाद को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पार्टी पर निशाना साधते दिख रहे हैं।

आकाश आनंद पद मुक्त

कार्रवाई

- मायावती ने उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने मंगलवार को उत्तराधिकारी आकाश आनंद को दोनों महत्वपूर्ण पदों से हटा दिया है। आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और बसपा प्रमुख मायावती की उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। मायावती ने इस बात की जानकारी अपने एक्स हैंडल पर दी। उन्होंने लिखा, मूवमेंट के व्यापक हित से पूर्ण परिपक्वता ना होने की वजह से उन्हें दोनों पदों के अहम जिम्मेदारी पद पर से हटाया जाता है। बसपा सुप्रीमो ने लिखा, विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के आत्म-सम्मान व स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेन्ट है जिसके लिए मान्य कांशीराम जी व मैंने खुद भी अपनी पूरी ज़िन्दगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी में, अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही, आकाश आनंद को नेशनल कोओर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किन्तु पार्टी व मूवमेन्ट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है।

चोरी की बाईक बेचने जाते वाहन चोर गिरफ्तार

सहारनपुर। थाना चिलकाना पुलिस ने चोरी की बाईक बेचने जाते एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गौरतलब रहे कि 23 फरवरी अनिल कुमार पुत्र शीशपाल निवासी ग्राम बरथाखास थाना चिलकाना ने अज्ञात चोर द्वारा उसकी मोटर साइकिल चोरी करे लेने के संबंध में थाना चिलकाना पर मुकदमा पंजीकृत कराया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उक्त घटना का संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियत्रण, वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। जिसके क्रम में थानाध्यक्ष चिलकाना कपिल देव के नेतृत्व में आज पुलिस टीम ने वाहन चैंकिंग के दौरान 01 शातिर वाहन चोर शाहरूख पुत्र नाजिम निवासी ग्राम सोन्धेबास थाना चिलकाना को ग्राम पंचकुंआ के पास से गिरफ्तार किया। जिसके कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल बरामद हुई।

भाजपा लोकतंत्र को खत्म कर संविधान बदलना चाहतीः आनंद

अवधनामा संवाददाता

लखीमपुर खीरी। सीतापुर धौरहरा लोकसभा के समाजवादी

पार्टी के प्रत्याशी आनंद भदौरिया ने धौरहरा संसदीय क्षेत्र के ग्राम सोहई, इमलिया सुल्तानपुर, रोज़हा, केशवपुर, उमरसा, वीवीपुर, निर्वाहनपुर, बरातपुर, ढकियाव लक्षिमनपुर में जनसंपर्क किया, इस मौके पर सपा प्रत्याशी आनंद भदौरिया सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मतदाताओं को पार्टी की नीतियों से अवगत कराया। आनंद भदौरिया ने जनसंपर्क के दौरान कहाकि ÷डबल इंजन की सरकार यह समझ नहीं पा रही है कैसे सरकार चलानी चाहिए और कैसे नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे, किसान, गरीब, नौजवान, अल्पसंख्यक भाजपा के खिलाफ खड़े है, बीजेपी का झूठ जनता के सामने उजागर हो रहा है, उनके नेताओं के भाषण और उनका झूठ सब समझ चुके हैं, भाजपा का कोई काम जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है, पहले ये जुमला देते थे, अब गारन्टी के नाम पर झांसा दे रहे है। इनकी गारन्टी झूठी है, भाजपा ने किसानों को धोखा दिया, मदद और राहत नहीं दी, बड़े-बड़े उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ रूपये का कर्ज माफ कर दिया, किसानों का कर्ज नहीं माफ किया, कर्ज उनका माफ किया जिन्होंने पांच करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया था, चुनावी चंदे की वसूली के कारण देश में महंगाई बढ़ी, हर परिवार महंगाई से परेशान है, इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर किसानों का कर्ज माफ होगा, फसलों को एमएसपी का कानूनी अधिकार मिलेगा। किसान, नौजवान भाजपा सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट कर रहा है। आनंद भदौरिया ने आगे कहाकि भाजपा के दस साल में नौजवानों का एक तिहाई जीवन बर्बाद हो गया, नौकरी, रोजगार नहीं मिला, भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, ये सब पेपर जानबूझकर लीक कराये गये, भाजपा ने 60 लाख नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया। किसान, नौजवान, गरीब, मध्यम वर्ग पूरी तरह भाजपा के खिलाफ है। भाजपा घबराई हुई है।आनंद भदौरिया ने आगे कहाकि भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं किया। किसानों का गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है। किसानों का गेंहू सरकार नहीं खरीद रही है, बड़ी-बड़ी कम्पनियां फसल खरीद रही है, वही कम्पनियां मुनाफा कमा रही है। किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमने घोषणा पत्र में वादा किया है कि दिल्ली में सरकार बनने पर गरीबों को मुफ्त राशन के साथ खाने के लिए पैक्ड आटा और मोबाइल चलाने के लिए डाटा दिया जाएगा। आज के समय में मोबाइल, लैपटॉप चलाने के लिए डाटा जरूरी है, उन्होंने आगे कहाकि भाजपा लोकतंत्र को खत्म कर संविधान बदलना चाहती है, इस बार चुनाव में चूक गए तो भाजपा जनता के वोट का अधिकार छीन लेगी, बाबा साहब का संविधान संजीवनी है, इसी संविधान से हक, अधिकार, आरक्षण मिल रहा है, भाजपा सब कुछ छीनना चाहती है, संविधान, लोकतंत्र बचाने के लिए सब मिलकर भाजपा को हटाए और इंडिया गठबंधन की जिताये।जनसंपर्क के दौरान रमेश शुक्ला, छोटे सिंह, सोनू सिंह, प्रदीप तिवारी, मनोज यादव, सुनील भार्गव, महेश अर्कवंशी, सतीश त्रिवेदी, लाखन वसिंहव पारुल सिंह व अनेक गामीणवासी साथ रहे।

घर-घर जाकर वार्ड निवासियों को अनिवार्य रूप से 13 मई को मतदान करने के लिए किया जागरूक

अवधनामा संवाददाता

लखीमपुर खीरी। भारत निर्वाचन आयोग, जिला प्रशासन एवं कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय के दिशा-निर्देशन में लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ एव मजबूत बनाये जाने के उद्देदरूप से मतदाताओं को आगरूक करने तथा मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु स्वीप कोर्डिनेटर प्रोफेसर सुभाष चन्द्रा ने राजगढ़ वार्ड एव आस-पास के क्षेत्रों में मतदाता जागरुकता अभियान चलाया। कार्यक्रम में एन एस एस स्वंयसेवको ने महाविद्यालय में स्टूडेन्ट चोपाल लगाई। तत्पश्चात प्राचार्य प्रो0 हेमन्त पाल ने विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों को मतदाता शपथ दिलाई। इसी क्रम में प्रो0 सुभाष चन्द्रा ने राजगढ वार्ड स्थित बैंक के कार्मिकों को शत-प्रतिशत मतदान का संकल्प दिलाया। इसके पश्चात स्वंयसेवकों की टोली प्रो सुभाष चन्द्रा की अगुवाई में राजगढ़ पहुंची और घर-घर जाकर वार्ड निवासियों को अनिवार्य रूप से 13 मई को मतदान करने के लिए जागरूक किया। साथ ही स्वंयसेवकों ने वार्ड निवासियों को वोटर हेल्पलाइन, मतदाता सूची क्रमांक जानने,वोटर स्लिप व मतदान केन्द्र पर पहचान के लिए प्रयोग किये जाने वाले दस्तावेजों आदि की जानकारी देकर जागरूक किया। प्रो0 सुभाष चन्द्रा ने बताया कि विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला के माध्यम से शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम जारी रहेगा।

आईसीसीसी प्रोजेक्ट की सुरक्षा और अधिक करने की आवश्यकताः सीईओ चौहान

अवधनामा संवाददाता

सहारनपुर। स्मार्ट सिटी सीईओ संजय चौहान ने आईसीसीसी का निरीक्षण किया और एनईसी को आईसीसीसी प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी पूरा करने और सुरक्षा व फायर की दृष्टि से विशेष सुरक्षा का ध्यान रखने के निर्देश दिए। स्मार्ट सिटी की आईसीसीसी परियोजना का आज दोपहर सीईओ संजय चौहान ने निरीक्षण किया और कार्यदायी संस्था एनईसी के प्रोजेक्ट मैनेजर से कहा कि उनके जो काम अधूरे रह गए है, उन्हें शीघ्रातिशीघ्र अंतिम रुप देते हुए आईसीसीसी परियोजना को जल्दी पूरा करें। उन्होंने कहा कि अभी आईसीसीसी प्रोजेक्ट को और अधिक सुरक्षित करने की आवश्यकता है। उन्होंने परियोजना का सुरक्षा और फायर सर्टिफिक्रेशन कराने पर बल दिया। सीईओ ने सुरक्षा की दृष्टि से परियोजना के प्रवेश द्वार पर एक चौनल गेट लगाने तथा नीचे ही गेट पर एक सुरक्षा गार्ड तैनात करने तथा वहां एक वैब कैमरा लगाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले विजिटर का आईडी रूफ लिया जाए और विजिटर का समय निर्धारित किया जाए। सीईओ चौहान ने जलकल, ईएसएल, प्रदूषण विभाग, एसडीए व विद्युत विभाग सहित विभिन्न विभागों के डाटा आईसीसीसी के साथ इंटीग्रेट करने पर जोर दिया। उन्होंने आईसीसीसी परियोजना के तहत लगाये कैमरों की जानकारी लेते हुए चौराहों पर लगे कैमरों को जूम कराकर उनकी क्षमता और गुणवत्ता को भी परखा। निरीक्षण के दौरान एस पी अभिसूचना (क्षेत्रीय) शैलेंद्र सिंह राठौर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट पीएमसी स्मार्ट सीटी (आईआईटी रुड़की) गुरप्रीत खुराना, अधिशासी अभियंता अमरेंद्र गौतम, प्रोजेक्ट मैनेजर स्मार्ट सिटी जितेंद्र सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर एनईसी विवेक जोशी, एनईसी के तकनीकी विशेषज्ञ विनित शुक्ला व आईटी ऑफिसर मोहित तलवार आदि मौजूद रहे।

प्रेस वेलफेयर एसोसिएशन (रजि.) की मासिक बैठक हुई संपन्न

अवधनामा संवाददाता

मोहम्मदी-खीरी- मोहम्मदी। शंकरपुर चौराहा स्थित हरि पैलेस वाटर पार्क में शिवम राठौर की अध्यक्षता में प्रेस वेलफेयर एसोसिएशन मोहम्मदी की मासिक बैठक संपन्न हुई। अध्यक्ष शिवम राठौर ने अपने संबोधन में आमजन की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने व आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को संगठन स्तर से जागरूकता अभियान चला कर जागरूक करने की अपील की राठौर ने बताया कि प्रेस वेलफेयर एसोसिएशन को विस्तार देते हुए संगठन में नए सदस्यों को जोड़ा जाएगा।साथ ही निष्क्रिय सदस्यों की सदस्यता निरस्त की जाएगी।संगठन के पदाधिकारी ने वाटर पार्क का भी लुफ्त लिया।इस अवसर पर महामंत्री तनवीर सिद्दीकी, संगठन मंत्री मोहम्मद इलियास, अश्वनी सिंह राजपूत, अर्जुन राठौर, तौहीद मंसूरी, एडवोकेट शुभेन्द्र प्रताप सिंह, मो. असलम रज़ा, सारिव अली मंसूरी, शहवाज सिद्दीकी, शादाब खां, शमशाद खां, इमरान मंसूरी, रियासत अली (छोटे), गोपाल मिश्रा, इमरान मंसूरी अनुज कुमार सिंह, वाहिद अली आदि उपस्थित रहे।

नाबालिग लडकी से दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

सहारनपुर। थाना नकुड पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जबकि पुलिस ने अपहृता को भी सकुशल बरामद कर लिया है। गौरतलब रहे कि 08 अप्रैल को पीड़ित ने 28 मार्च की रात्रि में अभियुक्त अरुण पुत्र महीपाल निवासी ग्राम मनोहरपुर थाना सदर बाजार उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना नकुड पर मुकदमा पंजीकृत कराया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ.विपिन ताडा के निर्देश पर थाना नकुड़ प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्त अरुण पुत्र महीपाल निवासी ग्राम मनोहरपुर थाना सदर बाजार को अम्बाला सरसावा हाईवे तिराहे के पास थाना क्षेत्र नकुड से गिरफ्तार कर अपहृता को सकुशल बरामद किया।

अखिलेश यादव की लखीमपुर और कस्ता में जनसभा 9 मई कोः अनुराग पटेल

लखीमपुर खीरी। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अनुराग पटेल ने बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सब के नेता, किसानों युवाओं के दिल की धड़कन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 9 मई को 28 खीरी लोकसभा के पार्टी प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा के लिए लखीमपुर शहर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में सुबह 11 बजे व 29 धौरहरा लोकसभा के प्रत्याशी आनंद भदौरिया के लिए मितौली विधानसभा के ग्राम कस्ता में मौर्य पेट्रोल पंप के पास मैदान में दोपहर 1 बजे विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे, अनुराग पटेल ने क्षेत्र की जनता से आव्हान किया कि भारी से भारी संख्या में दोनों जनसभाओं में पहुंच कर अखिलेश यादव को सुने और लाभ उठाएं।

आज भी रक्त का कोई धर्म,जाति या विकल्प नहींः सन्त कमल किशोर

सहारनपुर। दिव्य शक्ति अखाड़ा और वर्ल्ड ओर्गेनाईज़ेशन ऑफ रिलीजन्स नौलेज के संयुक्त तत्त्वधान मे आज आयस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल मे स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का 25 रक्तदाताओं ने सहभागिता की। इस अवसर पर 2 दिव्यांगों को रोशनी आई बैंक के सूरज जैन द्वारा प्रदत्त व्हीलचेयर आचार्य महामंडलेश्वर सन्त कमल किशोर महाराज,डॉ असलम खान,अदील फारुक और सुरेश निझावन के कर कमलों द्वारा हूर जहाँ और सुनीता रानी को प्रदान की गई। रक्तदान शिविर मे मुख्य अतिथि 156 बार के रक्तदाता दिव्य शक्ति अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर सन्त कमल किशोर महाराज ने रक्त की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रक्त ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जिसका विकल्प आज तक विज्ञान नहीं ढूंढ पाया। आवश्यकता पड़ने पर इन्सान का रक्त ही इन्सान को चढ़ाया जाता है।रक्त जीवन का आधार है, अतः हमें इसे जात-पात,धर्म-सम्प्रदाय के नाम पर नित हो रही लड़ाइयों मे न बहाकर किसी की जान बचाने के लिए दान करना चाहिए।रक्तदान से बढ़कर कोई भी दान या पुण्य का काम नहीं है।इसके लिए जनजागरण अभियान की आवश्यकता है। 67 वर्षीय सन्त कमल किशोर ने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि रक्तदान से शरीर मे कोई दुर्बलता नाही आती अपितु नया रक्त बनने से शरीर कई रोगों से मुक्त हो जाता है,अतः इस भ्रांत धारणा को मन से हटा कर रक्तदान करना चाहिए।

एटीएम मशीन से चोरी का प्रयास करते एक अभियुक्त पकड़ा

सहारनपुर। थाना कोतवाली सदर बाजार क्षेत्रान्तर्गत एटीएम मशीन से रुपये चोरी करने का प्रयास करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को पुलिस ने दबोचकर जेल भेज दिया। गौरतलब रहे कि 04 मई को अमित तवंर एडवोकेट हिताची पेमेन्ट सर्विस प्राईवेट लिमिटेड सदर बाजार सहारनपुर ने अज्ञात चोर द्वारा एटीएम मशीन से पैसे चोरी करने के प्रयास में थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराया था। विवेचना के दौरान अभियुक्त सिद्धार्थ उर्फ सिददू पुत्र मिटठन लाल निवासी न्यू लक्ष्मीपुरम ग्लीरा रोड थाना सदर बाजार का नाम प्रकाश में आया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ.विपिन ताडा ने घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक आदेश निर्देश दिये। जिसके अनुपालन में कोतवाली सदर बाजार प्रभारी संतोष कुमार त्यागी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने प्रकाश में आये अभियुक्त सिद्धार्थ उर्फ सिददू पुत्र मिटठन लाल निवासी न्यू लक्ष्मीपुरम ग्लीरा रोड थाना सदर बाजार को नवादा रोड काजीपुरा कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी युवक का चालान काटकर जेल भेज दिया।

10 कुंतल से अधिक भूसा दान देने वालों के नाम लिखे जायेंगे गौशालाओं पर

अवधनामा संवाददाता

सहारनपुर। जिलाधिकारी डॉ.दिनेश चन्द्र द्वारा भूसा दान करने की अपील किसान गौशालाओं में पहुँचकर गौसेवा करने के साथ साफ-सफाई का कार्य भी कर रहे हैं। गौशालाओं में गोवंश के चारे की व्यवस्था के लिए किसानों में उत्साह दिखाई दे रहा है। अब तक किसानों ने 03 हजार से अधिक क्विंटल भूसा दान किया है।

जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने किसानों से भूसा दान करने की अपील की थी। इसके बाद किसानों ने भारी मात्रा में गोशाला में भूसा दान करना शुरू कर दिया है। इससे काफी हद चारे की दिक्कत दूर होगी। इसके साथ ही चारे के रूप में नेपियर की घास की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जनपद के विभिन्न गोवंश आश्रय स्थलों पर 2748 गोवंश संरक्षित है।

इन गोवंशों को वर्ष पर्यान्त भरण-पोषण हेतु भूसा संरक्षित करना अति आवश्यक है। आमजन से अपील है कि निकटवर्ती गोवंश आश्रय स्थल पर अधिक से अधिक भूसा दान दें। 10 कुन्तल से अधिक भूसा दान करने वाले व्यक्तियों के नाम गोआश्रय स्थलों पर अंकित कराये जायेंगें, ताकि उनसे प्रेरणा लेकर अधिक से अधिक भूसा गोआश्रय स्थलों पर संरक्षित हो सकें। जिलाधिकारी ने बताया कि किसानों द्वारा भारी मात्रा में भूसा दान किया जा रहा है। सम्बन्धित विभाग की ओर से भी भूसा खरीदा जा रहा है। इसके अलावा हरे चारे और चोकर की भी व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रयास है कि कोई भी गोवंश भूखा न रहे। उन्होंने कहा कि भूसा दान देने वाले को सम्मानित करते हुए उनके नाम प्रत्येक वर्ष गौशालाओं पर लिखे जायेंगे। गांव चौराखुर्द निवासी किसान महक सिंह ने कामधेनु गोशाला देवबंद में सोमवार को 25 क्विंटल भूसा दान किया है। मंगलवार को ग्राम प्रधान राकेश ने स्वयं बलियाखेडी स्थित गडोला गौशाला में भूसा पहुंचाया और वहां पर साफ सफाई का कार्य भी किया। इसके अतिरिक्त अन्य कई किसानों ने भी भूसा दान करने के लिए विभाग से संपर्क किया है।

डॉ.दिनेश चन्द्र ने संबंधित सभी अधिकारियों को कहा कि अपने-अपने क्षेत्र में भूसा दान देने हेतु अधिक से अधिक कृषकों को प्रेरित करें तथा दानदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाये।

शॉर्ट सर्किट से लगी आग गृहस्ती जलकर राख

अवधनामा संवाददाता

महराजगंज रायबरेली। घर के लिए खींची गई केबल में शार्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। बुधवार भोर में हुई अग्नि दुर्घटना में बछड़ा के झुलसने के साथ ही गृह स्थी जलकर राख हो गई।

घटना महराजगंज कोतवाली क्षेत्र के कुतुब पुर बरेंदा मजरे बहादुर नगर गांव की है। गांव निवासी रामकृपाल पुत्र सेमई के घर के लिए खींची गई विद्युत केबल में बुधवार सुबह करीब तीन बजे शार्ट सर्किट की वजह से आग लग गई।पंखे की हवा में सो रहे परिजनों की नींद धुआं उठने पर खुली तो आग की लपटे उठती देख चीख पुकार मच गई। चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बिजली विभाग को फोन कर विद्युत सप्लाई बंद कराने के बाद आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। लेकिन तब तक छप्पर के नीचे बंधा दुधमुंहा बछड़ा बुरी तरह झुलस गया, और घर के अंदर पहुंची आग से राशन सामग्री सहित गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर लेखपाल हिमांशु के साथ मौके पर पहुंचे कानूनगो राजेन्द्र सिंह ने क्षति का आंकलन कर क्षति पूर्ति की रिपोर्ट सदर तहसील भेज दी है।

मई के अंत तक नाला सफाई अभियान पूरा करेंः नगरायुक्त

अवधनामा संवाददाता

सहारनपुर। शहर को जलभराव से बचाव की दृष्टि से निगम द्वारा चलाये जा रहे नाला सफाई अभियान का नगरायुक्त संजय चौहान ने

मंगलवार दोपहर निरीक्षण किया और मई तक नाला सफाई कार्य को हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने जलभराव की स्थिति में राहत के लिए क्यूआरटी (क्विक रेसपोंस टीमें) गठित करने के भी आदेश दिए।

नगरायुक्त संजय चौहान ने आज दोपहर क्रेगी नाला, खत्ताखेड़ी नाला, पुल खुमरान से बेहट रोड नाला सहित अनेक नालों की नगर निगम द्वारा करायी जा रही सफाई का निरीक्षण किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नालों की सफाई केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि इस उद्देश्य से की जाए कि वर्षाकाल में शहर में जलभराव न होने पाए। उन्होंने मई के अंत तक नाला सफाई अभियान पूरा करने के निर्देश दिए।

नगरायुक्त ने पंद्रहवे वित्त से कम से कम दो फासिंग मशीन खरीदने का भी सुझाव दिया जिनसे बड़े नालों की सफाई के अलावा गलियों के नालों की भी सफाई की जा सके। उन्होंने कहा कि जेसीबी या पोकलेन से शिल्ट तो बाहर निकल आती है लेकिन पानी पर तैरता कचरा नहीं निकल पाता।

इसके अतिरिक्त नगरायुक्त ने क्यूआरटी (क्विक रेसपोंस टीम) गठित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चार-चार कर्मचारियों की तीन टीम बनायी जाएं, सभी कर्मचारियों को जूते-दस्ताने सहित नाला सफाई के उपकरणों से लैस रखा जाए। ताकि किसी भी क्षेत्र में जलभराव की स्थिति में इन टीमों को तुरंत भेजकर वहां लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। उन्होंने इन टीमों का प्रभारी एक सफाई निरीक्षक को बनाने और जलभराव की स्थिति में कॉल करने के लिए कन्ट्रोल रुम का एक नंबर जारी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अपर नगरायुक्त एस के तिवारी,नगर स्वास्थय अधिकारी रमेश चंद गुप्ता, जेडएसओ राजीव चौधरी, मुख्य सफाई निरीक्षक चंद्रपाल व सफाई निरीक्षक मनोज आदि शामिल रहे।

इण्टर स्कूल स्केटिंग प्रतियोगिता में स्किल्ड ग्लोबिजेन्स स्कूल बना चैम्पियन

सहारनपुर। इण्टर स्कूल स्केटिंग प्रतियोगिता मे स्किल्ड ग्लोबिजेन्स स्कूल के बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन कर पदक जीतकर अपने जनपद समेत स्कूल का नाम रोशन कर दिया। आज विजेता बच्चों के जनपद आगमन पर स्कूल प्रधानाचार्य व स्टॉफ ने उनका भव्य स्वागत कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ज्ञात हो कि इण्टर स्कूल स्केटिंग प्रतियोगिता 2024 का आयोजन प्रेसीडेंसी पब्लिक स्कूल मेरठ में की गई, जिसमें जिला सहानपुर से स्किल्ड ग्लोबिजेन्स स्कूल सहारनपुर के छात्र-छात्राओं ने अपनी विलक्षण प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जिसमें अग्रिम सैनी कक्षा 5 ने स्वर्ण पदक, आयुष पण्डित कक्षा 9 ने स्वर्ण पदक, खुशी जुनेजा कक्षा 7 ने स्वर्ण पदक, अमायरा शर्मा कक्षा 7 ने स्वर्ण पदक, पाँखुड़ी बंसल कक्षा 6 ने स्वर्ण पदक व सांची मित्तल कक्षा 6 ने स्वर्ण पदक, अनुप्रिया मल्होत्रा कक्षा 6 ने स्वर्ण पदक प्राप्त किये।

09 गेहूं क्रय केंद्रों पर जिला खाद्य विपणन अधिकारी की टीम द्वारा किया गया औचक निरीक्षण

अवधनामा संवाददाता

रायबरेली। जनपद में राजकीय क्रय केन्द्रों पर गेहूँ की आवक कम होने के दृष्टिगत 06 व 07 मई को सुश्री सोनी गुप्ता, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, रायबरेली द्वारा क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, विपणन निरीक्षक व बांट माप विभाग के निरीक्षक व मण्डी सचिव तथा मण्डी निरीक्षक के साथ जनपद के मेसर्स बंसल टेड्र्स, मुंशीगंज, रायबरेली, मेसर्स हरी राइस मिल, दरीबा, रायबरेली, मेसर्स राज टेडर्स, सातव, मदरसा। मेसर्स विजय राइस मिल, शेरी, हरचन्दपुर, रायबरेली, मेसर्स अग्रहरि बिजनेस प्वाइंट, हरदासपुर। मेसर्स परी ट्रेडर्स, हरदासपुर। मेसर्स सत्यम ट्रेडर्स, हरदासपुर, मेसर्स छत्रपति इण्टरप्राइजेज, लोधवामऊ और मेसर्स जी0एल0 फूड्स, इण्डस्ट्रीयल एरिया, रायबरेली में गेहूँ के स्टॉकिस्ट, होल सेलर व ट्रेडर्स का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जनपद के गेहूँ के बड़े व्यापारी, कमीशन एजेंट, थोक विक्रेता, गेहूं स्टॉकिस्ट, होल सेलर व ट्रेडर्स द्वारा क्रय किये गये गेहूँ के स्टॉक को जिला खाद्य विपणन अधिकारी व सचल दल टीम द्वारा चेक किया गया। जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा

बांट-माप विज्ञान विभाग को निर्देशित किया गया कि जनपद के समस्त स्टॉकिस्ट, डीलर, होल सेलर व ट्रेडर्स आदि के कांटा, बांट का सत्यापन करते हुए आख्या से अवगत करायें। सभी क्षेत्रीय विपणन अधिकारियों एवं टीम के अन्य सदस्यों को गेहूं के बड़े व्यापारी, कमीशन एजेंट, थोक विक्रेता, गेहूं स्टॉकिस्ट, फ्लोर मिल पर गेहूं के अवैध संचरण व भण्डारण पर कड़ाई से प्रवर्तन कार्य कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान सभी फर्मों पर स्टॉक पंजिका भी तैयार करते हुए अद्यतन रखे जाने के निर्देश दिये गये। स्टॉक पंजिका प्रत्येक दिन की आवक दर्ज की जाये जिससे कभी भी निरीक्षण के दौरान स्टॉक की भौतिक मात्रा व ऑनलाइन फीड की गयी मात्रा का सत्यापन किया जा सके। फर्म मेसर्स अग्रहरि बिजनेस प्वाइंट, हरदासपुर के निरीक्षण में पाया गया कि फर्म द्वारा भण्डारित गेहूं एवं धान से सम्बन्धित आर अथवा आर जारी नहीं किया गया है जो कि गम्भीर अनियमितता है तथा मण्डी अधिनियम-1964 के प्रावधान के विपरीत है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा मण्डी सचिव को निर्देशित किया गया कि फर्म द्वारा जारी 6आर एवं आर की गहन जांच की जाये तथा अनियमितता पाये जाने पर विभागीय नियमों के अन्तर्गत कठोरतम कार्यवाही यथा समन शुल्क अधिरोपित करने एवं आवश्यकता पाये जाने पर अनुज्ञप्ति, निलम्बन की कार्यवाही की जाये एवं कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराया जाये।

साथ ही निरन्तर क्षेत्रों में भ्रमण कर बड़े व्यापारी, कमीशन एजेंट, थोक विकेता, गेंहू स्टॉकिस्ट, होल सेलर व ट्रेडर्स का स्टॉक एवं सम्बन्धित प्रपत्र यथा 6आर/9आर की गहन जांच करें एवं अनियमितता पाये जाने पर विभागीय नियमों के अनुसार सम्बन्धित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

मोदी में जनता को अटूट भरोसा : एसएन सिंह

देवरिया अवधनामा संवाददाता। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एसएन सिंह ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी में जनता को अटूट भरोसा है। उसी भरोसा के बदौलत भाजपा चार सौ से अधिक सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार केन्द्र में सरकार बनाएगी।भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता श्री सिंह ने ये बातें देवरिया के भाजपा प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी के समर्थन में जनसम्पर्क करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मान पूरे विश्व में बढ़ा है। देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है। महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है। सड़क, स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं।अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 की समाप्ति जैसे ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बिना किसी भेदभाव के सबके हितों के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास,पेंशन व मुफ्त राशन का लाभ भारी संख्या में लोगों को मिला है।यही कारण है कि हर जाति-वर्ग के लोग मोदी सरकार की तारीफ कर रही है।अतः लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनना तय है।

शब्बर मुर्तज़ा इंक़लाब सिरसिवी और डाक्टर कलीम सिरसिवी के इंतक़ाल पर बज़्म ए शोअरा ए मीसम की ताज़ियती मीटिंग

संभल अवधनामा संवाददाता। शायरे अहले बैत जनाब शब्बर मुर्तज़ा इंक़लाब सिरसिवी और डाक्टर कलीम सिरसिवी साहब के इंतक़ाल पर बज़्म ए शोहरा ए मीसम ने ताज़ियाती मीटिंग की। जिसमें बज़्म के मिम्बरान ने अपने सरपरस्त और मशहूर शायर जनाब इंक़लाब सिरसिवी के इंतक़ाल पर अफ़सोस ज़ाहिर किया। इस अवसर पर बज़्म के नौजवान शायर कलीम सिरसिवी की हादसाती मौत पर भी ग़म का इज़हार किया गया। नवजवान शायर कलीम असगर जो इंकलाब सिरसिवी की मौत की खबर सुनकर उनकी अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए जा रहे थे तभी महमूदपुर माफी जगह पर उनकी स्कूटी को डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मरहूमीन की मग़फ़िरत की दुआ की गई।

यूनिटी कॉलेज की कशिश फात्मा ने हाईस्कूल में 89 प्रतिशत के साथ रौशन किया सीबार का नाम

लखनऊ अवधनामा संवाददाता। यूनिटी कॉलेज की कशिश फात्मा ने आइसीएसई बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा में 89 प्रतिशत पास के साथ अपने वतन सीबार का नाम रोशन किया। कशिश फातिमा ने यह कामयाबी बिना किसी मदद के हासिल की। उसने खुद स्वयं घर पर पढ़ाई करके कामयाबी हासिल की। किसी भी तरह की कोई कोचिंग और ट्यूशन का सहारा उसने नहीं लिया। कशिश के पिता सैयद मो अली तक़वी पेशे से एक शिक्षक तथा काउंसलर भी हैं और पत्रकारिता तथा लेखन में भी पकड़ रखते हैं। कशिश के दादा सैयद मंजूरूस सिब्तैन फैज़ाबाद के प्रसिद्ध अंग्रेज़ी के शिक्षक रहे हैं और आचार्य नरेन्द्र देव अवार्ड से सम्मानित हैं। कशिश फात्मा ने बताया कि उनकी रूचि जीवविज्ञान में है और इंटरमीडिएट में वह जीवविज्ञान विषय के साथ ही पढ़ाई जारी रखेंगी।

100 प्रतिशत विकलांग का वोट डलवाने का अधिकारियों ने नमूना किया पेश

अमृतपुर फर्रुखाबाद अवधनामा संवाददाता। सन् 2024 के लोकसभा चुनाव की सरगर्मी अब लगातार तेज होती जा रही है। प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार जोरों पर हैं। कहीं कोई मतदाता मतदान करने से पीछे ना रह जाए इसके लिए सरकारी योजनाओं पर कार्य करने वाले अधिकारी भी अपने कार्य में लगे हुए हैं। दिव्यांगों का मतदान कैसे किया जाए और उन्हें लोकतंत्र में शामिल होकर इस पर्व को मनाने का मौका कैसे दिया जाए इसके लिए यह अधिकारी उनके घरों तक पहुंच रहे हैं। डीएफओ आरएस यादव नायब तहसीलदार अतुल कुमार लेखपाल कुलदीप तिवारी आज 100 प्रतिशत विकलांग गंगाराम पुत्र बाबूराम निवासी भुढ़िया भेडा थाना राजेपुर के घर पहुंच कर बैलट पेपर से वोट डलवाने का नजारा पेश किया। उन्होंने गांव वासियों को एकत्रित कर वोट डाले जाने का एक नमूना लोगों के सामने रखा और उन्हें बताया कि विकलांग व्यक्ति से वोट कैसे डलवाया जाए उसे इस लोकतंत्र के पर्व में कैसे शामिल किया जाए। इसके लिए सभी लोगों का सहयोग के रूप में आना जरूरी होता है। डमी वोटिंग कराकर मतदाता को उत्साहित किया और सभी लोगों ने तालियां बजाकर इस मतदान का स्वागत किया।

बसंत चौधरी ने जताया आभार

बस्ती अवधनामा संवाददाता। बस्ती संसदीय क्षेत्र के सल्टौवा ब्लाक मुख्यालय पर सोमवार को हुई इण्डिया अलायंस की जनसभा को सफल बनाने के लिये कांग्रेस नेता एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी बसंत चौधरी ने समथ्रकों के प्रति आभार जताया है। प्रेस को जारी विज्ञप्ति में बंसत चौधरी ने कहा देश की जनता को इण्डिया अलायंस से काफी उम्मीदें हैं। सरकार बनने पर 30 लाख नौकरियों और युवाओं को अप्रेन्टिस के जरिये 1 लाख रूपये दिये जाने की योजना प्रमुखता से लागू होगी। एमएसपी लागू होगी और कृषि से सम्बन्धित उपकरण जीएसटी के से मुक्त होंगे। इसके साथ ही महिलाओं को नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा और हर गरीब परिवार की वरिष्ठ महिला को 1 लाख रुपया सालाना दिया जायेगा। बसंत चौधरी ने कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसानों, नौजवानों, महिलाओं तथा श्रमिकों का पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होने कहा जिस तरह से इण्डिया अलायंस की बैठक में तपती धूप में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे यह इस बात का संकेत है कि रुधौली विधानसभा में इण्डिया अलायंस के प्रत्याशी को ऐतिहासिक बढ़त मिलेगी।

विभिन्न कर्मचारी संगठनो के पदाधिकारियों के साथ एडीएम (वि0/रा0) की अध्यक्षता की गई वार्ता

सकुशल, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण तरीके से निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने की सभी की जिम्मेदारी

अवधनामा संवाददाता

सिद्धार्थनगर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने विभिन्न कर्मचारी संगठनो के पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) उमाशंकर की अध्यक्षता एवं जिला विद्यालय निरीक्षक सोमारू प्रधान एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवेन्द्र कुमार पाण्डेय की उपस्थिति में वार्ता की गयी। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) उमाशंकर ने सभी कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों से अपील/अनुरोध किया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 देश का राष्ट्रीय महापर्व है। इसमें सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को आयोग के निर्देशानुसार अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सकुशल, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण तरीके से निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने की सभी की जिम्मेदारी है। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) उमाशंकर ने लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता व विभिन्न संगठनो के अध्यक्ष, जिलामंत्री, कोषाध्यक्ष सभी लोगो की उपस्थिति में वार्ता की गयी। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) ने लेखपाल संघ के अध्यक्ष को सुझाव देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराने में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार पूरा जिला प्रशासन कार्य करता है। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) उमाशंकर ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन की ड्यूटी काटने में जो महिला गम्भीर बीमारी से पीड़ित है या गर्भवती है तो जांचापरान्त उसकी ड्यूटी काटी जा सकती है। कर्मचारी संगठनों के अध्यक्ष, मंत्री व अन्य पदाधिकारियों जो जिला प्रशासन के पूरे सहयोग में लगे रहते है उन लोगो की भी निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त किये जाने के लिए विचार होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जो भी निर्देश दिये जायेगे उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। ऐसे कर्मचारी जो पति-पत्नी इसी जनपद में कार्यरत है उनमें से एक की ड्यूटी काटी जा सकती है। साथ ही साथ ऐसे कर्मचारी जो गम्भीर बीमारी से पीड़ित है उनकी मेडिकल टीम द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार ड्यूटी काटी जा सकती है। अपर जिलाधिकारी (वि/रा) उमाशंकर ने सभी लोगो को जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन का कार्य प्रत्येक दशा में आयोग के निर्देशानुसार सकुशल सम्पन्न कराया जायेगा इसमें सभी लोगो का सहयोग अपेक्षित है। इस अवसर पर उपरोक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ प्रेम सागर चौधरी, जिला मंत्री दिलीप कुमार, प्रान्तीय कोषाध्यक्ष ओमप्रकाश पाण्डेय, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ महामंत्री कलीमुल्लाह, नायब नाजिर रमाकान्त पाठक, जेए रामकेवल, आरआरके पीताम्बर यादव, अध्यक्ष राज्यकर्मचारी संयुक्त परिषद अनिल सिंह, अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ देवेन्द्र यादव, मण्डल अध्यक्ष लेखपाल संघ इम्तियाज अहमद, जिला मंत्री लेखपाल संघ आनन्द गौतम, जिला मंत्री माध्यमिक शिक्षक संघ हृदय नारायण मिश्र, जिला अध्यक्ष सिंचाई संघ राजेश श्रीवास्तव, सफाई कर्मचारी संघ जगनारायण आदि उपस्थित थे।

रोटरी क्लब द्वारा 12 को मेगा नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर

अवधनामा संवाददाता

सेवा

- विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मरीजों की करेगी जांच एवं नि:शुल्क दवा का वितरण

कसया, कुशीनगर। रोटरी क्लब कुशीनगर - 3120 एवं सिनर्जी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं कैंसर इंस्टिट्यूट गोरखपुर के संयुक्त तत्वावधान में कसया नगर के निरंकारी इंटरमीडिएट कालेज (निकट- मवेशी अस्पताल, मेन रोड) परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर 12 मई, 2024, दिन रविवार, समय प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक आयोजित है। जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा सेवा दी जाएगी।

यह जानकारी रोटरी क्लब अध्यक्ष वाहिद अली ने एक विज्ञप्ति में देते हुए बताया कि इस शिविर में विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सक जिसमे वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. आलोक तिवारी, वरिष्ठ आंकोलॉजी एवं रक्त विकार विशेषज्ञ डॉ. सौरभ मिश्रा, वरिष्ठ गायनी कैंसर सर्जन डॉ अंजलि जैन, क्रिटिकल केयर फिजिसियन डॉ हर्षित मिश्रा, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉ प्रतीक कुमार, न्यूरो सर्जन डॉ अग्रज मिश्रा, मैक्सलोफेसियल एवं ओरल सर्जरी विशेषज्ञ डॉ. तारिक अनवर, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉ. एस. चंद्रा, एमबीबीएस एम.एस. गायनी डॉ. मधुलिका सिंह, जनरल फिजिशियन डॉ. उमर जमा, डेंटल सर्जरी विशेषज्ञ डॉ शाहनिका यादव, गायनी डॉ अभिप्रिया चौरसिया, डी अर्थोपोड़ीक सर्जन डॉ पवन खरवार, बीएचएमएस डॉ जेके पटेल मरीजों की जांच कर परामर्श देंगे। आवश्यकता के अनुसार चिकित्सक की सलाह पर बीपी, वजन आदि की जांच भी होगी साथ ही आवश्यकतानुसार निःशुल्क दवा का वितरण भी किया जाएगा। रोटरी क्लब के सचिव अजय सिंह ने समस्त नगरवासियों से इस शिविर में अपने स्वास्थ्य जांच कराने की अपील की है।

मिट्टी के खनन में लगी एक जेसीबी पकड़ी

अवधनामा संवाददाता

उरई (जालौन)। अधिवक्ताओं और सभासदों की शिकायत रंगलायी। स्थानीय प्रशासन ने अवैध खनन पर लगी एक जेसीबी को पकड़ा । प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप मचा। नगर के कुछ सभासद तथा वकीलों ने नगर के प्रतापपुरा मौजे के पास अवैध खनन होने की शिकायत उप जिलाधिकारी से की थी, उक्त शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उप जिलाधिकारी अतुल कुमार, सी ओ राम सिंह, तथा कोतवाल विमलेश कुमार सहित खनन अधिकारी ने उक्त स्थान पर मिट्टी के खनन के स्थान पर छापा मार कार्रवाई की। प्रशासन की इस कार्यवाही की भनक जैसे खनन माफिया को हुई तो आनन फानन में उक्त स्थान से ट्रैक्टरों को अलग कर दिया लेकिन जेसीबी को उक्त स्थान से नहीं हटा पाए, जेसीबी मशीन को स्थानीय प्रशासन ने सींगपुरा रोड पर पकड़ा, चालक द्वारा आवश्यक प्रपत्र मांगे जाने पर वह प्रपत्रों को नहीं दिखा पाया इसके चलते उसे कोतवाली में खड़ा कराया गया। जालौन उप जिलाधिकारी ने पूरे क्षेत्र में मिट्टी खनन की मात्रा का आकलन कराए जाने का आदेश खनन अधिकारी को दिया अब जिलाधिकारी अतुल कुमार ने खनन अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि वह तहसील क्षेत्र के अन्य स्थानों का सर्वे करें जहां मिट्टी का खनन कर हुआ है सभी स्थानों का निरीक्षण कर उसका सर्वे कर पूरा आकलन करें।

अक्षय तृतीया पर बाल विवाह कुप्रथा अवैधानिक

अमेठी। निदेशक महिला कल्याण उप्र के निर्देशानुसार जिला प्रोबेशन अधिकारी अनिल कुमार मौर्य ने अवगत कराया है कि अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह को रोकने की अपेक्षा की गयी है।जिसके तहत 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह को रोकने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में भी बाल विवाह प्रचलित होने के दृष्टिगत कुछ स्थानों पर अक्षय तृतीया के अवसर पर सामूहिक बाल विवाह सम्पन्न कराये जाने की कुप्रथा प्रचलित है जिसको रोका जाना अत्यन्त आवश्यक है। उन्होंने बताया कि ऐसे बाल विवाह को शासन द्वारा अवैधानिक घोषित किया गया है जिसे रोकने के लिये शासन द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे है तथा बाल विवाह जैसी कुप्रथा के विरूद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 अस्तित्व में है। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है जिससे उन पर हिंसा शोषण तथा बच्चों के स्वास्थ्य आदि का खतरा बना रहता है तथा बाल विवाह अवैधानिक है।

जनता का मिल रहा भरपूर समर्थन: शाही

सबके प्रयास से सबका विकास ही भाजपा का मंत्र : शशांक

अवधनामा संवाददाता

देवरिया। पथरदेवा विधानसभा के मुजुरी में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रति जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है जिसका कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुशल नेतृत्व और पूरे होते वादे। पिछले दस वर्षों के कार्यकाल में पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है, हमारा देश बहुत तेजी के साथ आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अराजकता और गुंडागर्दी पर लगाम लगाया गया है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र भगवान राम अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। जनता में अति उत्साह है। सभा को सम्बोधित करते हुए देवरिया लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी शशांक मणि ने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं के वजह से और सबके प्रयास से सबका विकास की नीति के वजह से है। उन्होंने कहा कि सघन जनसंपर्क और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मिलकर किस प्रकार अधिक से अधिक मतदान कराया जाए इस बात की चिंता हमारे सम्मानित कार्यकर्ता और पदाधिकारी कर रहे हैं । पार्टी के हर कार्यकर्ता गांव गांव और घर घर जाकर लाभार्थियों से संवाद करे तथा लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान के प्रति जागरूकता लाकर प्रत्येक मतदाता की उपस्थिति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पिछले दो चरणों के चुनावों में पूर्व की अपेक्षा मत प्रतिशत में कमी आई है इस नाते हम लोगों का ये दायित्व है कि राष्ट्र हित में हर मतदाता को उसके वोट की कीमत बताएं। उन्होंने कहा कि आप सबके प्रयास से एक नए देवरिया का निर्माण संभव हो सकेगा। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता जितेंद्र प्रताप राव, ब्लाक प्रमुख रामशीष गुप्ता, मंडल अध्यक्ष जीवन पति त्रिपाठी, अवधेश सिंह, अंबुज शाही सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

गाजीपुर से 196 करेंगे हज

मदरसा दारुल उलूम कादरिया हाजियों लिए मांगी दुआ

अवधनामा ब्यूरो

गाजीपुर। जिले से इस बार तकरीबन 196 लोग हज के लिए जा रहे हैं। मदरसा दारुल उलूम कादरिया दाएरा शाह अहमद मोहल्ला टेढ़ी बाजार में उनके रुख़सती पर एक इस्तेकबलिया प्रोग्राम रखा गया। जहां पर शहरी इलाके से जाने वाले सभी हाजियों जिनकी तादाद करीब 26 है। जिसमें से 13 मर्द और 13 ख़्वातीन हैं उन्होंने शिरकत किया।

रुख़सती के इस प्रोग्राम में खुसुसी तौर से हाजियों के लिए दुआएं की गई और मुल्क की अमनो सलामती के लिए भी दुआएं की गई। इस दौरान इस मुबारक सफर पर जाने वाले हाजियों को मदरसा की तरफ़ से फूल मलाऐं पेश करके उनका खैर मक़दम किया गया। रुखसती का यह प्रोग्राम इस क़दर ग़मनाक हो गया कि लोगों की आंखें नम हो गईं। सभी एक दूसरे से गले मिलकर उन्हें हज के मुबारक सफर की मुबारकबाद देते नज़र आए। मदरसा के प्रिंसिपल मौलाना काजी शाह फरीद अख्तर कादरी ने बताया कि यह लोग हज पर खान-ए- काबा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़े की जियारत करने के साथ ही वह मुकद्दस काम के लिए जा रहे हैं जो इस्लाम में पांचवा सोतुन बताया गया है। इसलिए हम सभी ने इस मुबारक सफर पर जाने वाले हाजियों की खिदमत करते हुए इनसे दुआएं लेने के लिए इस तरीके का प्रोग्राम रखा है। साथ ही मुल्क की हिफाज़त और अमनो सुकून के लिए भी दुआएं करने को कहा है, प्रोग्राम के आखिर में मौलाना काजी शाह मोहम्मद अरशद उल कादरी की लिखी हुई मुबारकबादी मौलाना अहमद कादरी ने पढ़ा जिस पर हाजियों की आंखें नम हो गयीं।

नायब तहसीलदार को कोर्ट ने गिरफ्तार करने का दिया आदेश

गाजीपुर। विशेष न्यायधीश एसी/एसटी एक्ट शक्ति सिंह की अदालत ने तत्कालीन नायब तहसीलदार सुशील कुमार दुबे को न्यायालय द्वारा कई बार समन जारी किए। जाने के उपरांत भी उपस्थित न होने पर न्यायालय शख्स रुख अपनाते हुए। उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। साथ ही साथ एसएचओ कोतवाली को आदेशित किया है कि नियत तिथि 6 जून 2024 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करे। बताते चलें कि कोतवाली थाना गांव रजदेपुर देहाती के रामचन्दर राम ने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया था। जिसका भुगतान समय से नही कर पाया 1 जून 2012 को नायब तहसीलदार सुशील कुमार दुबे,तहसील चपरासी सूबेदार यादव तथा अमीन लाल मोहन यादव वादी के घर वसूली के लिए पहुचे।

लोन न जमा करने पर कहा सुनी कर मारने पीटने लगे। जाति सूचक शब्दो से अपमानित भी किये। उक्त घटना के बाबद वादी ने न्यायालय में 2 जून 2012 को मुकदमा दायर किया।

रुपए हड़पने की नियत से जनसेवा केंद्र संचालक की हुई हत्या

एसपी ने किया घटना का खुलासा, दो गिरफ्तार

अवधनामा संवाददाता

- पेट्रोल पंप कर्मचारी राहुल रुपये लेने के लिए अजहरुद्दीन के पास गया था
- आरोपियों ने अजहरुद्दीन के शव को बोरी में भर कर मक्का के खेत में फेंका था

फर्रुखाबाद। रुपये हड़पने के इरादे से जनसेवा केंद्र सचालक की गला घोंट कर हत्या कर दी और उसके शव को मक्का के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने दो हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने घटना का खुलासा किया है। थाना शमशाबाद क्षेत्र में तीन दिन पहले जनसेवा केंद संचालक अजरुद्दीन की हत्या को अंजाम दे कर शव को मक्का के खेत में फेक दिया था। राहुल निवासी रोशनाबाद थाना शमसाबाद पेट्रोल पंप पर काम करता है राहुल आईपीएल मैच में रुपए हार गया था। जनसेवा केन्द्र संचालक अजहरुद्दीन की रोशनाबाद में दुकान थी। वह लोगो को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के साथ ही साथ उधार लेने देन भी किया करता था। पेट्रोल पंप कर्मचारी राहुल रुपये लेने के लिए अजहरुद्दीन के पास गया और 50 हजार रुपये अपने मोबाइल में ट्रांसफर करा लिए थे। राहुल 50 हजार रुपए आईपीएल में हार गया था तोजनसेवा केंद संचालक ने अपने रुपये मांगना शुरू कर दिया था। राहुल और उसके बॉल अभिचारी साथी ने रुपये हड़पने की नियत से हत्या की योजना बनाई थी। राहुल ने जनसेवा केंद्र संचालक को रुपये देने के बहाने पैट्रोल पंप पर बुलाया था। राहुल ने अपने बॉल अभिचारी साथी के बाद अजहरुद्दीन की रस्सी से गला कसकर हत्या की थी। पेट्रोल पंप के कमरे में हत्या करने के बाद आरोपियों ने अजहरुद्दीन के शव को बोरी में भर कर मक्का के खेत में फेंक दिया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया हत्यारोपियों के पास मृतक का मोबाइल फोन हत्या में प्रयुक्त की गई रस्सी को भी बरामद कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने घटना का खुलासा करने बाली पुलिस टीम को 25 हज़ार रुपए का पुरुस्कार देने की घोषणा की है।

मतदान कार्मिको का द्वितीय रेंडमाइजेशन एवं माइक्रो आब्जर्वर का प्रथम इमाजेशन संपन्न

उरई (जालौन) अवधनामा संवाददाता। 45 लोकसभा के पांचवे चरण की मतदान तिथि नजदीक आते ही विधान सभा वार एन आई सी सभाकक्ष उरई मे मतदान दलों के गठन के लिए द्वितीय इमाइजेशन के साथ माइक्रो आब्जर्बर प्रथम इमाजेशन संपन्न हो गया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, निर्भय होकर कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने बताया निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले मे मतदान कार्मिको की तैनाती 10 प्रतिशत आरक्षित सहित कुल 1622 मतदान दल बनाते हुए 175 माइक्रो आब्जर्वर विधान सभा वार चयन हुए जिसका प्रशिक्षण शीघ्र कराया जायेगा। प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक /सी डी ओ शिवाकांत द्विवेदी के कथनानुसार द्वितीय रेंडमाइजेशन मे 10 प्रतिशत आरक्षण करते हुए पीठासीन अधिकारी प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी, तृतीय मतदान अधिकारी प्रत्येक के 1622 कार्मिको का चयन करते हुए कुल 6488 कार्मिको का चयन हुआ के आलावा 175 माइक्रो आब्जर्वर का चयन सम्मलित है। उन्होंने बताया कि 8 मई को माइक्रो आब्जर्वर का प्रशिक्षण समय सुवह 10 बजे से 1 बजे तक तो वही मतदान कार्मिको का द्वितीय प्रशिक्षण 9 मई से 14 मई तक दोनों पालियो मे राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई के हॉल मे प्रशिक्षण दिया जायेगा उक्त मीटिंग दौरान उप जिला मजिस्ट्रेट /उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार, डी आई ओ, एन आई सी दीप निगम एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्र प्रकाश आदि सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा मूल टी.सी. (बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, लखनऊ) वास्तव में खो गया है। जिसके द्वितीय प्रतिलिपि की दरकार है। मैंने मूल टीसी का कहीं भी अन्यत्र उपयोग नहीं किया है।

मलिक आलमीन पुत्री नजीर अहमद मलिक, निवासी- ईदगाह रोड, बेलसड, थाना व जिला- सिद्धार्थनगर

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पहले मेरा नाम शगुफ्ता एजाज था। मैंने अपना नाम शगुफ्ता शाहीन रख लिया है, अब हमें इसी नाम से जाना व पहचान जाये।

शगुफ्ता शाहीन
509, इडेन इन्क्लेव
कुर्सी रोड, लखनऊ

एमएल कन्वेंट स्पेस स्कूल के 15 वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिकोत्सव मनाया गया

अवधनामा संवाददाता

उरई (जालौन)। एमएल कन्वेंट स्पेस स्कूल जालौन में विद्यालय के 15 वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिकोत्सव मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि श्री राजेश चंदेल पूर्व राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी व प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा जखा, विशिष्ट अतिथि डॉ संजीव गुप्ता, सुनील यादव, अलीम सर उरई, एड अजीज अहमद, सुशील बाजपेई, संतोष पोरवाल,संजय गुप्ता उरई, संतोष सेंगर, पवन अग्रवाल, अरविंद श्रीवास्तव, डॉ रमेश दोहरे, प्रेम कुमार उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलन के साथ अतिथियों के स्वागत गीत का प्रस्तुतीकरण किया गया। तत्पश्चात प्री प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक के बच्चों को सर्वाधिक अंक, उत्कृष्ट लेखन, व्योमिका स्पेस लैब वर्कशॉप, क्रिएटिव और स्मार्ट छात्र के लिए और सर्वाधिक उपस्थिति के लिए भी अलग-अलग कैटेगरी में प्रमाण पत्र, मेडल व ट्रॉफी का वितरण एकेडमिक इंचार्ज श्रीमती शालिनी गुप्ता और उपस्थित अतिथियों के द्वारा स्टूडेंट्स को किया गया। विद्यालय के छात्र देव, हायरा, सिद्धांत, पार्थ, प्रगति, संस्कृति, लकी,अनुष्का, सौम्या, यश, आस्था, गौरी, अवनी अनुष्का अन्य छात्रों ने इन विभिन्न श्रेणियां में पुरस्कारों को जीता इस मौके पर बच्चों को उनके माता-पिता के साथ सम्मानित किया गया । कार्यक्रम का संचालन प्रदीप गुप्ता व संयोजन सुनील त्रिपाठी ने किया।कोला कोला डांस करके बच्चों ने सभी अतिथियों का मन मोह लिया। तत्पश्चात प्राइमरी विंग ने पुष्पा डांस की प्रस्तुति की, बच्चों के डांस को देखकर दर्शकों ने खूब तालियां बजाई। ताइक्वांडो ट्रेनर रितेश सर के निर्देशन में बच्चों ने मार्शल आर्ट और ताइक्वांडो का प्रजेंटेशन किया। आग से जलती हुई टाइल्स और मार्बल कक्षा 5 के छात्र अंश, राज ने एक ही झटके में हाथ से तोड़ डाला।डांस ट्रेनर अभिषेक रोज जो तमिलनाडु से हैं उन्होंने सीनियर क्लास के बच्चों की एक शानदार प्रस्तुति मेमे जो कि अपने देश के वीर जवान और शहीदों को समर्पित थी।

सूचना

सर्व साधारण को मेरे क्लाइन्ट आधार हाउसिंग फाइनेन्स लि0 जिसका ब्रान्च आफिस शाप / नं0 122सी, द्वितीय तल देवरिया बाईपास गोरखपुर पिन नं0-273001 है, की तरफ से सूचित किया जाता है कि वाहिद अली पुत्र श्री गल्लर निवासी- शेखनगर तेतरी बाजार, नौगढ़, सिद्धार्थनगर (उ0प्र0) ने सम्पत्ति को क्रय किया, जिसका आराजी नं0-57 में 1760 वर्गफीट जो मौजा-वेलसड, तप्पा थरौली परगना व तहसील नौगढ़, जिला- सिद्धार्थनगर (उ0प्र0) एवं जिसकी चौहदी निम्न है- उत्तर-खेत कबीर, दक्षिण-12.5 फीट चौड़ रास्ता, पूरब-प्राइवेट प्लाट नं0-1. पार्ट आफ आराजी नं0-57. पश्चिम- प्राइवेट प्लाट नं0-3, फार्ट आफ आराजी न0-57 को क्रय करने के लिये ऋण हेतु आवेदन किया है। उपरोक्त सम्पत्ति को जिस किसी भी व्यक्ति या किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान को या उपरोक्त आराजी के सह खातेदार व अन्य कोई ट्रांजेक्शन या विक्रय के बावत या किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी भी व्यक्ति को प्रश्नगत सम्पत्ति को आधार हाउसिंग फाइनेंस लि0 में बन्धक रखने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो इस प्रकाशन से 7 दिन के अन्दर नीचे दिये गये पते पर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी और तदनुसार वाहिद अली पुत्र गल्लर निवासी शेखनगर तेतरी बाजार, नौगढ़ सिद्धार्थनगर (उ0प्र0) के पक्ष में आधार हाउसिंग फाइनेंस लि0 गोरखपुर द्वारा नियमानुसार ऋण का भुगतान कर दिया जायेगा।

प्रमोद कुमार
एडवोकेट वादकारी
कक्ष कलेक्ट्री कचहरी,
गोरखपुर,
मो0 नं0 -9453273040

छात्र-छात्राओं ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली, बताया वोट का महत्व

अवधनामा संवाददाता

अयोध्या। मतदाता जागरूकता रैली निकली. रैली रामबली इंटर कॉलेज के हजारों छात्र-छात्राओं

के आलावा शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हुए। रैली में शामिल सभी छात्र-छात्रा मतदाता जागरूकता रैली से संबधित बैनर तथा होर्डिंग अपने-अपने हाथों में लेकर मतदाताओं से मतदान जरूर से जरूर करने की अपील कर रहे थे। स्लोगन वोट करें, देश गढ़ें, पहले मतदान, फिर जलपान आदि नारे लगा रहे थे. कॉलेज परिसर से निकाली गयी यह रैली गोसाईगंज कस्बे का भ्रमण करने के बाद कॉलेज परिसर में पहुंचकर समाप्त हो गयी। विद्यार्थी पहले मतदान फिर जलपान, चाहे नर हो या नारी मतदान सबकी जिम्मेदारी, वोट डालने जाना है अपना फर्ज निभाना है, सत्य और ईमान से सरकार बनाएगें , अब जागो प्यारे मतदाता ,वोट हमारा अधिकार कभी न करें इसका बहिष्कार, सारे काम छोड़कर पहले मतदान जैसे कई नारा लगाकर लोगों को जागरूकता का संदेश दिया गया। इस दौरान स्कूल के प्रधानाचार्य सरोज दुबे ने कहा कि भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक देश है, भारत के नागरिकों को शत-प्रतिशत मतदान देकर एक शसक्त सरकार का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाना चाहिए। धर्मेंद्र सिंह तहसीलदार बीकापुर ने कहा कि हर नागरिक जिनका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो गया है, वे सभी लोकसभा चुनाव प्रत्याशी को चुनने के लिए 25 मई को मतदान केंद्र में जाकर अपना निष्पक्ष मतदान जरूर करें। कोई भी व्यक्ति मताधिकार से वंचित नही रहना चाहिए। इस मतदाता जागरूक रैली में आरबीएन इंटर कॉलेज के अध्यक्ष जगदीश जायसवाल, धर्मेंद्र सिंह तहसीलदार बीकापुर, अनुराग सिंह बीडीओ मया, इंद्रभान अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गोसाईगंज, थाना प्रभारी परशुराम ओझा गोसाईगंज, तथा रामबली स्कूल के अध्यापक एवं अध्यापिका का उपस्थित थे।

धूमधाम से मनाई गई पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह की तीसरी पुण्यतिथि

अवधनामा संवाददाता

अयोध्या। राष्ट्रीय लोकदल अवध जोन के अध्यक्ष चौधरी रामसिंह पटेल के आवास लीलापुर में राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह की तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एनडीए लोकसभा प्रत्याशी सांसद लल्लू सिंह व बीकापुर के विधायक डाक्टर अमित सिंह चौहान मौजूद रहे। । कार्यक्रम की अध्यक्षता रामकैलाश वर्मा ने किया जिसका संचालन जिला महासचिव संगठन प्रवक्ता रामशंकर वर्मा ने किया। मुख्य अतिथि सांसद लल्लू सिंह, विधायक डाक्टर अमित सिंह चौहान, रालोद अवध जोन अध्यक्ष चौधरी रामसिंह पटेल, जिला अध्यक्ष बलराम यादव सहित कार्यकर्ताओं व किसानों ने चौधरी अजित सिंह व चौधरी चरण सिंह के चित्र पर फूलमाला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर सांसद लल्लू सिंह ने चौधरी साहब के चरणों में अपना श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके जीवन के संघर्षों को याद किया उन्होंने कहा कि चौधरी साहब जीवन पर्यन्त किसानों के लिए काम

किया किसानों के जीवन स्तर को उठाना ही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने किसानों को किसान सम्मान निधि, उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को सिंचाई हेतु मुफ्त बिजली दे रही है किसानों गरीबों के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने तमाम कल्याणकारी योजनाएं लाकर गांव गली को सवारने का काम किया है हमे आप सब अपना आशीर्वाद देकर देश के सबसे बड़ी महापंचायत में भेजने का काम करें और जिससे पुनः नरेंद्र मोदी की सरकार बनकर देश और प्रदेश का चौमुखी विकास कर सके क्षेत्रीय विधायक डाक्टर अमित सिंह चौहान ने चौधरी अजित सिंह को नमन करते हुए कहा कि चौधरी अजित सिंह ने हमारे पिता जी मुन्ना सिंह चौहान को एमएलसी बनाया व सिंचाई विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया ऐसे किसान मसीहा के जीवन से हमें सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व के कारण किसानों को अपनी फसल बेचने के बाद शीघ्र उसका भुगतान मिल पा रहा है धान, गेहूं, केंद्र पर तौल करने के 24 घंटे के अंदर किसानों को भुगतान मिल रहा है क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाने का काम हमारी सरकार में हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में भी 22 घंटे बिजली मिल रही है आप से लोकसभा चुनाव में सांसद लल्लू सिंह के लिए वोट और सपोर्ट मांगने के लिए आया हूं। राष्ट्रीय लोकदल अवध जोन के अध्यक्ष चौधरी रामसिंह पटेल ने चौधरी अजित सिंह को याद करते हुए नमन किया और अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में आए सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए सबका आभार प्रकट किया और सभी से एनडीए गठबंधन प्रत्याशी सांसद लल्लू सिंह को वोट और सपोर्ट देने का संकल्प दिलाया ।

बकरी चोर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, भेजा गया जेल

मिल्कीपुर -अयोध्या। कुमारगंज पुलिस ने बकरी चोर को चोरी की बकरी के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के इटौंजा गांव निवासी महताब पुत्र दराब की दो बकरियां घर के दरवाजे पर बंधी थी। रात में करीब दो बजे बकरियों के चिल्लाने पर जब घर के लोग नींद से जगे तो देखा कि एक बकरी गायब है?। घर वालों ने रात में ही खोजबीन शुरू कर दी। लेकिन बकरी का कोई पता नहीं लगा। सुबह महताब पड़ोसी जनपद अमेठी के रानीगंज बाजार में लगने वाली बकरी मंडी पहुंच गए व बकरी खोजने लगा तो देखा कि गांव के ही पवन कुमार पुत्र रामकृपाल उम्र लगभग 20 वर्ष चोरी की बकरी बेचने के लिए पहुंचे हैं। जब महताब ने पवन से पूछा कि बकरी तो मेरी है, आपको कहां से मिली तो वह कुछ नहीं बोला और भागने की कोशिश किया।

डीएम व एसपी ने नामांकन स्थल का किया निरीक्षण

महराजगंज। लोकसभा सामान्य निर्वाचन हेतु आज पहले दिन शुरुवात हुई निर्वाचन को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने हेतु जिलाधिकारी अनुनय झा और पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा द्वारा नामांकन स्थल का निरीक्षण किया गया। दोनों अधिकारियों ने पूरे परिसर कर सीसीटीवी, नामांकन कक्ष, प्रत्याशियों, कलेक्ट्रेट कर्मचारियों के लिए और आमजन के लिए निर्धारित मार्गों और बैरियर को देखा। दोनो अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को देखा। कलेक्ट्रेट में लोहिया पार्क से लेकर कलेक्ट्रेट गेट संख्या 02 तक आने वाले विभिन्न मार्गों पर स्थापित बैरिकेड को देखा और निर्देशित किया कि बैरिकेड से आगे केवल अनुमन्य लोगों को जाने दें। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी लोग सतर्क और सक्रिय रहें। नामांकन कक्ष के भीतर प्रत्याशी सहित अधिकतम 05 लोगों को ही प्रवेश करने दें। इससे अधिक लोगों को प्रवेश न दें। उन्होंने नामांकन कक्ष के बाहर सूचना पट्ट पर फॉर्म 3ए को भी चस्पा करने का निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक ने भी पुलिस कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिया। इसके उपरांत पूर्वाह्न 11:00 बजे जिलाधिकारी ने नामांकन प्रक्रिया के शुरू होने की उद्घोषणा की। इस दौरान उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों को भी पढ़ा। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी डॉ पंकज कुमार वर्मा सहित अन्य संबंधित लोग उपस्थित रहे।

भाजपा के सामने लक्ष्य बड़ा तो गठबंधन के सामने हार की बेड़ी तोड़ने की चुनौती भी नही कमतर

बाराबंकी। हर चुनाव से पहले अंदाजा कयास समीकरण जीत हार के दावे का दौर चलता है और वही दौर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वजूद में है। सबके अपने अपने दावे और गुणाभाग है इसमें भी कोई सन्देह नही कि लड़ाई दो दलों के बीच मे सिमट कर रह गई है पर सच्चाई यही है कि हर बार की तरह इस चुनाव के नतीजे भी हैरत में डालने वाले होंगे। जीत हार का अंतर भले ही बहुत ज्यादा न हो पर गठबंधन उम्मीदवार को इस बार भी नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। उनकी उम्मीद में कोई कमी नही और न ही उनकी मेहनत पर ही शक है पर भगवा दल के प्रत्याशी ने उनकी विजय की राह कठिन कर रखी है इसे भी नकारा नही जा सकता। वैसे भी बीजेपी नेतृत्व ने हालात को देखते हुए भले ही उम्मीदवार बदला हो पर कम समय मे ही चुनौती का माहौल बना देना भी वर्तमान प्रत्याशी के बूते की ही बात थी, गठबंधन उम्मीदवार तो फिर पुराना चेहरा ही है। अब जीत किसे और हार किसे चुनेगी यह तो 4 जून ही बताएगा।

भाजपा उम्मीदवार को ऐन वक्त बदले जाने के पीछे कारण सबको पता है। बदलाव से पहले कई नाम फिजां में उभरे थे पर भाजपा नेतृत्व ने जो नाम चुना वह सबको हैरत में डाल गया, उम्मीदवार जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत ने अपना नाम सामने आते ही बिना देर किए दौड़भाग शुरू कर दी उनके पास समय की कोई कमी नही थी पर लोकसभा क्षेत्र बड़ा व सबके सम्पर्क आने की समस्या जल्दबाजी करने की वजह बन गई, उस पर से दलगत व्यस्तता अलग से। खैर अब बात करें गठबंधन उम्मीदवार तनुज पुनिया की तो उनका नाम भाजपा प्रत्याशी से पहले ही सामने आ चुका था, इसलिए वह मैदान में सक्रिय हो चुके थे।

राजनीति के कुशल खिलाड़ी डॉ पीएल पुनिया के पुत्र के रूप में तनुज ने विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव लड़ा पर दुर्भाग्य कहें या फिर कोई और वजह उन्हें जीत का स्वाद अब तक नही मिल सका। अलग बात है कि उनकी मेहनत, जनसंपर्क काबिले तारीफ रही और वह बेहतर योद्धा साबित हुए पर राजनीति में संतोष जनक स्थिति लड़ाई नही जीत मानी जाती है जो अब तक उनकी झोली में नही गिर सकी है। वर्तमान में वह गठबंधन से उम्मीदवार हैं पहले सिर्फ कांग्रेस से उतरते थे इस बार गढ़ की पहचान का भी सहारा है। यह सहारा उनकी पुरजोर उम्मीद की वजह तो है पर गठबंधन के नाते कड़ी चुनौती भी। उनके उम्मीदवार बनते ही दलबदल होना इस बात की ओर इशारा कर गया कि सपा नेतृत्व ने भले ही जमकर साथ देने का निर्देश दे रखा हो पर बड़े नेताओं को छोड़कर निचले स्तर पर सबको एकजुट कर पाना उम्मीदवार के लिए कम परेशानी नही रही। एक बाधा और भी सदर विधानसभा में एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण गठबंधन के पक्ष में जोड़ दिया जाए पर हर विधानसभा में यह समीकरण कम कठिन नही।

सीधे तौर पर लड़ाई बेहद रोमांचक दौर में है। भाजपा उम्मीदवार को गठबंधन से कड़ी चुनौती हासिल हो रही और इस बार उनका मुकाबला भी कमजोर नही है पर एक अंतर तो है भाजपा उम्मीदवार महिला होने के नात आमजन के दिलो में तेजी से उतरती जा रही और उनका स्वभाव सबको भा रहा है। पार्टी के नेताओ कार्यकर्ताओ की मेहनत उम्मीदवार के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। ऐसा नही कि उन्हें अंतर्विरोध का सामना न करना पड़ा हो पर समय रहते उन्होंने इस पर नियंत्रण पा लिया पर यही काम गठबंधन में मुश्किल हो गया। बात करें मेहनत, जनसंपर्क और सब तक पहुंचने की तो दोनों ही उम्मीदवार एक दूसरे से होड़ ले रहे हैं पर बात करें अपनी जीत पर भरोसे की तो वह दोनों में से एक मे ही नजर आ रहा है। बाकी पहले से कौन दावा करे इसके लिए 4 जून का ही इंतजार बेहतर रहेगा।

समाजवादी पार्टी महानगर कार्यालय पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की हुई संयुक्त बैठक

अवधनामा संवाददाता

अयोध्याधाम। समाजवादी पार्टी महानगर कार्यालय लोहिया भवन पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद को जीत दिलाने के लिए पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन की मोजुदगी में कांग्रेस एवं आप पार्टी नेताओं के साथ गठबंधन नेताओं की संयुक्त बैठक संपन्न हुई।

बैठक की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव व संचालन महानगर महासचिव हामिद जाफर मीसम ने किया बैठक में मुख्य रूप से कांग्रेस महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल आप महानगर अध्यक्ष कुलभूषण साहू व गठबंधन दल के पदाधिकारी सहित सपा महानगर के पदाधिकारी व पार्षदगण मौजूद रहे ,बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने कहा की चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं भाजपा घबरा गई है इसलिए मोदी को अयोध्या आना पड़ा, लेकीन उनके रोड शो में

स्थानीय भीड़ नदारत थी ये इस बात का प्रमाण है की की फैजाबाद लोकसभा से गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद भारी मतों से जीत रहे हैं जनता ने मन बना लिया है, महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव ने कहा इस चुनाव में संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद को जीताने के लिए पूरे महानगर क्षेत्र में घर घर जाकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा किए गए कार्यों को बताना है, उन्होंने कहा आज भाजपा केवल झूठ और धर्म के नाम का सहारा लेकर सत्ता में आना चाहती है, कांग्रेस महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने कहा की हमारे नेता राहुल गांधी जी ने लगातार भारत जोड़ो यात्रा चलाया उसमें आपार प्रेम जनता द्वारा मिला उससे भाजपा घबरा गई है , एक तरफ हमारे नेता पैदल चल रहे हैं एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री कुर्ते पे कुर्ता बदल रहें है।

आज जो भी विकास दिख रहा है वो कांग्रेस का किया हुआ है राम की पैड़ी कांग्रेस के दौर में बनी, आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही कर रही है जो आवाज बुलंद करता है उसको जेल में डाल देती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीश सिसोदिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया ये तानाशाही ही है, संजय सिंह को जमानत मिल गई है वो लगातर सभाएं भी कर रहे हैं, अबकी इण्डिया गठबंधन की सरकार बनाने का जनता ने मन बना लिया है।

संदिग्ध परिस्थितियों में मिला 55 वर्षीय अधेड़ का शव

अवधनामा संवाददाता

मिल्कीपुर- अयोध्या। खण्डासा थाना क्षेत्र के नरसड़ा गांव के पास शारदा नहर के किनारे मंगलवार सुबह थाना क्षेत्र के ही मिश्रौली गांव निवासी अधेड़ किसान का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। मृतक के बेटे की सूचना पर पहुंची खण्डासा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया। मिश्रौली गांव निवासी किसान रामकरन यादव उम्र 55 वर्ष सोमवार की रात भोजन के उपरांत घर से खेत के लिए निकला था। वापस न होने पर परिजन उनकी तलाश कर रहे थे। सुबह-सुबह जानकारी हुई की नरसड़ा गांव के पास शारदा सहायक नहर कि उत्तरी पटरी के किनारे उनका शव पड़ा है। उनके बेटे रंगीलाल ने घटना की सूचना खण्डासा पुलिस को दी। सूचना पर दलबल के साथ पहुंचे थानाध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया। मृतक के शरीर पर चोट के कोई जाहिरा निशान नहीं देखे गए। पुलिस प्रथम दृष्ट्या हार्टअटैक से किसान की मौत होना मान रही है।

ग्राम प्रधान सहित दर्जनों लोग शामिल हुए भाजपा

अवधनामा संवाददाता

अयोध्या। बीकापुर विधान सभा की रैथुआ ग्राम पंचायत के प्रधान मो इश्तियाक सहित दर्जन भर लोग भाजपा में शामिल हुए। लोक सभा कैम्प कार्यालय सहादतगंज में सांसद लल्लू सिंह ने सभी को पार्टी का ध्वज देकर भाजपा में शामिल कराया। भाजपा में शामिल होने वालों में हबीउल रहमान, मो. साहिद, अब्दुल मुस्तली, मो. मुजम्मिल, मो. वारिस, मो. आफताब, मो. असगर, अब्दुल समद, मो. गुफरान सहित अन्य लोग शामिल हैं।इस दौरान सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में जनधन खाता, उज्जवला गैस योजना, हर घर नल से जल, प्रधानमंत्री आवास, इज्जत घर, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सामूहिक विवाह योजना, कन्या सुमंगला योजना, मुत राशन जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से बिना भेदभाव सभी को इसका लाभ मिला है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हुए विकास को देश के हर व्यक्ति ने किसी न किसी रूप में महसूस किया है।

पिछड़ा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष ने मनाया डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जन्मदिन

अवधनामा संवाददाता

मिल्कीपुर-अयोध्या। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष एवं खिहारन प्रधान अजीत मौर्य के नेतृत्व में धूमधाम से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जन्मदिन मनाया गया।भाजपा नेता ने क्षेत्र के खिहारन गांव स्थित दलित बस्ती में डिप्टी सीएम के जन्मदिन पर गरीबों के बीच में फल और मिठाई बांटी।इस मौके पर अजीत मौर्य ने हवन-पूजन कर डिप्टी सीएम के दीर्घायु होने की प्रार्थना भी किया। भाजपा नेता ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पिछड़ा वर्ग का गौरव तथा मौर्य समाज का सम्मान बताया। दलित बस्ती में पहुंचे भाजपा नेता ने गरीबों के उत्थान के लिए भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताया। उपमुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाने वालों में बीडीसी इंद्रजीत,खुशी मौर्या,कोटेदार काशीराम यादव,संतोष गुप्ता,रवी साहू,गुलजार खान, गया प्रसाद यादव,मोहम्मद इरफान,राजा खान,सुरेश रैदास,सोनू रैदास,रोशन लाल,देवीचरण,रवींद्र रावत, लल्लू रैदास,कुन्ना देवी,अनीता देवी,सुनीता,कल्याणी,केवलपता,शक ुंतला देवी, सरस्वती,रीता देवी,सावित्री,इंद्रावती,रन

डॉ अमित वर्मा ने सीएचसी पूरा बाजार का गौरव बढ़ाया

पूरा बाजार- अयोध्याधाम। प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन पार्थ सारथी सेन शर्मा ने पूरा बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉ अमित वर्मा को प्रशस्ति पत्र भेज कर सम्मानित किया है प्रमुख सचिव ने प्रशास्त्रि पत्र में कहा है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के नेशनल क्वालिटी एवं लक्ष्य इश्योरेन्स के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरा बाजार अयोध्या ने वर्ष 2023 -24 में 86.1त्न अंक प्राप्त कर नेशनल क्वालिटी एश्योरेन्स लक्ष्य सर्टिफिकेशन प्राप्त करने का गौरव प्राप्त किया है इसके लिए प्रमुख सचिव ने सीएचसी की पूरी टीम को भी बधाई दिया है डॉ अमित वर्मा ने प्रमुख सचिव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सच्ची मानवता की सेवा के लिए सदैव कार्य करता रहता हू प्रशस्ति पत्र पाकर काफी हर्ष हुआ है इससे आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है

भाजपा सरकार ने दिया भयमुक्त विकासयुक्त शासन : सर्वजीत

रुदौली- अयोध्याधाम। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सांसद लल्लू सिंह के पक्ष में मतदान करने को लेकर विधानसभा रुदौली के वरिष्ठ नेता व पूर्व ब्लाक प्रमुख रुदौली सर्वजीत सिंह लगातार दौरे पर दौरा कर रहे हैं आज उन्होंने सुजागंज, दफियापुर, खंडपिपरा, परसऊ, शाहपुर, कोपेपुर, कोटरा, हसनामऊ, ऐथर, विचाला, हयातनगर, हलीमनगर, रहीमगंज, रहीमगंज धौरहरा, शहवाजपुर सहित तमाम गांवों में पहुंचकर चौपाल लगाकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सभी वर्गों को साधते हुए सबसे सांसद लल्लू सिंह को भारी मतों से जिताकर भाजपा को मजबूत करने का आवाहन किया। कार्यक्रम में उनके साथ मौजूद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुन्ना सिंह ने अल्पसंख्यक समाज के लोगों को संबोधित करते हुए बताया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऊंच नीच भेदभाव दंगा फसाद यह सब कम हुआ है।

इण्डिया गठबंधन की सरकार बनी तो नौजवानो को 1लाख रूपये सालाना दिया जायेगाः तनुज पुनिया

अवधनामा संवाददाता

बाराबंकी। दस सालो की मोदी सरकार ने देश की आवाम को हसीन सपने दिखाकर लूट खसोट का काम किया है, अब जनता भाजपा को हटाकर इन्डिया गठबन्धन के प्रत्याशी को जिताकर इतिहास बनाने जा रही है आप सभी कर्मयोगी विकास पुरूष स्व0 बेनी बाबू की फौज के वह सिपाही है जिन्होने विपरित परिस्थितयो में जीत का परचम फहराया है।

ये बात पूर्व सांसद डा पीएल पुनिया ने आज विधानसभा क्षेत्र जैदपुर के विकास खण्ड हरख के ग्राम हरख में पूर्व प्रमुख सुरेन्द्र सिंह के साथ इन्डिया गठबन्धन के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर फीता काटकर मौजूद जनता के बीच व्यक्त किये। जनसम्पर्क अभियान के इसी क्रम में इन्डिया गठबन्धन प्रत्याशी तनुज पुनिया ने विकास खण्ड त्रिवेदीगंज में व्यापक जनसम्पर्क अभियान चलाकर मतदाता से इन्डिया गठबन्धन के पक्ष में मतदान करने की अपील की। जनसम्पर्क अभियान के दौरान तनुज पुनिया ने स्थानीय आवाम से

कहा कि इन्डिया गठबन्धन की सरकार बनते ही देश के अन्नदाता का कर्जा माफ किया जायेगा, गरीब परिवार की एक महिला को 8500 रूपये महीना दिया जायेगा और बेरोजगार डिग्री धारक, नौजवानो को 1लाख रूपये सालाना दिया जायेगा, किसान की फसल का स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार समर्थन मूल्य दिया जायेगा, मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी 400 रूपये होगी इस बात की गारन्टी कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में दिया है और वही गारन्टी कार्ड जो आपको दिये गये है इसमें कांग्रेस पार्टी के पांच न्याय और 25 गारन्टीयो का जिक्र किया गया है। आप अपने परिवार की खुशहाली के लिये इन्डिया गठबन्धन को वोट देकर प्रत्याशी को भारी मतो से विजयी बनाये। जनसम्पर्क अभियान के दौरान विकासखण्ड त्रिवेदीगंज के अध्यक्ष सुशील वर्मा, मास्टर सईद, रामरूप यादव, परशुराम यादव, सहित दर्जनो की संख्या में इन्डिया गठबन्धन के कार्यकर्ता मौजूद थे। विकास खण्ड हरख में इन्डिया गठबन्धन के कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर पूर्व सांसद डा0 पी0एल0 पुनिया के साथ प्रमुख रूप से पूर्व प्रमुख हरख सुरेन्द्र सिंह वर्मा, विधानसभा समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शानू, ब्लाक अध्यक्ष समाजवादी पार्टी केशवराम वर्मा, कांग्रेस ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष अध्यक्ष सन्त शरण वर्मा, अजीत वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, अमीर सिंह, रूप नरायण वर्मा, फूलचन्द्र वर्मा, मो0 इजहार, फतेह मोहम्मद, गयासुद्दीन प्रधान, शिवराम यादव प्रधान, शिव सिंह पूर्व प्रधान, राम प्रकाश यादव, डा0 रमेश चन्द्र, जसवंत वर्मा, पुत्तू लाल वर्मा सहित सैकडो की संख्या में इन्डिया गठबन्धन के कार्यकर्ता मौजूद रहे।

प्रचार सामग्री प्रसारण, प्रकाशन से पूर्व प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य

अवधनामा संवाददाता

बाराबंकी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक दलों एवं उनके प्रत्याशियों के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों को किसी भी प्रकार की प्रिंट, ऑडियो या वीडियो प्रचार सामग्री को समाचार पत्रों आदि में प्रकाशित अथवा टीवी न्यूज़ चैनल्स, ऑन लाइन मीडिया या सोशल मीडिया में प्रसारण से पूर्व मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) से प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सत्येंद्र कुमार ने जनपद स्तरीय एमसीएमसी का गठन कर दिया है। इस कमेटी में प्रचार सामग्री के प्रकाशन अथवा प्रसारण हेतु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जिला सूचना कार्यालय, नेहरू नगर, कम्पनी बाग, बाराबंकी में उक्त सामग्री को प्रेषित किया जा सकता है। सूचना कार्यालय का फोन नंबर 0548-222894 पर सम्पर्क किया जा सकता है। इस कमेटी से प्रमाण पत्र प्राप्त प्रचार सामग्री ही प्रकाशन या प्रसारण योग्य मान्य होगी। प्रचार सामग्री के प्रकाशित या प्रसारित होने में हुए व्यय का प्रत्याशी के व्यय में शामिल किए जाने का प्रावधान है।

बाराबंकी बी ने किया उत्सुकता का समाधान

बाराबंकी। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की सहायक अध्यापक श्रीमती सपना चावला द्वारा बनाए गए बाराबंकी बी कार्टून के माध्यम से बताया गया है कि यदि कोई मतदाता जानना चाहता है कि उसका नाम एएसडी सूची में आ गया है, तो वह किस प्रकार मतदान कर सकता है। बाराबंकी बी ने इसका उत्तर देते हुए बताया कि पीठासीन अधिकारी द्वारा अभिलेखों के आधार पर आपकी पहचान की पुष्टि की जाएगी और आपको अनुलग्नक 14 पर घोषणा पत्र भरने के बाद मतदान करने की अनुमति होगी।

कुर्मी वोटरों की सेंधमारी से किसको फायदा किसको नुकसान

अवधनामा संवाददाता

महराजगंज। कुर्मी बाहुल्य लोकसभा सीट महराजगंज में कुर्मी समाज में जबर्दस्त सेंधमारी दिख रही है। यह समाज पिछले नौ चुनावों से भाजपा सांसद पंकज चौधरी को वोट करता आ रहा है। वे छ बार के सांसद हैं। इस बार कुर्मी बिरादरी के वीरेंद्र चौधरी के इंडिया गठबंधन से मैदान में आ जाने से यह समाज आश्चर्यजनक ढंग से उनकी ओर मुखातिब हो रहा है। कुर्मी वोटरों में इस तरह के बिखराव से भाजपा उम्मीदवार की परेशानी बढ़ गई है।

महराजगंज लोकसभा क्षेत्र मिश्रित आबादी का मिला जुला क्षेत्र है। यहां कुर्मी और ब्राम्हणों की आबादी लगभग बराबर बराबर है जिसकी संख्या करीब साढ़े तीन तीन लाख है। मुसलमान यहां 16 प्रतिशत है। यादव की आवादी भी करीब इतनी ही है। दलितों की आवादी भी ढाई लाख के आसपास है। वोटरों का यह बड़ा वर्ग किसी के भी हार जीत का पैमाना होता है। गैर ब्राम्हण सवर्ण वोटर ज्यादातर भाजपा के साथ होता है लेकिन अकेले यह वर्ग किसी भी दल के प्रत्याशी के जीत की इबारत तब तक नहीं लिख सकता जब तक यादव, ब्राम्हण, कुर्मी और दलित वोटरों का साथ नहीं मिलेगा। ब्राम्हण व कुर्मी सहित अन्य पिछड़े वोट भाजपा की जीत आसान करती रही है। इस बार यह गणित गड़बड़ा रहा है। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के कुर्मी जाति का होने के नाते कुर्मी वोटरों में 80-20 का बंटवारा हो रहा है। यादव और मुस्लिम वोट एक मुश्त इंडिया गठबंधन को मिलना तय है। एक बात यह उल्लेखनीय है कि कांग्रेस विधायक और इंडिया गठबंधन उम्मीदवार वीरेंद्र चौधरी पूर्व में बसपाई रहे हैं। इस वजह से दलित समाज को अपने पाले में करने का ढंग उन्हें मालूम है। खास बात यह है कि दलित समाज में संविधान की रक्षा का जुनून है। उनमें यह घर कर गया है कि भाजपा चार सौ पार का नारा इसलिए दे रही है ताकि वह बाबा साहब की लिखी संविधान को बदल दे। भाजपा के कुछ नेताओं का ऐसा बयान भी उनके घरों में गूंज रहा है। इस वजह से भी यह समाज इंडिया गठबंधन के साथ आ रहा है। मध्यम वर्ग मंदिर मस्जिद सुनते सुनते थक गया है। इन घरों का नौजवान अब रोजगार मांग रहा है। प्रतिशत भले ही कम हो लेकिन मध्यम वर्ग भी भाजपा से मुंह फेरने लगा है। फिलहाल महराजगंज का चुनावी समीकरण अभी ऐसा ही है लेकिन इससे किसी के हार जीत की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती । हां भाजपा उम्मीदवार इस चुनाव में जिस तरह गांव गांव घूमने को मजबूर हैं,उसे देख कहा जा सकता है कि इस बार मामला आसान नहीं है।

मेधावी छात्रों का विद्यालय में सम्मान समारोह

अवधनामा संवाददाता

- छात्रा प्रीती प्रजापति द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई
- कॉलेज के प्राचार्य डॉ आरजू अब्बास ने अतिथियों का स्वागत किया

जलालपुर अम्बेडकरनगर। महावीर प्रसाद स्मारक महिला पी जी कॉलेज,आशीपुर,जलालपुर में यू पी बोर्ड के इंटरमीडिएट के मेधावियों का सम्मान समारोह मुख्य अतिथि नरेन्द्र देव इंटर कॉलेज जलालपुर के प्रधानाचार्य लखमी चंद के द्वारा माँ सरस्वती के छवि चित्र पर दीप प्रज्जवलन व माल्यार्पण के साथ प्रारम्भ हुआ। छात्रा प्रीती प्रजापति द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई।

कॉलेज के प्रबंधक कमला प्रसाद वर्मा द्वारा सभी अतिथियों का माल्यार्पण, स्मृति चिह्न एंव अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह में यू पी बोर्ड के इंटरमीडिएट के परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली 101 मेधावी छात्राओं को मेडल व महापुरुषों के छवि चित्र भेंट कर सम्मानित किया गया। प्रदेश में सातवां व जनपद में द्वितीय स्थान प्राप्त जानता इंटर कॉलेज, फतेहपुर, बड़ागाँव की छात्रा रुनझुन पटेल व जनपद में आठवां स्थान प्राप्त छात्रा आरती चौहान को विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त 94 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त सृष्टि, रेशु तिवारी, माही सोनी, निशा नूरी आदि मेधावी छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य लखमीचंद ने विद्यार्थियों के उपलब्धि की सराहना करते हुए जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति के लिए प्रेरित किया। विशिष्ट अतिथि बाबा बरुआ दास पीजी कॉलेज के पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर डॉ नंदलाल चौधरी ने सफलता प्राप्ति हेतु कड़ी मेहनत पर बल देते हुए सम्मानित होने वाले मेधावियों से प्रेरणा लेने की बात कही। विशिष्ट अतिथि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्या आशा वर्मा, समाजसेवी व पूर्व मंत्री माननीय अहमद हसन के पूर्व प्रतिनिधि आफताब अहमद तथा जलालपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र बहादुर सिंह ने विद्यार्थियों को प्रेरित करने हेतु अपने विचार रखें।

कॉलेज के प्राचार्य डॉआरजू अब्बास ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर भौतिक विज्ञान प्रवक्ता जितेंद्र कुमार त्रिपाठी के निर्देशन में श्रुति सोनी आदि छात्राओं द्वारा ड्रोन टैक्सी प्रोजेक्ट का सफल प्रदर्शन किया गया इस अवसर पर विभिन्न कॉलेजों के प्रबंधक मोहम्मद जावेद अख्तर, मोहम्मद अरशद, राजेश वर्मा, एहसान उल हक आदि एवं प्रधानाचार्य अकबर एजाज, मोहम्मद जफर, सचिव मंडी परिषद सेवाराम वर्मा, एडवोकेट रक्षा राम, मिथिलेश वर्मा व फूलचंद आदि उपस्थित रहे। कॉलेज के उप प्रबंधक संजीव कुमार वर्मा ने सभी अतिथियों का आभार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सरदार पटेल स्मारक इंटर कॉलेज लालपुर के प्रवक्ता अजय वर्मा द्वारा किया गया।

प्रेक्षकगणों ने भारत-नेपाल बॉर्डर का किया निरीक्षण

सिद्धार्थनगर अवधनामा संवाददाता। लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सकुशल, शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष वातावरण में सम्पन्न कराये जाने को लेकर प्रेक्षक (सामान्य) श्रीमती नीमा अरोडा व प्रेक्षक (पुलिस) श्रीमती एस0 मल्लिखा ने मंगलवार को भारत-नेपाल बॉर्डर अलीगढ़वा और ककरहवा बॉर्डर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसएसबी तथा पुलिस बल के जवानों से सुरक्षा के दृष्टिगत वार्ता कर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखने हेतु निर्देशित किया। इस दौरान बॉर्डर पार से आ रहे वाहनो को भी चेक किया गया।

वैष्णवी सहाय ने आईसीएससी बोर्ड परीक्षा में 96 प्रतिशत अंक लाकर बढ़ाया मान

सिद्धार्थनगर अवधनामा संवाददाता। नगरपालिका परिषद सिद्धार्थनगर के सिविल लाइन वार्ड निवासी व सभासद धनन्जय सहाय की भतीजी वैष्णवी सहाय ने आईसीएससी बोर्ड परीक्षा में 96 प्रतिशत अंक लाकर परिवार सहित स्कूल व शुभचिंतको का मान बढ़ाया है। वैष्णवी सहाय की माता नेहा व पिता रिपुंजय सहाय ने अपनी पुत्री को मिठाई खिलाकर हौसला अफजाई किया। वैष्णवी सहाय की सफलता पर शिक्षकों, शुभचिंतकों व परिवार के लोगों में हर्ष का माहौल व्याप्त है। सभी ने शुभकामनाएं देते हुए मंगलमय जीवन व जीवन में उत्तरोत्तर सफलता की कामना की है। वैष्णवी सहाय ने अपने गुरुजनों, माता- पिता व परिवारीजनों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह सब मेरे गुरुजनों, माता- पिता व परिवारीजनों के पढ़ाई में सहयोग व आशीर्वाद का प्रतिफल है।

पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में मुख्य अतिथि का किया स्वागत

शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर अवधनामा संवाददाता। शोहरतगढ़ कस्बे में स्थित शिवपति इंटर कॉलेज शोहरतगढ़ में लोकसभा चुनाव पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में मुख्य अतिथि जयप्रकाश निषाद पूर्व मंत्री व विधायक उत्तर प्रदेश सरकार, लोकेश प्रजापति राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पिछड़ा आयोग को माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान सम्मेलन में भाजपा जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान, सांसद जगदंबिका पाल, विधायक विनय वर्मा, रवि अग्रवाल, कृष्ण दीपक तिवारी, पूजा पाल, नगर पंचायत अध्यक्ष शोहरतगढ़ उमा अग्रवाल, राजा योगेन्द्र प्रताप सिंह, युवराज धनुर्धर प्रताप सिंह, संतोष पासवान, रमेश मणि त्रिपाठी, शिव शक्ति शर्मा व जिले के भाजपा पदाधिकारी आदि लोग मौजूद रहे।

दुकानों की पुनः नीलामी 9 मई को

सिद्धार्थनगर अवधनामा संवाददाता। जनपद न्यायाधीश के आदेशानुसार दीवानी न्यायालय सिद्धार्थनगर के मुख्यालय परिसर में स्थित कैन्टीन, फोटो कापी मय फोटोग्राफी की दुकान संख्या-2, जनरल स्टोर एवं बेकरी की दुकान, भूजा की दुकान व पान की दुकान की पुनः नीलामी 9 मई समय अपराह्न 1:30 बजे दीवानी न्यायालय के सभागार में कराया जाना निश्चित किया गया है। जिस किसी को उक्त नीलामी में भाग लेना हो, वह उपरोक्त निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होकर नियमानुसार नीलामी में भाग ले सकते हैं। उक्त आशय की जानकारी प्रमोद कुमार सिंह-II अध्यक्ष, नीलामी समिति/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) सिद्धार्थनगर द्वारा दिया गया है।

दुष्कर्म का आरोपी वांछित अभियुक्त चढ़ा पुलिस के हत्थे

सिद्धार्थनगर अवधनामा संवाददाता। सुश्री प्राची सिंह पुलिस अधीक्षक के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के कुशल निर्देशन, सुजीत राय क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण, रोहित कुमार उपाध्याय थानाध्यक्ष उसका बाजार के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को थाना उसका बाजार पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 77/24 धारा 366,376,506 भादवि में वांछित अभियुक्त बृजभान पुत्र मलखान निवासी मरवटिया थाना उसका बाजार को गिरफ्तार कर, आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर न्यायालय भेजा गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का में उनि0 अशोक कुमार पाल व हेका0 रामकिशुन यादव थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर शामिल रहे।

दुष्कर्म का आरोपी गया जेल

अंबेडकरनगर। नाबालिक किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में वांछित चल रहे आरोपी को मालीपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। संबंधित मामला थाना क्षेत्र के एक गांव का है जहां आरोपी युवक नाबालिक को बहला फुसला कर अपने साथ लेकर चला गया था। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ नामजद शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने तत्समय अकबरपुर कोतवाली अंतर्गत शहजादपुर पंडा टोला निवासी अंशु पुत्र जियालाल के खिलाफ संबंधित धाराओ में मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। मंगलवार को आरोपी युवक को मालीपुर पुलिस ने मालीपुर चौराहे से गिरफ्तार कर लिया है। मालीपुर थानाध्यक्ष शिवांगी त्रिपाठी ने बताया की आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है।

पूर्व माध्यमिक विद्यालय गौहनियाराज के स्काउट और गाइड ने मतदाताओं को मेंहदी लगाकर किया जागरूक

डुमरियागंज सिद्धार्थनगर। मंगलवार को ब्लाक क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय गौहनियाराज के बच्चों ने शत प्रतिशत मतदान करते हुए मतदान का प्रतिशत बढ़ाने लिए जागरूकता रैली निकाली। विशेष जागरूकता के लिए महिलाओं के हाथों पर मेंहदी से 25 मई मतदान दिवस पर कई डिजाइन से मतदान हेतु जागरूक कर इस अनोखे तरीके से मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। जागरूकता रैली को प्रधानाध्यापक, स्काउट मास्टर और बी0एल0ओ0 ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानाध्यापक मो. आरिफ उस्मानी ने बच्चों से कहा कि वे अपने अभिभावकों को जागरुक करें की किसी प्रलोभन में न आएं और न किसी के बहकावे में या भय में मतदान करें। मतदान ऐसे प्रत्याशी को करें जो विकासवादी सोच रखता हो। यदि कोई पार्टी या कार्यकर्ता धमकी या लालच देता है तो चुनाव आयोग के टोल फ्री नंबर 1950 पर सूचित करें। निर्वाचन आयोग द्वारा आरोपी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। स्काउट मास्टर कुलदीप कुमार के नेतृत्व में निकली रैली की स्काउट और गाइड ने गांव में मतदाता जागरूकता गीत गाते हुए अभिभावकों से सौ प्रतिशत मतदान कर लोकतंत्र का मजबूत प्रहरी होने का संदेश देने की इच्छा जाहिर की। गाइड बच्चियों ने गांव की महिलाओं को बिठाकर उनके हाथों पर पहले तो खूबसूरत आकृतियां बनाई फिर हिंदी में 25 मई मतदान दिवस लिखकर मतदान के प्रति जागरुक किया। इस दौरान बीएलओ प्रमिला वर्मा, मो.आरिफ उस्मानी, कुलदीप कुमार, अर्जुन कुमार, विजय प्रकाश गौतम आदि सहित भारी संख्या में छात्र, छात्राएं मौजूद रहे।

गर्भावस्था की शुरुआती तीन माह में फोलिक एसिड के इस्तेमाल से न्यूरल ट्यूब जन्मजात विकृति की संभावना खत्मः डॉ. ओझा

भनवापुर के वैनियां खास में अधीक्षक ने किया माता बैठक का औचक निरीक्षण

अवधनामा संवाददाता

डुमरियागंज सिद्धार्थनगर। भनवापुर ब्लाक क्षेत्र के वैनियाखास में अधीक्षक सीएचसी सिरसिया डॉ. शैलेंद्र मणि ओझा ने संचार गतिविधि एवं माता बैठक का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एएनएम विमल गुप्ता, आशा संजू, आंगनवाड़ी मंजू तथा गांव की माताओं के साथ संचार गतिविधि के कार्यक्रम के तहत माता बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान डॉ. ओझा के द्वारा बताया गया कि गर्भावस्था की शुरुआती 3 माह में फोलिक एसिड के इस्तेमाल से न्यूरल ट्यूब जन्मजात विकृति, कटे होंठ और तालू, समय से पहले जन्म, जन्म के समय कम वजन, गर्भपात, गर्भ में खराब विकास तथा हृदय संबंधित बीमारियों से बच्चों को बचाया जा सकता है। डॉ.ओझा ने पर्यवेक्षक राजीव त्रिपाठी, बीसीपीएम मैराज अहमद तथा बीएमसी सूर्यदेव सिंह के साथ गांव में टीकाकरण से इंचार्ज ने अभिभावक कल्पू, जोखू, मुन्नू तथा महफूज आदि से वार्ता करते हुए टीकाकरण के फायदे के विषय में जानकारी दी तथा टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। अंत में डॉ.ओझा द्वारा बताया गया कि गर्भावस्था के दौरान कम से कम चार बार प्रसव पूर्व जांच जरूरी है। इस दौरान कोमल यादव, सुनीता, भानमती, नीलम, सावित्री, मंजू, चिनका देवी आदि उपस्थित रहे।

एनटीपीसी प्रांगण में आयोजित होगी बालिका सशक्तिकरण मिशन कार्यशाला

अवधनामा संवाददाता

अम्बेडकरनगर। ग्रीष्मकालीन अवकाश आते ही एनटीपीसी प्रांगण में बालिकाओं के स्वागत सत्कार की तैयारियां शुरू हो जाती है। कार्यालयीन कामों के बीच एनटीपीसी परिवार में अधिकारीगण बालिकाओं के आगमान से लेकर उनके खाने पीने जैसी प्रत्येक छोटी व्यवस्था पर मंत्रणा शुरू कर देते हैं। इसी श्रृंखला में दिनांक 06.05.2024 को एनटीपीसी टांडा में बालिका सशक्तीकरण अभियान-2024 (जेम) के आयोजन हेतु बालिकाओं का बेसलाइन सर्वेक्षण और मेडिकल चेकअप कर्मचारी विकास केंद्र में आयोजित किया गया। इस आयोजन में परियोजना के आसपास के प्राथमिक विद्यालयों की 40 बालिकाओं ने बेसलाइन सर्वेक्षण और मेडिकल चेकअप में भाग लिया। एनटीपीसी लिमिटेड, भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी है। एनटीपीसी वर्ष 2018 से अपनी प्रमुख सीएसआर गतिविधि के अन्तर्गत बालिका सशक्तीकरण अभियान का आयोजन करती है। इस बार एनटीपीसी 42 चिन्हित स्थानों पर समाज के वंचित वर्गों के लगभग 3000 मेधावी बच्चों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। यह बालिका सशक्तीकरण अभियान-2024 का एक नया रूप है जिससे लाभार्थी बालिकाओं की कुल संख्या 10,000 से ऊपर हो जाएगी।

धनुष यज्ञ व परशुराम लक्ष्मण संवाद का सजीव मंचन देख प्रफुल्लित हुए दर्शक

अवधनामा संवाददाता

डुमरियागंज सिद्धार्थनगर। भनवापुर ब्लाक क्षेत्र के बुढ़ियाटायर गांव में चल रहे श्रीशत् चंडी महायज्ञ व श्रीरामलीला में सोमवार को धनुष यज्ञ व परशुराम लक्ष्मण संवाद के लीला का सजीव मंचन किया गया। कलाकारों के द्वारा निकाली गई झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। लीला मे सीता जी माता गौरी की पूजा के लिए फुलवारी से फूल तोड़ने जाती हैं। उसी फुलवारी में भगवान श्रीराम के दर्शन होते हैं। सीताजी की नजर श्रीराम पर पड़ती है तो वह मोहित हो जाती हैं।

- **भनवापुर के बुढ़ियाटायर में चल रहे श्रीशत् चंडी महायज्ञ व श्रीरामलीला में कलाकारों ने मोहा दर्शको का मन**

माता गौरी की पूजा करते समय सीता जी अपने वर के रूप में श्रीराम को मांगती हैं। राजा जनक गुरु विश्वामित्र के साथ राम व लक्ष्मण को धनुष यज्ञशाला ले गए। यहां देश-विदेश के राजा सुंदर सिंहासनों पर विराजमान थे। राजा जनक ने अपनी प्रतिज्ञा के बारे में सभी को अवगत कराया कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीताजी का विवाह होगा। सभी राजाओं ने बारी-बारी से धनुष तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। निराश राजा जनक को देखकर विश्वामित्र का इशारा पाकर भगवान श्रीराम धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और धनुष टूट जाता है। इसके बाद श्रीराम व सीताजी एक-दूसरे के गले में वरमाल डाल देते हैं। इसी बीच तपस्या के दौरान धनुष टूटने का आभास होने पर परशुराम जी राजा जनक के सभा में पंहुंच कर धनुष तोड़ने वाले को दंड देने की बात कहते हैं। परशुराम व लक्ष्मण के बीच संवाद होने के बाद परशुराम जी श्रीराम को अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते के लिए देते हैं, जो श्रीराम के हाथों में आते ही चढ जाता है। जिसके बाद परशुराम श्रीराम व सीता को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। इस दौरान अशोक शास्त्री, रमाकांत तिवारी, शिवप्रसाद यादव, अरविंद, अमन, राजमन, राजू, अमित, अजय आदि लोग उपस्थित रहे।

मिट्टी निकालने गई बालिका की तालाब में डूबने से मौत

अवधनामा संवाददाता

पौली। धनघटा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत हडिया माफी मे मंगलवार को गावं के निकट स्थित तालाब से मिट्टी निकालने गई 13 वर्षीय बालिका तालाब में डूब गई। ग्रामीणों ने उसे जब तक बाहर निकाला तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जानकारी के अनुसार धनघटा थाना क्षेत्र के हडिया माफी गाँव की एक 13वर्षिय बालिका राधना पुत्री बलिराम निषाद अपने सहेलियो के साथ गाँव के निकट सिवान मे स्थित एक तालाब मे मिट्टी निकालने गई थी। मिट्टी निकालने के बाद तालाब मे स्नान करने लगी। गहरे पानी मे जाने से डूबने लगी तो साथ वाले बच्चे शोर मचाने लगे शोर सुन कर गाँव के लोग व परिजन मौके पर पहुँच बालिका को बचाने कोशिश करते तब तक बालिका तालाब मे डूब गई। ग्रामीणो ने बालिका को बाहर निकाला तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बालिका की मौत की खबर मिलते ही परिजनो में कोहराम मच गया। मृतक बालिका गाँव के प्राथमिक विद्यालय में चौथी कक्षा कि छात्रा थी।

एसडीएम व सीओ ने संवेदनशील बूथ का किया निरीक्षण, दिए निर्देश

अवधनामा संवाददाता

जलालपुर अम्बेडकरनगर। एस डी एम तथा सीओ ने अति संवेदनशील बूथ कम्पोजिट विद्यालय रामगढ़ का रविवार को निरीक्षण किया। लाव लश्कर के साथ पहुंचे उप जिलाधिकारी सुभाष सिंह ने अति संवेदनशील बूथ कंपोजिट विद्यालय रामगढ़ का निरीक्षण कर वहां व्याप्त खामियों के बावत अधीनस्थों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि चारदीवारी, बिजली, पानी, सड़क तथा शौचालय समेत अन्य आवश्यक बिंदुओं की जांच पड़ताल की गई। एसडीएम के साथ क्षेत्राधिकारी देवेंद्र कुमार मौर्य, नायब तहसीलदार हुबलाल तथा थानाध्यक्ष वंदना अग्रहरि भी मौजूद रहीं।

चुनाव आयोग द्वारा राजा भट्टाचार्जी बने व्यय प्रेषक

अवधनामा संवाददाता

अंबेडकरनगर। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में चुनाव आयोग द्वारा व्यय प्रेषक राजाभट्टाचार्जी (आई डीए एस) को बनाया गया है। व्यय प्रेषक प्रत्येक दिन एनआईसी कक्ष कलेक्ट्रेट अंबेडकरनगर में दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। चुनाव संबंधी कोई भी शिकायत/ सुझाव को व्यय प्रेषक को दे सकता है। शिकायत/ सुझाव को लोकसभा सामान्य निर्वाचन क्षेत्र के मोबाइल नंबर 8528502061 पर भी दिया जा सकता है। फोन पर शिकायत/ सुझाव 24 घंटे दिए जा सकते हैं। शिकायतकर्ता की शिकायत एवं पहचान को गोपनीय रखा जाएगा। व्यय प्रेषक द्वारा संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की गई, जिसमें चुनाव संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए बैठक के दौरान वरिष्ठ कोषाधिकारी बृजलाल, जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार द्विवेदी, लाइजिंग अधिकारी संतराम वर्मा,समस्त सहायक व्यय प्रेषक तथा संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे।

अनियंत्रित ट्रक घर में घुसा बाहर सो रहे दंपति चोटिल

अवधनामा संवाददाता

पौली। धनघटा थाना क्षेत्र के राम जानकी मार्ग पर स्थित दुल्हापार के तेलियागंज गांव में सोमवार रात भोर मे करीब तीन बजे एक लोड ट्रक अनियंत्रित होकर एक घर मे घुस गया जिससे घर कि दिवाल आंशिक रुप से छतग्रस्त हो गई । वही घर के बाहर सो रहे पति-पत्नी बाल-बाल बच गये। जानकारी के अनुसार स्थानीय थाना क्षेत्र के रामजानकी मार्ग पर स्थित दुल्हापार चौराहे के 200 मीटर पूरब तेलियागंज रामजानकी मार्ग से उतर दिशा में सुबाष और श्री राम पुत्र उदित मकान है।

सोमवार कि रात भोर मे करीब तीन बजे पश्चिम तरफ से तेज गति से आ रहा लोड ट्रर्क अनियंत्रित होकर घर मे घुस गया। दरवाजे पर सो रहे पत्नी सहित सुबाष ट्रर्क कि चपेट मे आ गये। गनीमत था कि दिवाल में टकराकर ट्रर्क उसी मे फस गया। जिससे पति-पत्नी को मामूली चोट लगी। और अनहोनी घटना होने से बच गई। शोर सुन गाँव के तमाम लोग इक्ट्ठा हो गये और दंपति को बाहर निकाला गया। इस घटना से गाँव मे घन्टो अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। घायलो को सीएचसी मलौली ले जाया गया जहां चिकित्सकीय परीक्षण बाद घायल को डाक्टर वापस घर भेज दिए। गाँव के अशोक प्रजापति, संतोष कुमार, रामप्रिति, शिवचरन, घनश्याम आदि का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियो कि लापरवाही से सडक पर मानक के विपरीत दो पहिया ,चार पहिया चालको तेज गति से चलने के कारण आये दिन घटनाए हो रही है। लोग तेज गति से चलाने वाले वाहन चालको पर रोक लगाने की माँग किया है।

वायनाड से रायबरेली

राहुल के लिये 2019 के लोकसभा चुनाव ने कांग्रेस को अपना गढ़ छोड़ वाय नाड की शरण में जाना पड़ा। अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस परिवार का पुराना और भावनात्मक रिश्ता रहा है। अमेठी से राहुल को हराने वाली स्मृति इरानी फिर चुनाव में भाजपा प्रत्याशी है। सर्वेक्षण और अनुमान भाजपा के लिये मुलाबी तस्वीर पेश कर रहे है। कांग्रेस और कुछ लोग इसे कांग्रेस की रणनीति बता रहे है। पर आदमी दो जगह से चुनाव लड़ता है तो वह उसकी कमजोरी ही बताती है। कांग्रेस रायबेरली और अमेठी को लेकर बहुत मन्थन कर रही थी। इसीलिये बहुत देर से सोनियां गांधी की सीट पर राहुल को वायनाड के बावजूद यहां से भी उतारा। अमेठी के बजाय रायबरेली से जीतने की उसे काफी उम्मीद है। अब मतदाता कहां तक उनकी उम्मीद पूरा करता है यह 4 जून बतायेगा।

रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस की शून्यता पार्टी के लिये इज्ज़त का सवाल बनी रही है। इसे भरने के लिये कांग्रेस को दिमाग में हमेशा मन्थन चलता रहा है। अनुमान था कि इस बार रायबरेली और अमेठी के लिये राहुल और प्रिंयका को उम्मीदवार घोषित किया जायेगा। दिन बीतते रहे। नामांकन की आखिरी तारीख सामने आ गयी तो राहुल के रायबरेली से पर्च भरवा दिया गया। अमेठी से के.एल.शर्मा को अमेठी से पर्चा भरवा दिया गया। राहुल के खिलाफ भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह जो मंत्री भी है चुनाव लड़ रहे है। किशोरी लाल कांग्रेस के विश्वास पात्र और बहुत करीबी है पंजाब के रहने वाले है। अमेठी में कांग्रेस का करोबार संभालते रहे है। गांधी परिवार से पारिवारिक रिश्ते है। जब कांग्रेस परिवार रायबेरली और अमेठी उतरा तो दोनो जगह का करोबार सभालते रहे है।

प्रियंका के उम्मीदवारी के कयास लगते रहे पर वे अभी तक कही से भी नहीं उतारी गयी है। वो कांग्रेस का रथ हाकने की भूमिका निभा रही है। विश्लेषकों का अनुमान है वायनाड की सीट चुनाव के बाद खाली कराकर प्रियंका को उतारा जायेगा, अगर कांग्रेस वहां से जीतती है।

रायबरेली से सोनिया के जीतने का अन्तर भाजपा के आ जाने से बहुत कम हो गया था। भाजपा कार्रकर्ता इस बार सीट को हथियाने के लिये उत्साहित है। सोनियां ने राज्यसभा का रूख अपने को सुरक्षित रखने के लिया किया है। भाजपा राहुल का रायबरेली आना भाजपा हार के डर से भागना बता रही है। कांग्रेस इसे कांग्रेस का उत्तर भारत खासकर यूपी से प्रेम बता रही है। जो हो अगर प्रधानमंत्री बनाना है, जिसके लिये कांग्रेस राहुल के पीछे कब से जोर लगा रही है तो उसे यूपी में अपने को मजबूत करना होगा। अभी हालात उसके अनुकूल नहीं है सपा से मदद ले रही है। कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा काफी कमजोर है। एक बार सपा कांग्रेस का मेल कांग्रेस को कुछ दिला नही सका था। मोदी राहुल और अखिलेश को फ्लाप शहजादे बताते है। कांग्रेस अपने को आक्रमक दिखाने की कोशिश कर रही है। अभी कई चरणों की वोटिंग बाकी है। कांग्रेस और गांधी परिवार की साख दांव पर लगी हुई है। कांग्रेस रामलला में तो नहीं गयी पर रायबरेली में गांधी परिवार पूजा अर्चना के बाद नामांकन किया है। फल तो मतदाता ही देगे।

‘बुरे फंसे’ पुस्तक नीरस जीवन में भरती है रस

आकांक्षा प्रिया

पिछले दिनों मेरे द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तक रही ‘बुरे फंसे’, जो कि एक हास्य नाटक है। लेखिका एवं व्यंग्यकार रिंकल शर्मा द्वारा रचित यह पुस्तक आज के नीरस जीवन में रस भरने का काम कर सकती है, या यूँ कहें कि उदास मन में हँसी के फुहारे बरसाते हुए हमारे अंतर्मन को गुदगुदा जाती है।

175 पृष्ठों के इस हास्य नाटक को पढ़ते हुए पाठक कभी भी उलझता हुआ या बोरियत-जैसा महसूस नहीं कर सकता। बल्कि पढ़ते-पढ़ते ऐसा लगता है जैसे मंच पर कोई नाटक चल रहा हो और हम दर्शक बन अपनी सीट पर बैठ हंसते हुए लोट-पोट हुए जा रहे हों।

नाटक में कई पात्र हैं, और नाटक के मूल कथ्य के चतुर्दिक माहौल

भी हास्य-रस से भरा पूरा है। नाटक को पढ़ते हुए मुझे कभी-कभी शरद जोशी के उपन्यास पर आधारित हास्य सीरियल लापतागंज की याद आ गई जिसका निर्देशन अश्विनी धीर और धरम वर्मा ने किया है। यह नाटक वैसे तो बहुत सारे पात्रों के साथ प्रस्तुत किया गया है और सभी अपने-आप में एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं, लेकिन नाटक का मुख्य पात्र है जमींदार खानदान का इकलौता चश्मो-चिराग कन्हैयालाल उर्फ़ कल्लन। कहानी उसके घर जो कि उसकी एक पुरानी पुरखों की जर्ज़र हवेली है -- से शुरू होती है जिसमें परिवार के नाम पर उसकी दादी और घर की नौकरानी चंपा रहती है। चंपा भले ही नौकरानी है लेकिन रहन-सहन, और बोलचाल में घर के सदस्य-सा ही हक़ रखती है। आय के नाम पर उस जर्ज़र हवेली के दुसरे छोर पर रहने वाले किराएदार रहमत शेख- जो अपनी बेगम फ़रजाना और बेटी शबनम के साथ रहता था-- के ही मासिक किराए से ही इनका गुजर-बसर हो जा रहा था। और रहमत भी कुछ बड़ा हासिल करने की फिराक में दाने की तरह-तरह बीच-बीच में दादी और कल्लन पर जरूरत के मुताबिक पैसे फेंका करता है। उसका लक्ष्य यह है कि कल्लन और शबनम की शादी करा सके और हवेली अपने नाम करा ले। लेकिन शबनम छज्जू नाई से प्रेम करती है और उसी से शादी करने की जुगत में कल्लन को शीशे में उतारते हुए ख़ूब बेवकूफ बनाती है।

बाकी तो मंच पर चल रहे इस नाटक में और भी कई सारे पात्र, जैसे-सब्जी वाला, पान वाला, हलवाई, दर्जी, मैकेनिक आदि भी हैं जिसमें कि हर किसी की अपनी जगह पर दमदार भूमिका रही है।

इस हास्य नाटक में कल्लन और उसके स्वर्गीय दादाजी को अंग्रेजों से मिली बंदूक ही पूरे नाटक की जान है। नेता जी द्वारा यह घोषणा की जाती है कि 15 अगस्त के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों को पांच-पांच लाख रुपए दिए जाएंगे। जब कल्लन यह सुनता है तो वो अपने किराएदार रहमत शेख के साथ ख़्याली पुलाव पकाते हुए कई तरह के तिकड़म लगाने में लग जाता है। साथ ही उत्साहित होकर गली-नुक्कड़ के सभी दुकानदारों को आमंत्रित भी करता रहता है जो कि कल्लन की एक ही बनावटी कहानी को सुनने के लिए श्रोता बनते हुए उसकी वाह-वाही करते रहते हैं। अब पढ़ते हुए देखना यह है कि क्या कल्लन अपनी योजना में सफल हो पाता है? क्या शबनम की शादी कल्लन से हो पाती है? क्या रहमत शेख हवेली हासिल कर पाता है? लेकिन यह सब जानने के लिए आप सबको तो यह हास्य नाटक बुरे फंसे पढ़ना ही पड़ेगा जो कि अमेज़न पर उपलब्ध है। और उसके लिए आप आद्विक पब्लिकेशन या इस हास्य नाटक की लेखिका श्रीमती रिंकल शर्मा जी से संपर्क कर सकते हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक तकदीस फ़ातिमा रिज़वी ने ग्रुप-5 प्रकाशन, 55-बी, वज़ीर हसन रोड, लखनऊ से मुद्रित कराकर प्रथम तल, मस्जिद नूर महल, साकेत पल्ली, नरही, लखनऊ से प्रकाशित किया।

किसी भी लेख में कोई विवाद के लिए ‘अवधनामा’ जिम्मेदार नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी लेखक की है। किसी भी समाचार के विवाद के लिए न्याय क्षेत्र लखनऊ ही होगा।

पोलिटिकल एडीटर : एम.एम. मोहसिन

स्थानीय संपादक

मोहम्मद आलम रिज़वी

RNI No UPHIN/2010/31173

टेली फैक्स नं. : 2288091, 4065716

avadhnamahindi@gmail.com,

मिलावट करने वालों को न तो कानून का भय है और न आम आदमी की जान की परवाह है। दुखद एवं विडम्बनापूर्ण तो ये स्थितियां हैं जिनमें खाद्य वस्तुओं में मिलावट धडल्ले से हो रही है और सरकारी एजेन्सियां इसके लाइसैंस भी आंख मूंदकर बांट रही है। जिन सरकारी विभागों पर खाद्य पदार्थों की क्वॉलिटी बनाए रखने की जिम्मेदारी है वे किस तरह से लापरवाही बरत रही है, इसका परिणाम आये दिन होने वाले फूड प्वाइजनिंग की घटनाओं से देखने को मिल रहे हैं। मिलावट के बहुरूपिया रावणों ने खाद्य बाजार जकड़ रखा है।

मिलावट का कहर, स्वास्थ्य के लिये जहर

ललित गर्ग

भारतीय मसालों की गुणवत्ता की साख जब दुनिया में धुंधली हुई है, मिलावटी मसालों पर देश से दुनिया तक बहस छिड़ी हुई है, तब दिल्ली में मिलावट के एक बड़े मामले का पर्दापाश होना न केवल चिंताजनक है बल्कि दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत के लिये शर्मनाक है। भारत में मिलावट का मामला मसालों तक ही सीमित नहीं है। मिलावटखोरों ने दवाइयों, तेल, घी, दूध, मिठाइयों से लेकर अनाज तक किसी चीज को नहीं छोड़ा है। हर साल त्योहारों पर देशभर से मिलावटी मावा और मिलावटी मिठाइयों की खबरे आती हैं। प्रश्न है कि आखिर मिलावट का बाजार इतना धडल्ले से क्यों पनप रहा है, क्यों सिस्टम लाचार है, मिलावटखोरी का अंत क्यों नहीं हो पा रहा है? लोकसभा चुनाव के दौरान मिलावट की त्रासद एवं जानलेवा घटनाओं का उजागर होना, क्यों नहीं चुनावी मुद्दा बनता?

कह तो सभी यही रहे हैं--÷बाकी सब झूठ है, सच केवल रोटी है।÷ लेकिन इस बड़े सच रोटी यानी पेट भरने की खाद्य-सामग्री को मिलावट के कारण दूषित एवं जानलेवा कर दिया गया है। देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट मुनाफाखोरी का सबसे आसान जरिया बन गई है। खाने-पीने की चीजें बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। किसी भी वस्तु की शुद्धता के विषय में हमारे संदेह एवं शंकाएं बहुत गहरा गयी हैं। मिलावट का धंधा शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक भी फैला हुआ है और इसकी जड़ें काफी मजबूत हो चुकी हैं। जीवन कितना विषम और विषभरा बन गया है कि सभी कुछ मिलावटी है। सब नकली, धोखा, गोलमाल ऊपर से सरकार एवं संबंधित विभाग कुंभकरणी निद्रा में है। मिलावटी खाद्य पदार्थ धीमे जहर की तरह हैं। ये दिल और दिमाग से जुड़ी बीमारियों, अल्सर, कैंसर वगैरह की वजह बन सकते हैं। खाने वालों को आभास भी नहीं होता कि वे धीरे-धीरे किसी गंभीर बीमारी की ओर जा रहे हैं। वे किसी पर भरोसा कर कुछ खरीदते हैं और मिलावटखोर तमाम कानून बने होने एवं प्रशासन की सक्रियता के बावजूद इस भरोसे को तोड़ रहे हैं। उनकी वजह से दूसरे देशों का भी भरोसा भारतीय उत्पादों पर कम होने की स्थितियां बनती जा रही है। कुछ दिनों पहले ही हांगकांग और सिंगापुर ने लिमिट से ज्यादा पेस्टिसाइड का आरोप लगाकर दो भारतीय ब्रैंड के कुछ मसालों को बैन किया था। अगर ऐसा हुआ तो इनके निर्यात से करोड़ों डॉलर की आमदनी पर आंच आएगी। मिलावट करने वालों को न तो कानून का भय है और न आम आदमी की जान की परवाह है। दुखद एवं विडम्बनापूर्ण तो ये स्थितियां हैं जिनमें खाद्य वस्तुओं में मिलावट धडल्ले से हो रही है और सरकारी एजेन्सियां इसके लाइसैंस भी आंख मूंदकर बांट रही है। जिन सरकारी विभागों पर खाद्य पदार्थों की क्वॉलिटी बनाए रखने की जिम्मेदारी है वे किस तरह से लापरवाही बरत रही है, इसका परिणाम आये दिन होने वाले फूड

प्वाइजनिंग की घटनाओं से देखने को मिल रहे हैं। मिलावट के बहुरुपिया रावणों ने खाद्य बाजार जकड़ रखा है। मिलावट का कारोबार अगर फल-फूल रहा है, तो जाहिर है कि इसके खिलाफ जंग उस पैमाने पर नहीं हो रही है, जैसी होनी चाहिए। इस मामले में भारत अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश से कुछ सबक ले सकता है, जिसने हल्दी में लेड की मिलावट पर काबू पा लिया। मिलावटखोर हल्दी की चमक बढ़ाने के लिए लेड का इस्तेमाल करते हैं और यह समस्या पूरे दक्षिण एशिया की है।

मिलावट सबसे बड़ा खतरा है। मारने वाला कितनों को मारेगा? एक आतंकवादी स्वचालित हथियार से या बम ब्लास्ट कर अधिक से अधिक सौ दो सौ को मार देता है। लेकिन खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाला हिंसक एवं दरिंदा तो न जाने कितनों को मृत्यु की नींद सुलाता है, कितनों को अपंग और अपाहिज बनाता है। इन हिंसक, क्रूर एवं मुलाफाखोरों पर लगाम न लगने की एक वजह यह भी है कि ऐसा करने वालों को लगता है, इससे होने वाले मुनाफे की तुलना में मिलने वाली सजा बहुत कम है। जाहिर है, सजा कड़ी करने के साथ ही यह भी पक्का करना होगा कि दोषी किसी तरह से बच न निकलें। यही नहीं, लोगों को पता होना चाहिए कि मिलावट की शिकायत कहां करनी है। हमारे प्रयासों में कमी न रहे, तभी यह काला धंधा रुक सकेगा।

कारोबार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण मिलावट हर जगह देखने को मिलती है। कहीं दूध में पानी की मिलावट होती है, तो कहीं मसालों में रंगों की। दूध, चाय, चीनी, दाल, अनाज, हल्दी, फल, आटा, तेल, घी आदि ऐसी तमाम तरह की घरेलू उपयोग की वस्तुओं में मिलावट की जा रही है। यानी, पूरे पैसे खर्च करके भी हमें शुद्ध खाने का सामान नहीं मिल पाता है। मिलावट इतनी सफाई से होती है कि असली खाद्य पदार्थ और मिलावटी खाद्य पदार्थ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। जीवन मूल्यहीन और दिशाहीन हो रहा है। हमारी सोच जड़ हो रही है। मिलावट, अनैतिकता और अविश्वास के चक्रव्यूह में जीवन मानो कैद हो गया है। घी के नाम पर चर्बी, मक्खन की जगह मार्गरीन, आटे में सेलखड़ी का पाउडर, हल्दी में पीली मिट्टी, काली मिर्च में पपीते के बीज, कटी हुई सुपारी में कटे हुए छुहारे की गुठलियां मिलाकर बेची जा रही हैं। दूध में मिलावट का कोई अंत नहीं। नकली मावा बिकना तो आम बात है। राजस्थान और गुजरात में चल रहा नकली जीरे का कारोबार अब दिल्ली एवं देश के अन्य हिस्सो तक पहुंच गया है। दिल्ली में पहली बार पकड़ी गई नकली जीरे की खेप ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत के लोगों को न शुद्ध हवा मिल रही है और न शुद्ध पानी और न ही शुद्ध खाने का निवाला, कैसी अराजक शासन व्यवस्था है?

मिलावट के कारण हम एक बीमार समाज का निर्माण कर रहे हैं। शरीर से रुग्ण, जीर्ण-शीर्ण मनुष्य क्या सोच सकता है और क्या कर सकता है? क्या मिलावटखोर परोक्ष रूप से जनजीवन की सामूहिक हत्या का षड्यंत्र नहीं कर रहे? हत्यारों की तरह उन्हें भी अपराधी मानकर दंड देना अनिवार्य होना चाहिए। मिलावट एक ऐसा खलनायक है, हत्यारी प्रवृत्ति है, जिसकी अनदेखी जानलेवा साबित हो रही है। चाहे प्रचलित खाद्य सामग्रियों की निम्न गुणवत्ता या उनके जहरीले होने का मतलब इंसानों की मौत भले ही हो, पर कुछ व्यापारियों एवं सरकारी अधिकारियों के लिए शायद यह अपनी थैली भर लेने का एक मौका भर है। त्यौहारों पर मिलावटी मिठाइयां खाने से अपच, उलटी, दस्त, सिरदर्द, कमजोरी और बेचैनी की शिकायते सुनने में आती रही है। इससे किडनी पर बुरा असर पड़ता है। पेट और खाने की नली में कैंसर की आशंका भी रहती है।

खाद्य उत्पाद विनियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने 2006 के खाद्य सुरक्षा और मानक कानून में कड़े प्रावधान की सिफारिश की थी। कानून को सिंगापुर के सेल्स आफ फूड एक्ट कानून की तर्ज पर बनाया गया जो मिलावट को गम्भीर अपराध मानता है। फूड?इंस्पेक्टरों का दायित्व है कि वह बाजार में समय-समय पर सैम्पल एकत्रित कर जांच करवाएं लेकिन जब सबकी ‘मंथली इन्कम’ तय हो तो फिर जांच कौन करे? हालत यह है कि बाजारों में धूल-धक्कड़ के बीच घोर अस्वास्थ्यकर माहौल में खाद्य सामग्रियां बेची जा रही है।

स्वरोजगार से बदल रही है महिलाओं की आर्थिक स्थिति

र्तमान समय में रोजगार एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है। खासकर उन ग्रामीण महिलाओं के लिए जिनके पास शिक्षा और जागरुकता का अभाव है। जिस कारण वे घर की चारदीवारी में बंद रहने को मजबूर हैं। महिलाओं की इस समस्या को दूर करने के लिए उरमूल संस्था द्वारा जिस प्रकार उन्हें ट्रेंनिंग दी जा रही है, वह महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण है।

मोनिका

पहले मुझे हर चीज के लिए पति के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। छोटी से छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए उनसे पैसे मांगने पड़ते थे। इससे मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती थी। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई माध्यम नहीं था जिससे मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती और खुद का रोजगार कर पैसे कमा सकती। लेकिन आज मैं स्वरोज़गार के माध्यम से प्रति वर्ष 40 से 50 हजार रुपए अर्जित कर लेती हूं। इसकी वजह से आज मैं न केवल आत्मनिर्भर बन चुकी हूं बल्कि मेरे अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ गया है। यह कहना है गडसीसर गांव की 30 वर्षीय महिला पूजा का। यह गांव राजस्थान के बीकानेर जिला स्थित लूणकरणसर ब्लॉक से करीब 65 किमी की दूरी पर बसा है। पंचायत में दर्ज आंकड़ों के अनुसार इस गांव की आबादी लगभग 3900 है। यहां पुरुषों की साक्षरता दर 62।73 प्रतिशत महिलाओं में मात्र 38।8 प्रतिशत है। यहां पर सभी जातियों के लोग रहते है, परंतु सबसे अधिक राजपूत जाति की संख्या है।

पूजा बताती हैं कि दो साल पहले गांव की एक सामाजिक कार्यकर्ता हीरा शर्मा ने मुझे स्थानीय गैर सरकारी संस्था उरमूल द्वारा प्रदान किये जा रहे स्वरोजगार के बारे में बताया। जहां महिलाएं कुरुसिया के माध्यम से उत्पाद तैयार कर आमदनी प्राप्त करती थीं। पहले मैं इससे जुड़ने से झिझक रही थी क्योंकि मुझे यह काम नहीं आता था। लेकिन संस्था द्वारा पहले मुझे इसकी ट्रेनिंग दी गई। जहां मुझे कुरुसिया के माध्यम से टोपी, जैकेट, दस्ताना, जुराब और मफलर इत्यादि बनाना सिखाया गया। संस्था में मेरे साथ साथ गांव की 30 अन्य महिलाओं को भी कुरुसिया के माध्यम से उत्पाद तैयार करने की ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद संस्था की ओर से ही हमें सामान बनाने के ऑर्डर मिलने लगे और तैयार करने के बाद भुगतान किया जाने लगा है। अब मुझे पैसों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि अब तो जरूरत होने पर पति मुझ से पैसे मांगते हैं। इससे जुड़ने के बाद मुझे अपने अंदर की प्रतिभा का एहसास हुआ है। अब मुझे लगता है कि हम महिलाएं भी बहुत कुछ कर सकती हैं। घर बैठे काम करके हम भी पैसा कमा सकती हैं। पूजा कहती हैं कि संस्था से जुड़कर मैंने जाना कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार की ओर से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन जागरूकता के अभाव में हम इसका लाभ उठाने से वंचित रह जाती हैं।

दरअसल वर्तमान समय में रोजगार एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है। खासकर उन ग्रामीण महिलाओं के लिए जिनके पास शिक्षा और जागरूकता का अभाव है। जिस कारण वे घर की चारदीवारी में बंद रहने को मजबूर हैं। महिलाओं की इस समस्या को दूर करने के लिए उरमूल संस्था द्वारा जिस प्रकार उन्हें ट्रेंनिंग दी जा रही है, वह महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण है। कुरुसिया के माध्यम से जुराब बुन रही गांव की एक महिला विद्या कहती है कि जब से हम उरमूल

संस्था के माध्यम से स्वरोजगार से जुड़े हैं हमें अब अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रह गई है। अब मैं पति के साथ मिलकर घर में बराबर के पैसे खर्च करती हूं। पहले हम सिर्फ घर का ही काम करती थी और पशुओं की देखरेख करती थी। हमारे घर वाले भी हमें घर से बाहर जाने नहीं दिया करते थे। महिलाओं के प्रति समाज की सोच भी संकुचित थी। लेकिन जब से हम इस संस्था से जुड़े हैं, तब से हमें कोई घर से बाहर जाने से भी नहीं रोकता है।

विद्या के बगल में बैठी कुरुसिया पर मफ़लर बुन रही एक अन्य महिला सरस्वती देवी उनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि मैंने संस्था को कुरुसिया से सामान बनाकर 25 से 30 हजार रुपए तक का काम करके दिया है। इससे मुझे बहुत लाभ हुआ है। अब न केवल मैं अपने अंदर की प्रतिभा को पहचान गई हूं बल्कि इसकी वजह से अब मैं आर्थिक रूप से सशक्त भी हो चुकी हूं। मैं पूरा दिन इस काम में व्यस्त रहती हूं। अब मैं अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी अब खुद उठाने लगी हूं। गांव की एक अन्य महिला लक्ष्मी का कहना है कि क्रोशिया के काम से पैसा कमा कर मैंने एक सिलाई मशीन भी खरीदी है। अब मैं बुनने के साथ साथ कपड़े सिलने का काम भी करती हूं। जिससे मेरी आमदनी और बढ़ी है।

इस संबंध में उरमूल की सदस्या और सामाजिक कार्यकर्ता हीरा शर्मा का कहना है कि जब हमने घर पर रहने वाली महिलाओं को देखा तो उन्हें रोजगार से जोड़ने की कोशिश की। जिसमें संस्था के माध्यम से उन्हें कुरुसिया से ऊनी कपड़े तैयार करने की ट्रेनिंग दी गई। इसके लिए गांव की 30 महिलाओं का एक ग्रुप बनाया गया। जिसमें से 15 महिलाओं ने बहुत अच्छे से काम को सीखा और फिर रोजगार की मांग की। उन महिलाओं के लिए हमने देसी ऊन खरीदी और उन्हें प्रोडक्ट बनाने के लिए दिया। जिससे उनका आत्मविश्वास और बढ़ा। यह रोजगार मिलने से महिलाओं के जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ा। जिन महिलाओं को घर वाले घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, वह आज सेंटर पर आकर काम करती हैं। वह बताती हैं कि यहां पर कई ऐसी महिलाएं हैं जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है। उनके पति शराब पीकर उनके साथ शारीरिक हिंसा करते थे और घर में खर्च के लिए पैसा तक नहीं देते थे। आज वे महिलाएं अपना पैसा कमा रही है। अपने बच्चों को पाल रही हैं और उनकी स्कूल की फीस भी जमा कर रही हैं।

संस्था और महिलाओं के बीच काम के बारे में हीरा बताती हैं कि अधिकतर महिलाएं घर का काम पूरा कर सेंटर पहुंच जाती हैं, जहां सभी मिलकर समय पर ऑर्डर को पूरा करती हैं। जरूरत पड़ने पर कुछ महिलाएं ऑर्डर को घर ले जाकर भी पूरा करती हैं। ऑर्डर पूरा करने के लिए सामान खरीदने से लेकर उससे होने वाली आमदनी आदि की जानकारियां सभी महिलाओं के साथ समान रूप से साझा की जाती है। उत्पाद बेचने से होने वाली आमदनी के कुछ पैसों से जहां अगले प्रोडक्ट के लिए समान खरीदे जाते हैं वहीं बचे हुए पैसों को काम के अनुसार महिलाओं में बांट दिए जाते हैं। यह सब पूरी प्लानिंग के साथ किया जाता है। हीरा बताती हैं कि महिलाओं द्वारा तैयार प्रोडक्ट को दिल्ली और गुजरात में आयोजित विभिन्न प्रदर्शनियों में बेचा जाता है। जहां लोग न केवल उनके काम को सराहते हैं बल्कि बढ़चढ़ कर खरीदते भी हैं। सबसे पहले दिल्ली स्थित त्रिवेणी कला संगम में उनकी प्रदर्शनी लगाई गई थी जहां उनके सामान को बेचकर 96 हजार का लाभ हुआ था। पिछले वर्ष संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते समय यह बताया गया कि 2017-18 की तुलना में 2020-21 में स्वरोजगार करने वालों ही हिस्सेदारी बढ़ी है। विशेषकर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए रोजगार में इजाफा हो रहा है। 2018-19 में यह दर 19.7 प्रतिशत थी, जो 2020-21 में बढ़कर 27.7 प्रतिशत हो गई है। 1।2 करोड़ स्वयं सहायता समूहों में 88 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं, जिनकी पहुंच 14.2 करोड़ परिवारों तक है। यह एक सकारात्मक संकेत है। स्वरोजगार से जुड़कर महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बनेंगी बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जो विकसित भारत के ख्वाब को पूरा करने के लिए एक जरूरी आयाम है। (चरखा फीचर)

‘जीतेगी पार्टी, हारेगी जनता’

देश पर शासन करने वाले लोगों को सरकारी बैलेंसशीट लाभ में चाहने लगे तो रोजगार की अपेक्षा करना सबसे बड़ा झूठा ख्वाब देखने जैसा है। अब सरकारें चाहें वो केंद्र की हो या राज्य की सभी रोजगार के मुद्दे को लेकर विफल हो चुकी है। बढ़ती कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली, निजीकरण भले ही सरकारी रोजगार ख़त्म कर रहें हो पर इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता की ठेका प्रणाली के विस्तार से आज कार्यरत सभी आदमी मानसिक बीमारी का शिकार है जिसका आकलन भी कोई नहीं करना चाहता। कार्य के घंटे, भुगतान, शिकायत निवारण न होना जैसे अनेकों ऐसी बातें है जो आम आदमी के जीवन को ख़त्म कर रही है।

डॉ. अजय कुमार मिश्रा

18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव प्रक्रियारत है। देश में अनेकों राजनैतिक पार्टियाँ अपना भविष्य आजमा रही है जबकि मुख्य रूप से दो पार्टी बीजेपी और कांग्रेस सत्ता पाने की दौड़ में है। एक तरफ एनडीए का गठबंधन और दूसरी तरफ इंडिया का गठबंधन अपने अनुभव के आधार पर सत्ता का ख्वाब देख रहा है। देश को मिली आजादी के बाद से अनेकों अप्रत्याशित बड़े बदलाव हुए है पर यह भी जमीनी सच्चाई है की अपेक्षित प्रगति और बदलाव आज तक नहीं हुआ है जिसकी वजह से अस्थिरता और व्यापक अंतर हर तबकें में विद्यमान है। दुनियां के सबसे बड़े लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव भी विवादों से बच नहीं पाया है। यदि आप कुछ लोगों से और राजनैतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं से बात करेगे तो ईवीएम पर भी बड़ा प्रश्न समझ में आयेगा। पर इन सभी बातों के बीच एक महत्वपूर्ण बात जो आजादी के बाद से चली आ रही है उस पर ध्यान शायद ही किसी का हो और इस लोकसभा चुनाव भी यही होगा जीतेगी पार्टी, हारेगी जनता। यह केवल एक वाक्य नहीं है बल्कि अपने देश की वास्तविक सच्चाई भी है यह तभी समझ में आयेगा जब आप निष्पक्ष और गहराई से इसका आकलन करके निष्कर्ष पर पहुँच पाए।

साम्प्रदायिकता : आप क्या है ? एक इन्सान या फिर एक जाति और धर्म जिसे मानवीय नेतृत्व ने निर्धारित किया है। आजादी के पश्चात् से लेकर अभी तक में साम्प्रदायिकता अपने चरम पर है। शिक्षित और अशिक्षित सभी श्रेणी के लोगों में इसका जहर अपना अमिट प्रभाव बना चुका है जिसका खामियाजा छुट-पुट रूप में दिख रहा है पर आगामी समय में इसके बड़े दुष्परिणाम को रोकना लगभग असम्भव होगा और यदि आप यह सोच रहे है की आप इससे बचे रह जायेगे तो आप गलत हो क्योंकि इसका खामियाजा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर सभी को कुछ न कुछ उठाना पड़ेगा हां प्राप्त नुकसान का प्रतिशत कम या अधिक हो सकता है और हाँ इस बात के लिए सभी राजनैतिक पार्टियों को बराबर का जिम्मेदार बनाया जा सकता है।

भ्रष्टाचार : दशकों से अलग अलग नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा किया गया प्रॉमिस और बनाये गए नियम एक बार नहीं लगातार विफल सभी को दिखाई दे रहें है। समय और तकनीकी के विकास के साथ भ्रष्टाचार का नया स्वरुप सामने आया है कमी होने के बजाय इसमें वृद्धि हुई है। इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार किसे बनाया जाय यह कहा नहीं जा सकता,

क्योंकि अघोषित इस संगठन के कितने हिस्से और लोग है आज तक किसी को नहीं पता। पर यह आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हो गया है और यह कहा जा सकता है की यह कुछ एक को छोड़ करके सभी के ब्लड में शामिल हो गया है।

आजादी पर रोक : आजादी के पश्चात से लेकर आज तक सभी सत्ताधारियों ने अपने हित के लिए अनेकों लोगों की आजादी पर रोक लगायी है फिर चाहे जेल में डालना हो या लोगों को पब्लिक में जाने से रोकना या फिर लोगों को एकजुट होने से तोड़ना हो। आखिर आज भी कोई निर्भय होकर कुछ बातों का प्रश्न जान सकता है क्या ? यह कहा जा सकता है नहीं और ऐसे में समय के बढ़ने के साथ साथ इसमें अधिक रोक की सम्भावना दिखाई पड़ रही है।

बेरोजगारी : जब देश पर शासन करने वाले लोगों को सरकारी बैलेंसशीट लाभ में चाहने लगे तो रोजगार की अपेक्षा करना सबसे बड़ा झूठा ख्वाब देखने जैसा है। अब सरकारें चाहें वो केंद्र की हो या राज्य की सभी रोजगार के मुद्दे को लेकर विफल हो चुकी है। बढ़ती कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली, निजीकरण भले ही सरकारी रोजगार ख़त्म कर रहें हो पर इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता की ठेका प्रणाली के विस्तार से आज कार्यरत सभी आदमी मानसिक बीमारी का शिकार है जिसका आकलन भी कोई नहीं करना चाहता। कार्य के घंटे, भुगतान, शिकायत निवारण न होना जैसे अनेकों ऐसी बातें है जो आम आदमी के जीवन को ख़त्म कर रही है।

बढ़ती महंगाई और सीमित होते सामाजिक कार्य : महंगाई की स्थिति इतनी भयानक है कि आज हर आदमी अपनी जमीनी आवश्यकताओं से समझौता कर रहा है वही दूसरी तरफ आम आदमी के हितों की अनदेखी के साथ साथ सरकारी योजनाओं की घटती संख्या उनमे अवसाद उत्पन्न कर रही है। वैश्विक मानकों के तहत आज देश में शायद ही कोई प्रभावशाली योजना हो जो आम आदमी के जीवन में ऐतिहासिक बदलाव सहयोग करके ला रही हो।

लिखने और कहने को अनेकों मुद्दे और बातें है पर वर्तमान सच्चाई यह है की दशकों पूर्व हम जिन मुद्दों से लड़ रहे थे अब वो मुद्दे अपने नए स्वरुप में सभी के सामने है और समाधान किसी के पास नहीं है जमीनी आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय से दशको पहले हम अपने जीवन में इनकी अनुपस्थिति से लड़ रहे थे अब हम इनकी उपस्थिति के बावजूद इनकी लागत को न उठा पाने से लड़ रहे है। आज प्रत्येक आदमी इन मुद्दों के नए स्वरुप से लड़ रहा है और बिना किसी भेदभाव या पक्षपात के यह आसानी से कहा जा सकता है की जीतेगी पार्टी, हारेगी जनता। क्योंकि इन समस्याओं ने इतना विकराल स्वरुप बना लिया है जिसका समाधान करने की शायद ही कोई सोचे। आज भी चुनाव हो रहे है आगे भी होतें रहेगे एक दो नहीं बल्कि ऐसी अनेकों बातें आयेगी और जाएगी जो सभी को आश्चर्यचकित कर देगी पर यह भी अमिट सत्य है की इन अव्यवस्था के लिए सिर्फ एक पार्टी या राजनैतिक दल जिम्मेदार नहीं है बल्कि शासन करने वाला प्रत्येक सख्श जिम्मेदार है जिसने इन मुद्दों से लड़ने के लिए समय पर सही कार्यवाही नहीं की।

वाराणसी सहित पूर्वांचल के कई जिलों में येलो अलर्ट

अगले 6 दिन तक आंधी के साथ बारिश के आसार

अवधनामा संवाददाता

वाराणसी। वाराणसी में भीषण गर्मी से मामूली राहत मिली है, लेकिन धूप तेज होने से सड़कों से लेकर घाटों तक सन्नाटा पसरा है। सोमवार की सुबह ठंडी हवा के साथ हुई तो लोगों को राहत तो मिली, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही धूप तेज होने लगा। इधर, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।

सोमवार को दिन में तेज धूप के बाद रात से मौसम तेजी से बदला है। मंगलवार की सुबह से ही इसका असर देखने को मिल रहा है। नम पछुआ हवाओं के चलने की वजह से धूप का असर भी कम है, इस वजह से लोगों को गर्मी से मामूली राहत मिली है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से वाराणसी से लेकर बलिया, गाजीपुर, जौनपुर सहित पूर्वांचल के कई जिलों को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत 7 से 12 मई तक आंधी के साथ बारिश भी की संभावना है। इस वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिलने के साथ ही तापमान में भी गिरावट के आसार हैं।

जिन इंजीनियरों ने कराए अवैध निर्माण, सभी पर कसा शिकंजा

■ संकरी गली में पांच मंजिला अवैध व्यावसायिक कांप्लेक्स बना दिया

लखनऊ। एलडीए के इंजीनियरों ने मोटी रिश्वत लेकर शहर भर में जमकर अवैध निर्माण करवा दिए। इन दागी इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति पर शासन के वरिष्ठ अधिकारी कुंडली दबाए बैठे हैं। अवैध निर्माण के लिए गठित जांच समिति में बिना नोटिस दिए बड़ी संख्या में अवैध निर्माण होते मिले। एलडीए उपाध्यक्ष डा. इंद्रमणि त्रिपाठी ने सभी सातों जोन के अवर अभियंताओं को हटा दिया है।

सहायक अभियंताओं को भी नई तैनाती दी गई है। सबसे अधिक दागी तीन इंजीनियरों को नई तैनाती तक नहीं दी गई है। अमीनाबाद की मारवाड़ी गली में एलडीए के इंजीनियर ने मिलीभगत से संकरी गली में पांच मंजिला अवैध व्यावसायिक कांप्लेक्स बना दिया। कई शिकायतों के बावजूद अवैध निर्माण को सील नहीं किया गया। इसके अलावा गोमतीनगर में आवासीय भूखंडों पर अवैध रूप से व्यावसायिक निर्माण हो गए थे। अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा और संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह की अध्यक्षता में बनी समिति ने सभी सात प्रवर्तन जोन में अवैध निर्माण की फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें पता चला कि भानु प्रकाश वर्मा, सुभाष शर्मा और संजय शुक्ल सहित कई इंजीनियरों ने अवैध निर्माण करने वालों को कोई नोटिस ही जारी नहीं की थी। जांच के बाद सहायक और अवर अभियंताओं को नई तैनाती दे दी गई। अब प्रवर्तन जोन एक में अवर अभियंता संजय भाटी, आशीष श्रीवास्तव, एसके दीक्षित, प्रवर्तन जोन दो में सुशील कुमार सिंह, ऋतुपाल सिंह, विपिन बिहारी राय, प्रवर्तन जोन तीन में रवि शंकर राय, अम्बरीश कुमार, शशिभूषण मिश्र, जोन चार में जाकिर अली, प्रमोद कुमार पांडेय, भरत कुमार पांडेय और जितेंद्र कुमार को तैनात किया गया है।

लखनऊ से 10, मोहनलालगंज से 11 उम्मीदवार मैदान में

■ प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी

लखनऊ। लखनऊ कलेक्ट्रेट में सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की सूची जारी की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि गलत नामांकन पत्र पहले ही खारिज किए जा चुके हैं। सोमवार को नाम वापसी की तिथि निर्धारित थी। मोहनलालगंज से निर्दलीय नामांकन करने वाले कौशल किशोर के बेटे विकास ने अपना पर्चा वापस ले लिया। लखनऊ लोकसभा सीट से कुल 10 और मोहनलालगंज से 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। उधर, लखनऊ पूर्वी विधानसभा उपनिर्वाचन में चार प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं।

रायबरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुल 08 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। बहुजन समाज पार्टी से ठाकुर प्रसाद यादव, भारतीय जनता पार्टी से दिनेश प्रताप सिंह, इंडियन नेशनल कांग्रेस से राहुल गांधी, अखिल भारतीय अपना दल से दिलीप सिंह, अपना दल (कमेरावादी) से मु0 मोबिन, मानवतावादी समाज पार्टी से हिन्द रोहिताश, भारतीय पंचशील पार्टी से सुरदर्शन राम, निर्दलीय से होरीलाल है।

अमेठी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुल 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस से किशोरी लाल, बहुजन समाज पार्टी से नन्हे सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी से स्मृति इरानी, जनशक्ति समता पार्टी से दिनेश चन्द्र मौर्य, मौलिक अधिकार पार्टी से भगवानदीन पासी, संयोगवादी पार्टी से शैलेन्द्र कुमार मिश्र, समझदार पार्टी से सन्तराम, राष्ट्रीय नारायणवादी विकास पार्टी से मो0 हसन लहरी, निर्दलीय प्रत्याशियों में उदयराज, खुशीराम, चन्द्रावती, जगदम्बा प्रसाद यादव, सुरेन्द्र कुमार हैं। जालौन (अ0जा0) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुल 06 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी से नारायण दास अहिरवार, भारतीय जनता पार्टी से भानु प्रताप सिंह वर्मा, बहुजन समाज पार्टी से सुरेश चन्द्र गौतम, निर्दलीय प्रत्याशियों में प्रेमलता वर्मा, बृज मोहन हैं।

झांसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुल 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी से अनुराग शर्मा, इंडियन नेशनल काँग्रेस से प्रदीप जैन 'आदित्य', बहुजन समाज पार्टी से रवि प्रकाश, अपना दल (कमेरावादी) से चन्दन सिंह, अल-हिन्द पार्टी से इं0 दीपक कुमार वर्मा, निर्दलीय प्रत्याशियों में इन्द्र सिंह, गनेशराम, धर्मेन्द्र प्रताप, रमेश, लखन लाल हैं। हमीरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुल 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी से अजेन्द्र सिंह लोधी, बहुजन समाज पार्टी से निर्दोष कुमार दीक्षित, भारतीय जनता पार्टी से कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से अनुपम कुमार त्रिपाठी, निर्दलीय प्रत्याशियों में भुवनेन्द्र नारायण सिंह, राजेश सिंह, सन्तोष कुमार हैं।

1354.94 लाख रुपये की शराब, ड्रग व नकदी जब्त

■ एक मार्च से 6 मई तक 35534.65 लाख कीमत की शराब

अवधनामा संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन एजेन्सियों व उड़नदस्तों द्वारा अवैध शराब, नकदी आदि की जब्ती संबंधी आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 01 मार्च से 06 मई, 2024 तक कुल 35534.65 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं व नकदी आदि जब्त किये गये। इसमें 3401.31 लाख रुपये नकद धनराशि, 4929.58 लाख रुपये कीमत की शराब, 23839.07 लाख रुपये कीमत की ड्रग, 2193.07 लाख रुपये कीमत की बहुमूल्य धातुएं एवं 1171.61 लाख रुपये कीमत की अन्य सामग्री जब्त की गयी। आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 06 मई, 2024 को कुल 1354.94 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग व नगदी आदि जब्त की गई। इसमें 26.22 लाख रुपये नकद धनराशि, 38.59 लाख रुपये कीमत की 18114.91 लीटर शराब, 1290.12 लाख रुपये कीमत की 1723242 ग्राम ड्रग जब्त की गयी।

अपना दल एस ने अनुप्रिया पटेल को मिर्जापुर, तो रार्बट्सगंज से रिंकी कोल को बनाया प्रत्याशी

मिर्जापुर। अपना दल एस ने मंगलवार को मिर्जापुर व राबर्ट्सगंज संसदीय सीट के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मिर्जापुर से तीसरी बार अनुप्रिया पटेल को अवसर दिया गया है। वे वर्तमान में भी जिले की सांसद व केंद्रीय मंत्री हैं।

इसी प्रकार अपना दल एस की छानबे विधायक रिंकी कोल को राबर्ट्सगंज संसदीय सीट से अवसर दिया गया है। उनको उनके ससुर पकौड़ी कोल का टिकट काटकर पार्टी प्रत्याशी बनाया गया है। पकौड़ी कोल वर्तमान में राबर्ट्सगंज से सांसद हैं।

विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय

■ ट्रांसफार्मर फुंका तो यूपीपीसीएल करेगा कार्रवाई

अवधनामा संवाददाता

लखनऊ। गर्मियों में लोगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए की गई तैयारियों की सोमवार को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने समीक्षा की। उन्होंने विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की। अब हर ट्रांसफार्मर के मरम्मत की थर्ड पार्टी जांच कराई जाएगी। लापरवाही करने पर ट्रांसफार्मर फुंका तो कार्रवाई की जाएगी।

राजधानी स्थित स्थानीय निकाय सभागार में आयोजित इस बैठक में उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर बार-बार क्षतिग्रस्त न हों इसके लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। वहीं बार-बार शटडाउन लिए जाने की भी प्रदेश भर से शिकायतें आ रही हैं। ऐसे में 33 केवी के सभी फीडर व 11 केवी के स्वतंत्र एवं औद्योगिक फीडर का शटडाउन अब अधिशासी अभियंता (वितरण) की अनुमति से ही लिया जाएगा। शेष 11 केवी के फीडर का शटडाउन उपखंड अधिकारी (वितरण) की अनुमति से ही किया जाएगा।



वहीं आग लगने, विद्युत दुर्घटना व अन्य समकक्ष विषम व अपरिहार्य परिस्थितियों में विद्युत आपूर्ति यथासंभव अविलंब बंद की जाएगी। संबंधित अवर अभियंता ऐसे आपातकालीन शटडाउन की सूचना अधिशासी अभियंता (वितरण) और उपखंड अधिकारी (वितरण) को देंगे। सभी

खराब प्रदर्शन वाले जिलों से मांगा स्पष्टीकरण

समीक्षा बैठक में यूपीपीसीएल अध्यक्ष ने खराब प्रदर्शन वाले जिलों के अधिकारियों को फटकार लगाई और स्पष्टीकरण मांगा है। अमरोहा, बदायूं, बुलंदशहर, हापुड़, सीतापुर व वाराणसी जोन-दो सहित अन्य जिलों के अधिकारियों को उन्होंने सख्त चेतावनी दी। बिजली आपूर्ति से संबंधित कार्यों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

रही है तो यह चिंताजनक है।

औद्योगिक फीडर का निर्धारित शटडाउन यथा संभव क्षेत्र की औद्योगिक बंदी के दिन व संबंधित संगठन की सहमति से निर्धारित किए गए दिन के अनुसार ही लिया जाएगा। यूपीपीसीएल अध्यक्ष ने कहा कि बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जिलों को पर्याप्त धनराशि दी गई है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर होने वाले फाल्ट के कारण अगर बिजली जा

अपराधिक व्यक्तियों के 536 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किये

■ 4704 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त कर जमा कराये गये

अवधनामा संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। 16 मार्च को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस, आयकर, आबकारी, नार्कोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। सघन जॉच के लिए 464 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तथा 1802 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित हैं। 16 मार्च से 06 मई तक पुलिस विभाग द्वारा अपराधिक व्यक्तियों के 536 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किये गये। 4704 लाइसेंसी शस्त्रों के लाइसेंस निरस्त कर जमा कराये गये। इसी प्रकार शांति भंग की आशंका में सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 26,90,559 लोगों को पाबन्द किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किये गये है, जिनमें से 23,70,280 लोगों को पाबन्द किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा 8886 बिना लाइसेंसी शस्त्र, 8978 कारतूस, 3019.32 किलोग्राम विस्फोटक व 504 बम बरामद कर सीज किये गये। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 3902 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 170 केन्द्रों को सीज किया गया। 06 मई को पुलिस विभाग द्वारा सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 25276 लोगों को पाबन्द किया गया।

टीएमयू में फार्म डी के निर्मल मि., तुबा और दिव्यांशा मिस फेयरवेल

अवधनामा संवाददाता

मुरादाबाद। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद के फार्मेसी कॉलेज की ओर से आयोजित फेयरवेल पार्टी- अडियोस फार्मेशिया में फार्म डी के छात्र निर्मल को मिस्टर फेयरवेल और छात्राओं- तुबा अख्तर एवम् दिव्यांशा को संयुक्त रूप से मिस फेयरवेल चुना गया।

एम फार्म के छात्र प्रखर स्टार ऑफ द ईव और फार्म डी की छात्राओं प्रेरणा पांडेय एंड टीम को परफॉर्मेंस ऑफ द डे के खिताबों से नवाजा गया। इन सभी स्टुडेंट्स को स्मृति चिन्ह और सैशे पहनाकर सम्मानित किया गया। इससे पहले फार्मेसी के प्राचार्य प्रो. अनुराग वर्मा, उप प्राचार्य प्रो. पीयूष मित्तल आदि ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित करके सरस्वती वंदना के संग ऑडी में फेयरवेल पार्टी- अडियोस फार्मेशिया का शुभारम्भ किया। मिस और मिस्टर के निर्णायक मंडल में श्री आशीष सिंघई, डॉ. पुष्पेन्द्र शुक्ला और श्रीमती उर्वशी सक्सेना आदि शामिल रहे।

प्राचार्य प्रो. अनुराग वर्मा ने फार्मेसी प्रोफेशन की असीम संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए बोले, स्टुडेंट्स अपना जीवन शानदार तरीके से जिएं और कर्तव्यों का भी निर्वहन करें। उन्होंने कहा, कॉलेज में बिताए पल जीवन के अमूल्य लम्हे होते हैं, जो आपके सपनों को सच्चाई में बदलने की राह तय करते हैं। फार्मेसी के छात्रों ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर सबका मनमोह लिया। स्टुडेंट्स ने विभिन्न नृत्यों की प्रस्तुतियों से अपने कॉलेज की यात्रा के विभिन्न आयाम बड़े ही रोचक तरीके से दिखाए। अंत में छात्रों ने डीजे संध्या में विभिन्न गानों पर झूम-झूमकर डांस किया और प्रांगण को उत्सवमय कर दिया।

टीएमयू हॉस्पिटल को एनएबीएच का क्वालिटी एक्रिडिटेशन

■ पेशेंट्स के लिए टीएमयू विश्वसनीयता का प्रतीक

अवधनामा संवाददाता

मुरादाबाद। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद के हॉस्पिटल की झोली में एक ओर उपलब्धि आ गई है। नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स-एनएबीएच ने अपने मानकों पर तीर्थंकर महावीर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को खरा पाया है। एनएबीएच ने क्वालिटी एक्रिडिटेशन का प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। यह मान्यता टीएमयू हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। हॉस्पिटल की ओर से रोगियों की देखभाल के लिए डब्ल्यूएचओ की गाइड लाइन्स का सख्ती से पालन होता है। एनएबीएच की टीम ने टीएमयू हॉस्पिटल का सघन दौरा किया था, जिसमें हॉस्पिटल की तीस से अधिक विभागों को स्कोप ऑफ सर्विस में मानकों पर श्रेष्ठ पाया है। 2005 में स्थापित एनएबीएच क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया-क्यूसीआई का एक घटक बोर्ड है, जिसे स्वास्थ्य संगठनों के लिए मान्यता कार्यक्रम स्थापित करने और संचालित करने के लिए स्थापित किया गया है। कुलाधिपति सुरेश जैन, जीवीसी मनीष जैन और एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर अक्षत जैन कहते हैं, क्वालिटी एक्रिडिटेशन यह प्रमाण दर्शाता है कि पेशेंट्स के लिए टीएमयू विश्वसनीयता का प्रतीक है। उन्होंने उम्मीद जताई, तीर्थंकर महावीर अस्पताल के लिए एनएबीएच की गुणवत्ता मान्यता इसकी विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित होगी। उल्लेखनीय है, टीएमयू हॉस्पिटल 900 से अधिक बेड्स वाला एक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा संस्थान है। एनएबीएच की इस मान्यता का अर्थ है कि टीएमयू पेशेंट्स केयर के संग-संग स्वास्थ्य देखभाल के सभी पहलुओं के प्रति बेहद संजीदा है।

टीएमयू में लीगल एक्सपर्ट ने दिए साइबर सिक्योरिटी के टिप्स

अवधनामा संवाददाता

लखनऊ। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, बरेली के फैकल्टी ऑफ लीगल स्टडीज के डीन प्रो. अमित सिंह ने साइबर सिक्योरिटी पर बोलते हुए साइबर शब्द की उत्पति के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने सलाह देते हुए कहा, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अपने डाटा को सुरक्षित रखना सबसे अधिक जरूरी है। साथ ही उन्होंने डाटा की सुरक्षा को लेकर तकनीकी जानकारियों के बारे में भी चर्चा की। आईटी एक्ट और इसके विभिन्न पहलुओं पर स्टुडेंट्स को जागरूक किया।

प्रो. सिंह ने साइबर सिक्योरिटी से जुड़े कानूनों और फेसबुक आदि पर निजी डाटा से संबंधित कॉपीराइट के बारे में विस्तार से बताया। प्रो. अमित तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के तहत केंद्रीय पुस्तकालय और कॉलेज ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज की ओर से आयोजित ऑथर्स टाक सीरीज-04 में बतौर मुख्य वक्ता बोल रहे थे। टाक सीरीज में सभी अतिथियों और वक्ताओं का बुके देकर स्वागत किया गया। अंत में स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सवाल-जवाब का दौर भी चला, जिसमें स्टुडेंट्स ने अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया।

उल्लेखनीय है, प्रो. अमित सिंह अब तक 20 किताबें लिख चुके हैं। इनमें साइबर ज्यूरिडिक्शन डेटा प्रोटेक्शन एंड साइबर सिक्योरिटी बुक प्रमुख है। इससे पहले एमजेपीआरय, बरेली के प्रो. सिंह ने बतौर मुख्य वक्ता, टीएमयू लॉ कॉलेज के डीन प्रो. हरबंश दीक्षित, प्राचार्य प्रो. सुशील कुमार सिंह, कार्यक्रम संयोजिका एवम् यूनिवर्सिटी की मुख्य लाइब्रेरियन डॉ. विनीता जैन आदि ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण करके ऑथर्स टाक सीरीज का शुभारम्भ किया। डीन प्रो. हरबंश दीक्षित ने साइबर सिक्योरिटी पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के बारे में भी विद्यार्थियों को अवगत कराया।

लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के 2194 मामलों में हुई कार्रवाई

■ नकदी बांटने, वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग व अन्य मामलों में 123 एफआईआर दर्ज

अवधनामा संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने में अब तक सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से कुल 1,44,51,954 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी। इसमें सार्वजनिक स्थानों से 88,76,828 तथा निजी स्थानों से 55,75,126 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों से वालराइटिंग के 9,86,832, पोस्टर के 40,64,831, बैनर के 24,84,017 एवं अन्य 13,41,148 मामलों में कार्यवाही की गयी। इसी प्रकार निजी स्थानों में से वालराइटिंग के 7,73,152, पोस्टर के 25,80,157 बैनर के 13,94,810 एवं अन्य 8,27,007 मामलों में कार्यवाही की गयी। इसी प्रकार अब तक वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग के 1280 मामलों में तथा लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के 2194 मामलों में कार्यवाही की गयी। बिना अनुमति के सभा व भाषण करने, मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी बांटने, वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग एवं अन्य मामलों में 123 एफआईआर दर्ज, 06 एनसीआर सहित कुल 115 प्रकरण में रिपोर्ट दर्ज की गयी है।

सीएमएस के टॉपर छात्रों ने निकाला 'विक्ट्री मार्च'

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने आई.एस.सी. एवं आई.सी.एस.ई. के मेधावी छात्रों को किया सम्मानित

अवधनामा संवाददाता

लखनऊ। आई.एस.सी. एवं आई.सी.एस.ई. बोर्ड परीक्षा-2024 में 90 प्रतिशत से लेकर 99.80 प्रतिशत तक अंक अर्जित कर अभूतपूर्व सफलता का परचम लहराने वाले सिटी मोन्टेसरी स्कूल के 3791 मेधावी छात्रों को आज सी.एम.एस. गोमती नगर द्वितीय कैम्पस ऑडिटोरियम में आयोजित 'मेधावी छात्र सम्मान समारोह' में सम्मानित किया गया।

समारोह का शुभारम्भ मुख्य अतिथि श्री दुर्गा शंकर मिश्र, आई.ए.एस., मुख्य सचिव, उ.प्र. द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर श्री मिश्र ने विद्यालय के मेधावी छात्रों को उनकी अभूतपूर्व सफलता हेतु पुरष्कृत कर सम्मानित किया। इससे पहले, गणमान्य अतिथियों, मेधावी छात्रों व शिक्षकों का हार्दिक स्वागत करते हुए सी.एम.एस. प्रबन्धक प्रो. गीता गाँधी किंगडन ने घोषणा की कि 99 प्रतिशत से 99.80 प्रतिशत तक अंक अर्जित कर लखनऊ का गौरव बढ़ाने वाले सी.एम.एस. के सभी 74 टॉपर छात्रों को एक-एक लाख रूपये के नगद पुरस्कार से नवाजा जायेगा। प्रो. किंगडन ने इस वर्ष आई.ए.एस. में चयनित सी.एम.एस. के 7 छात्रों व इसरो द्वारा सी.एम.एस. छात्र के चयन का जिक्र करते हुए कहा कि विद्यालय के छात्रों ने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से साबित कर दिया है कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में सिटी मोन्टेसरी स्कूल सर्वश्रेष्ठ है। इस अवसर पर अपने छात्रों को रचनात्मक सामाजिक गतिविधियों में भी प्रतिभाग हेतु प्रेरित किया। सी.एम.एस. संस्थापिका-निदेशिका डा. भारती गाँधी ने इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकों का हार्दिक आभार व्यक्त किया जिनके कठिन परिश्रम व लगन की बदौलत सी.एम.एस. छात्र शिक्षा जगत में नित नये कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं।

■ अपने 74 छात्रों को एक-एक लाख रूपये का नगद पुरस्कार देगा सीएमएस

संबोधन में मुख्य अतिथि श्री दुर्गा शंकर मिश्र, आई.ए.एस., ने मेधावी छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि जीवन में जो भी करने का निर्णय लें, उसे पूर्ण दृढ़-निश्चय के साथ करें और यह अवश्य सोचें कि देश व समाज के लिए क्या कर सकते हैं। सम्पूर्ण विकास हेतु हर क्षेत्र का अनुभव होना जरूरी है। उन्होंने छात्रों को रचनात्मक सामाजिक

मेधावी छात्र सम्मान समारोह का मुख्य आकर्षण मेधावी छात्रों के माता-पिता का सार्वजनिक सम्मान रहा। इस अवसर पर आई.एस.सी. (कक्षा-12) बोर्ड परीक्षा में 99.75 प्रतिशत अंक अर्जित कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली तीन सी.एम.एस. छात्राओं कनिष्का मित्तल, अर्चिता सिंह एवं सारिया खान की माताजी को फूलों व फूलों से तौलकर सम्मानित किया गया जबकि पिताजी व टीचर-गार्जियन को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया।

इसी प्रकार, आई.सी.एस.ई (कक्षा-10) बोर्ड परीक्षा में 99.80 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले सी.एम.एस. छात्र चन्द्रांश राय की माताजी को भी फूलों व फूलों से तौलकर सम्मानित किया गया।

पत्नी पर गिरा हाईटेंशन लाइन का तार, बचाने दौड़ा पति, दोनों की मौत

हरदोई। हरदोई जिले के हरपालपुर में अरवल थाना क्षेत्र के तेरापुरसौली गांव में फसल की रखवाली कर रहे पति को खाना देने गई पत्नी पर हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर गिर गया। करंट की चपेट में आई पत्नी को बचाने के लिए पति भी पहुंच गया। घटना में दोनों की मौत हो गई।

अरवल थाना क्षेत्र के तेरापुरसौली गांव निवासी रामभजन (65) खेती करते थे। उनके खेत में इन दिनों मूंगफली की फसल तैयार हो रही है। मंगलवार को वह फसल की रखवाली करने के लिए खेत में मौजूद थे। दोपहर में उनकी पत्नी हेमकली (60) उनके लिए खाना देने गई थीं। पति का इंतजार करने के लिए वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गईं। इसी दौरान ऊपर से निकली हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर हेमकली गिर गया। पत्नी को झुलसते देख खेत से पेड़ की तरफ आ रहे रामभजन ने दौड़ लगा दी। पत्नी को बचाने के लिए उसने तार पकड़ लिया तो वह भी करंट की चपेट में आ गया।

मोदी सरकार ने नारी शक्ति को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर सशक्त करने का काम किया: कमलावती

अवधनामा ब्यूरो

इटावा। 41-इटावा लोकसभा क्षेत्र का महिला मोर्चा सम्मेलन जिलाध्यक्ष विरला शाक्या की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनावी कार्यालय हर्षवर्धन होटल में संपन्न हुआ । महिला मोर्चा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष कमलावती एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक भर्थना सावित्री कठेरिया उपस्थित रही।

महिला मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष कमलावती सिंह ने कहा कि भारत देश एक मात्र विश्व का ऐसा देश है, जिसमें देश में सबसे पहले भारत माता की जय की जाती है। हम सब बोलते हैं, भारत माता की जय। अन्य किसी देश में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। इसी से स्पष्ट होता है कि भारत देश में नारी तू नारायणी सतयुग से लेकर आज तक चलता आ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस देश का नाम और मस्तक पूरे विश्व में ऊंचा किया है। वहीं, नारी शक्ति के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। महिलाओं के लिए उज्वला एवं पीएम आवास जैसी अनेक योजनाएं चलाई जिससे महिलाओं के जीवन स्तर में काफी सुधार आया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व भर्थना विधायक सावित्री कठेरिया ने कहा कि एक तरफ ऐसी मां जिनकी पीढ़ियां भारत में राज करती आ रही हैं। उसके पति उसकी सास उसके नाना ससुर सभी ने 60 वर्षों तक भारत में राज किया और अभी भी इन लोगों का पेट नहीं भरा है। सम्मेलन में प्रस्तावना रखते हुए कानपुर देहात जिला अध्यक्ष रेणुका सचान ने कहा कि रानी दुर्गावती ऐसी रानी हुई, जिसने जीते जी पूरी ताकत से मुगलों से युद्ध लड़ा और जब उन्हें लगा कि वे शहीद हो सकती हैं तो उन्होंने अपने खास सैनिक से कहा, मेरा शरीर जीते जी दुश्मनों के हाथ न लगे। इसलिए उन्होंने खुद हाथ से अपने सीने में कटार घोप ली। इसके अलावा अवंती बाई और अहिल्याबाई जैसी वीरांगनाएं भी इस देश मे हुई, जिनका अपना स्वर्णिम इतिहास रहा। सम्मेलन को संबोधित करते हुए महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष विरला शाक्य ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार ने महिलाओं के संपूर्ण विकास के लिए ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। सम्मेलन में अपने समापन उद्बोधन में औरैया जिला अध्यक्ष मंजू चौहान ने कहा कि इस चुनाव में लड़ाई दो मां के बीच है, एक मां वो जिसको अपने दोनों बेटा और बेटी को पार्टी के सर्वोच्च पद पर बैठाने के लिए प्रयास करते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ वह मां जिनके पुत्र ने देश सेवा का संकल्प लिया और मां की अंत्येष्टि के दो घंटे बाद ही भारत माता की सेवा में आ गए। सम्मेलन का संचालन महिला मोर्चा प्रभारी प्रदेश कार्य समिति सदस्य ज्योति शुक्ला ने किया।

सम्मेलन में प्रमुख रूप से कानपुर बुंदेलखंड की क्षेत्रीय महामंत्री पुष्पा तिवारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य विनीता गुप्ता, क्षेत्रीय मंत्री मनीषा शुक्ला, राधा पाल सीमा सिंह, श्याम राजपूत, गुड्डी बाजपेई, राबिया सुल्तान, प्रीति दुबे, सीता मिश्रा, ज्योति पालीवाल, सीमा यादव, पुष्पा तोमर सहित महिला मोर्चा जिला व मण्डल पदाधिकारी बहने एवं लोकसभा क्षेत्र से काफी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित रही।

21 दिन से बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष का चल रहा धरना समाप्त

मथुरा। बार एसोसिएशन मथुरा के कोषाध्यक्ष बृजेश गौतम द्वारा 21 दिन से दिया जा रहा धरना आज करीब 50 वरिष्ठ अधिवक्ताओं , बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष आदि उपस्थिति में अध्यक्ष मदन गोपाल सिंह द्वारा कोषाध्यक्ष को जूस पिलाकर समाप्त कराया गया है। आज बार एसोसिएशन मथुरा के अध्यक्ष ने कोषाध्यक्ष की सभी मांगों को मानते हुए यह आश्वासन दिया गया कि बार के फंड में कहीं कोई अनियमित आपको दिखती है तो सारे रजिस्टर, सारे लेजर और बिल वाउचरों को आप देख सकते हैं। आपको अधिकार है। उन अधिकारों का प्रयोग करने से आपको बार एसोसिएशन में कोई नहीं रोकेगा। उन्होंने अश्वस्त किया कि अगर कोई कोषाध्यक्ष को रोकता है तो अध्यक्ष उनका साथ देंगे। यह सभी आश्वासन बार एसोसिएशन मथुरा के अध्यक्ष द्वारा सैकड़ों अधिवक्ताओं के सामने बरगद के पेड़ के नीचे खुले रूप से धरना स्थल पर दिया गया है।

प्रभु श्रीराम को शीश झुकाए वोट डालने अवश्य जाएं

अवधनामा ब्यूरो

इटावा। लोकसभा क्षेत्र इटावा से भाजपा सांसद प्रत्याशी डॉ.रामशंकर कठेरिया ने अपने पुत्र दिव्यांश कठेरिया एवं समर्थकों के साथ मैनपुरी लोकसभा की जसवंतनगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले अपने निज ग्राम नगरीय सरावा में बूथ नम्बर 450, प्राथमिक विद्यालय नगरिया सरावा पर मतदान किया।

मतदान स्थल से बाहर आने के बाद उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि प्रभु श्रीराम को शीश झुकाए, वोट डालने अवश्य जाए, कमल निशान की बटन दबाए, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनवाए। वोट डालने के बाद डॉ. रामशंकर कठेरिया ने कहा कि सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूंगा कि लोकतंत्र के इस उत्सव में उत्साह से भाग लें। एक स्थिर सरकार चुनें जो देश को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए समर्पित हो, जो गरीबों के कल्याण के लिए तथा भारत के गौरव के लिए काम करती हो। उन्होंने लोगों से ऐसी सरकार चुनने की भी अपील की जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो और गरीबी समाप्त करना चाहती हो, देश को आत्म-निर्भर, विकसित तथा दुनिया में हर क्षेत्र में अव्वल बनाना चाहती हो।

कैम्प में दो दर्जन दिव्यांगों को किया लाभान्वितः प्रेम

मथुरा। 416वां निःशुल्क दिव्यांग सहायता त्रिदिवसीय मासिक शिविर विकलांग सहायता संस्था मथुरा के तत्वाधान मे ब्रजवासी हाईटेक उद्योग परिसर, (आगरा -दिल्ली -हाइवे, हाइवे प्लाजा के सामने) हंसराज कॉलोनी रोड, जसवंत टेलीकॉम के पास, मथुरा पर आयोजित किया गया ,शिविर में पंजीकृत दिव्यांगों का निःशुल्क परीक्षण भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास सेवा संघ, नई दिल्ली की शाखा राम मनोहर लोहिया हॉस्पीटल के भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विशेषज्ञ डॉ. प्रगिथ एनपी जी ,एवं उपकरणों का निर्माण महावीर विकलांग सहायता समिति कोटा के टेक्निशीयन विनोद पाण्डेय व सतीश चंद्र द्वारा किया गया जिसमे पंजीकृत हुए 24दिव्यांग भाई- बहिनों का परीक्षण कर लाभान्वित किया गया! जिसमे केलीपर 06, कृतिम पैर 07, वैशाखी 06,छड़ी 02, पुराने उपकरणों की मरंमत तथा अन्य को चिकित्सीय सलाह दी। शिविर संचालन मे संस्था उपाध्यक्ष महेश चंद्र अग्रवाल एड., सचिव प्रेमशंकर अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सत्यवीर अग्रवाल, विजय गर्ग, कुलदीप शर्मा, का सराहनीय सहयोग रहा।

ब्रज के विरासत वृक्ष लगाने की योजना बनाएं: जिलाधिकारी

अवधनामा संवाददाता

मथुरा। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला गंगा, पर्यावरण एवं वृक्षारोपण समिति की बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी ने डीएफओ को निर्देश दिए कि जनपद में मथुरा में ब्रज के विरासत वृक्ष लगाने की कार्य योजना तैयार की जाए और उक्त योजना पर कार्य करना सुनिश्चित करें। मथुरा के विरासत वृक्षों की टेस्टिंग की जाए और ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण किया जाए। बेसिक शिक्षा अधिकारी, डीआईओएस, डीपीआरओ, डीपीओ को निर्देश दिए कि स्कूल, डिग्री कॉलेज, गंगा गांव तथा आंगनबाड़ी केंद्रों पर वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया जाए। जिलाधिकारी ने यमुना के किनारे स्थित समस्त गांव एवं घाटों की साफ सफाई के निर्देश दिये तथा वृक्षारोपण कराना सुनिश्चित करे। जिन विभागों को पूर्व में लक्ष्य प्राप्त हुआ था वे सभी विभाग अपने अपने क्षेत्रों में गड्ढा खुदवा लें, जिससे वृक्ष लगाने में कोई समस्या न आए। इसी क्रम में नगर विकास विभाग डूडा के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी को उप जिलाधिकारी आदेश कुमार ने विभाग द्वारा किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आगामी किस्त शीघ्र जारी की जाएगी। सभी ईओ अपने अपने क्षेत्रों में फॉगिंग तथा नालों की साफ सफाई करें, जिससे आगामी दिनों में आने वाली वर्षा से कोई समस्या न हो। अपनी अपनी कार्य योजना तैयार करें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए, स्ट्रीट लाइट प्रोपर कार्य करे, प्रकाश लाइट की व्यवस्था की जाए, अपने अपने नगर क्षेत्रों को सुंदर बनाएं। बैठक में मुख्य विकास अधिकाद्वरी मनीष मीना, डिप्टी कलेक्टर नरेंद्र सिंह, डीसी मनरेगा विजय कुमार पांडेय, डीपीआरओ किरन चौधरी, बीएसए सुनील दत्त, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ भूदेव सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

सभी पंचायतें बनाएंगी वाटिका, समृद्ध होगा पर्यावरण

मथुरा। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह के निर्देश, ग्राम पंचायतें अपनी कार्ययोजना में जल संरक्षण और वृक्षारोपण को सर्वोच्च प्राथमिकता पर करें। शासन ने स्वच्छ और हरित पंचायत,पर्याप्त जल वाली पंचायत बनाने के निर्देश है। डीपीआरओ किरण चौधरी ने बताया कि ग्राम पंचायत में तालाबों के सघन सफाई कर तालाब संरक्षण करना। प्रत्येक ग्राम पंचायत में सड़को,रास्तों पर ग्रामवासियों से अनुरोध कर वृक्ष लगाने का प्रयास किया जाएगा। सभी ग्राम पंचायत एक वाटिका बनाएं जिसमे बड़े वृक्ष लगाएं। जल संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सभी हैंडपंप पर सोक पीट बनाया जाएगा। ग्राम पंचायत में मियावकी वाटिका भी बनेगी,जिसमे पौधे की देख रेख ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा।

नौहझील में पनीर प्लांट पर एफडीए टीम का छापा

मथुरा में सभी जूस कॉर्नर तथा मैंगोसेक, लस्सी आदि विक्रय करने वालों को दी चेतावनी

- घी का सेंपल लिया, साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए दिया निर्देश

अवधनामा संवाददाता

मथुरा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा मिलावट खोरी के विरुद्ध चलाए जा रहे हैं अभियान के तहत सहायक आयुक्त डॉक्टर गौरी शंकर के निर्देशन में नौहझील क्षेत्र में पनीर प्लांट पर छापा मार करवाई कर घी का नमूना संग्रहित किया गया। टीम ने पनीर प्लांट के संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि पनीर का निर्माण करते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें तथा कोई भी अप मिश्रक पदार्थ पनीर प्लांट परिसर में ना रखें। इसी दौरान टीम के सदस्यों ने यहां संचालित केला पकाने वाले प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान संचालक लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। जिसके लिए उन्हें नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जाएगी।साथ ही केला पकाने में किसी भी हानिकारक रसायन का उपयोग न करने की निर्देश दिए गए। मथुरा कृष्ण नगर स्थित चौपाटी में संचालित खाद्य पदार्थों की स्टालो की जांच कर पनीर, ग्रेवी, तथा भाजी के नमूने संग्रहित किए गए। सभी स्ट्रीट वेंडर्स को निर्देश दिए गए हैं कि खाद्य पदार्थ को बनाते तथा विक्रय करते समय हेड कैप ,अप्रैन तथा ग्लव्स का उपयोग करें तथा खाद्य पदार्थों में हानिकारक कृत्रिम रंगों का उपयोग न करें सभी खाद्य पदार्थों को ढक कर रखें। यदि उनके विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कार्रवाई के दौरान मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एसपी तिवारी तथा धर्मेंद्र सिंह ,देवराज सिंह ,अरुण कुमार दलबीर सिंह ,खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित रहे।

कायाकल्प राज्य स्तरीय टीम ने सीएचसी सतहरिया का किया निरीक्षण

जौनपुर (मुंगराबादशाहपुर)। कायाकल्प राज्य स्तरीय टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सतहरिया का मंगलवार को निरीक्षण किया। इस दौरान समस्त चिकित्सक समेत सभी स्टाफ मौजूद रहे। कायाकल्प राज्य स्तरीय टीम कौशाम्बी से डा 0 हसनैन, डा 0 वंदना तथा जिले से डा 0 छितिज पाठक दोपर करीब बारह बजे सामूदायिक स्वास्थ्य केंद्र सतहरिया पहुंचे। पहुंचने के बाद तीनों चिकित्सकों ने अस्पताल के समस्त रेकॉर्ड चेक किए। तत्पश्चत् लेबर रूम, पैथालॉजी, एक्सरे रूम, दवा का स्टॉक, का गहनता के साथ निरीक्षण किया। इसके पश्चात उन्होंने शौचालय, साफ पानी की सुलभता, कैम्पस की साफ सफाई की बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान टीम के चिकित्सकों द्वारा सभी स्टाफ का इंटरव्यू भी लिया गया। उनसे उनके कार्य के बारे मे पूछताछ की गई। डा वंदना द्वारा नीद की दवा लाकर के बाहर रखी होने पर संबंधित स्टाफ को फटकार लगाई गई। इस दौरान मौजूद अधीक्षक डॉ राजेश कुमार ने बताया कि कायाकल्प राज्य स्तरीय टीम के चिकित्सकों को निरीक्षण करने के बाद संतुष्टि जताई गई। उन्होंने आगे जानकारी स्वरूप बताया कि उक्त जांच में अस्पताल को प्वाइंट नंबर मिलता है। जिसके तहत अस्पताल को कायाकल्प अवार्ड मिलता है। वह मिलने के बाद यहां की सुविधा में बढ़ोत्तरी हो जाती है।

अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में चयनित हुए श्रमिकों के बच्चे

अवधनामा संवाददाता

मथुरा। सहायक श्रमायुक्त एम.एल. पाल द्वारा अवगत कराया गया कि अटल आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कक्षा 06 एवं 09 में प्रवेश हेतु दिनांक 25.02.2024 को प्रवेश परीक्षा आयोजित हुई थी, जिसका परीक्षा परिणाम माननीय निर्वाचन आयोग की अनुमति के उपरान्त दिनांक 04 मई 2024 को घोषित कर दिया गया था। आगरा मंडल के चारों जनपदो में कक्षा-06 में 559 और कक्षा-09 में 334 विद्यार्थियों ने दी थी परीक्षा। उन्होंने बताया कि अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जनपद मथुरा के 16 छात्र छात्राएं सफल हुए। कक्षा 6 हेतु 5 छात्र एवं 3 छात्राएं कुल 8 सफल हुए। कक्षा-9 हेतु 6 छात्र तथा 2 छात्राएं कुल 8 सफल हुए। उन्होंने बताया कि मथुरा के सहायक श्रमायुक्त कार्यालय 17 बी द्वारिका पुरी में परिणाम चस्पा कर दिया गया है, जहा पर मथुरा के अभ्यर्थी परिणाम को देख सकते हैं।

आगरा मण्डल के कक्षा-06 में 559 एवं कक्षा-09 में 334 बच्चों ने प्रतिभाग किया। कक्षा-06 के लिए 70 बालक व 70 बालिकाएं तथा कक्षा-09 के लिए 70 बालक तथा 70 बालिकाएं चयनित हुए हैं। शेष बालक एवं बालिकाओं को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। सीटों के सापेक्ष 280 छात्र-छात्राओं का चयन किया गया है तथा शेष विद्यार्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। चयनित छात्र-छात्राओं के द्वारा प्रवेश न लेने पर प्रतीक्षा सूची के छात्र-छात्राओं का दाखिला लिया जायेगा। कक्षा-06 में 100 में से 100 अंक प्राप्त कर फिरोजाबाद की कु0 प्रियंशिका ने प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा बालिका वर्ग में कु0 अनन्या कुमारी जनपद फिरोजाबाद ने 95 अंक लेकर द्वितीय स्थान पर रही। बालक वर्ग में मा0 रिशु गिरि जनपद फिरोजाबाद ने 97.5 अंक लेकर प्रथम स्थान तथा मा0 चमन जनपद आगरा ने 96.5 अंक लेकर द्वितीय स्थान पर रहे। कक्षा-09 में जनपद आगरा के सुमित कुमार ने 73 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। बालक वर्ग में मा0 विश्वेन्द्र सिंह आगरा के 69 अंक लेकर द्वितीय स्थान पर रहें। बालिका वर्ग में कु0 रंजना फिरोजाबाद ने 58 अंक लेकर प्रथम स्थान तथा कु0 माया रानी जनपद मैनपुरी ने 55 अंक लेकर द्वितीय स्थान पर रही। अटल आवासीय विद्यालय कोरई, आगरा में कक्षा 06 की बालिकाओं की काउंसलिंग दिनांक- 14.05.2024 एवं बालक की दिनांक- 15.05.2024 तथा कक्षा-09 के बालिकाओं की काउंसलिंग दिनांक- 16.05.2024 एवं छात्रों की दिनांक- 17.05.2024 को होनी है। अभिभावकों को काउंसलिंग के दिन सभी दस्तावेजों की मूल प्रति तथा छायाप्रति के साथ विद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। मूल दस्तावेजों के सही पाये जाने पर ही उक्त छात्र/छात्रा का प्रवेश विद्यालय में दर्ज किया जायेगा।

उक्त परिणाम भारत निर्वाचन आयोग से इस शर्त के साथ प्राप्त अनुमति कि किसी भी व्यक्ति अथवा दल द्वारा इसका राजनैतिक लाभ नहीं लिया जाएगा के क्रम में निर्गत किया गया है।

शिव कुमार की हत्या को लेकर सामाजिक संगठनों ने जिला अधिकारी को दिया ज्ञापन

अवधनामा संवाददाता

- मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

मथुरा। जनपद के थाना सुरीर क्षेत्र के अंतर्गत विगत दिन नामजद ठाकुर जाति के लोगों ने एक दलित युवक शिवकुमार की जघन्य पूर्ण तरीके से पूर्वक हत्या कर दी गई थी । इस मामले में पुलिस की संदिग्ध भूमिका को लेकर सामाजिक संगठनों ने ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी मथुरा से मृतक परिवार को आर्थिक सहायता दिए जाने आरोपियों को गिरफ्तार करने तथा दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। डा. अम्बेडकर सामाजिक अधिकार मंच मथुरा के पदाधिकारियों के द्वारा मथुरा जनपद के थाना सुरीर के अंतर्गत आने वाले ग्राम जरारा में अनुसूचित जाति के व्यक्ति शिवकुमार की हत्या के विरोध में चार सूत्रीय मांगों का ज्ञापन पत्र माननीय जिलाधिकारी मथुरा शैलेन्द्र कुमार सिंह को दिया गया। ज्ञापन देने बालों में संरक्षक डा.जे.पी मौर्य एडवोकेट,बदन सिंह,इं.हरलाल वर्मा, डा.एस.पी सिंह, प्रदेश सचिव उ0प्र0सफाई मजदूर संघ, अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह, जिला संयोजक मुस्तकीम कुरैशी, श्याम सिंह बौद्ध,मेराज अली, डालचंद निगम,कृष्ण गोपाल कर्दम,रोहताश तंवर,दिलीप कुमार एड.अतर सिंह फौजी, पप्पू कर्दम एड.विनोद कुमार एड.कमलेश मौर्य,सरदार अमरजीत सिंह,सतीश चंद एड.राजेश आजाद एड.टी.आर.सिंह प्रभाकर एड.आदि लोग उपस्थित रहे। राष्ट्रीय समता मंच के संस्थापक प्रेम सिंह विमल के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को एक मांग पत्र देकर थाना नोहझील क्षेत्र के गांव जरारा में हुई शिवकुमार की हत्या पर रोष व्यक्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

राया में भीषण अग्निकांड, बरेली मथुरा रेल मार्ग रहा दो घंटे बंद

अवधनामा संवाददाता

राया (मथुरा) । कस्बा राया के रामलीला मैदान स्थित सब्जी मंडी काठ बाजार में सोमवार की रात्रि शार्ट सर्किट से आग लग गयी। इस दौरान रामलीला मैदान रेलवे लाइन के सहारे रखे 40 से अधिक काठ के खोखे जलकर खाक हो गये जिसमे दुकानदारों का लाखो रुपयों का नुकसान हो गया। मोके पर पांच दमकल की गाड़ी और स्थानीय लोगो ने आग पर पानी डालकर बमुश्किल काबू पाया । सूचना पर मांट महावन तहसील के एसडीएम सीओ पुलिस प्रशासन मोके पर पहुच गए। रात्रि के करीब ग्यारह बजे सब्जी मंडी में लगे विद्युत पोल में शॉर्ट शर्किट से आग लग गयी। इस दौरान केबिल से प्लास्टिक आग के साथ दुकानों के ऊपर टपकने लगी दुकानों के ऊपर पड़े छप्परों ने अचानक आग पकड़ ली देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। राहगीरों द्वारा शोर करने पर आग लगने की जानकारी होते ही घरों में सोते लोग रेलवे रोड की तरफ दौड़ने लगे। सूचना पर थाना प्रभारी अशोक कुमार मय फोर्स के घटनास्थल पर पहुच गए और उन्होंने फायर विग्रेड को घटना की सूचना दी। घटना के एक घण्टे बाद पहुची दमकलों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया तब तक सभी दुकाने जलकर खाक हो गयी। इन काठ के खोखो में दुकानदार पवन अग्रवाल रामू भट्ट कालीचरन अग्रवाल भूरा शर्मा टिल्ला अग्रवाल रंजीत , अवधलाल अमरचंद अशोक शीलेन्द्र किशन पटुआ वीरपाल आजाद भोला चन्दा आदि लोग हलवाई चाय सब्जी की दुकानें चलाकर अपना गुजारा करते है। घटना की जानकारी होते ही एसडीएम क्षेत्राधिकारी मांट महावन नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल पूर्व चेयरमैन राकेश शर्मा रामलीला कमेटी अध्यक्ष भूपेश अग्रवाल सहित व्यापारी वर्ग के लोग व अन्य कई थानों का फोर्स घटनास्थल पर पहुच गया। कस्बा राया में रेलवे लाइन के सहारे काठ के खोको में आग लगने की वजह से रेल संचालन करीब दो घण्टे बन्द रहा। अंदर जगह न होने के कारण फायर बिग्रेड की गाड़ियां हाथरस मथुरा मार्ग पर खड़ी होकर रेलवे लाइन के ऊपर से पानी के पाइप से आग बुझा रही थी। इस दौरान कासगंज की तरफ से आने वाली गाड़ियों को कोयल फाटक तो मथुरा की तरफ से आने बाली गाड़ियों को रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया।

हकीकत से कोसों दूर बंद कमरे में स्मार्ट सिटी की समीक्षा बैठक

अवधनामा संवाददाता

- विकास के नाम पर जनता से लूट की बन रही योजनाऐं
- सफाई व्यवस्था इस समय सबसे निम्न स्तर पर

मथुरा। सोमवार को मण्डलायुक्त रितु माहेश्वरी की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी मथुरा-वृंदावन द्वारा कराये जा रहे विकास कार्यों एवं नगरीय बसों के संचालन की प्रगति की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में नगरायुक्त शशांक चौधरी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद मथुरा में मल्टीलेवल कार पार्किंग का कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। फिनीशिंग का कार्य चल रहा है। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि इसी माह कार्य पूर्ण कर संबंधित विभाग को हैण्डओवर करते हुए मल्टीलेवल कार पार्किंग को क्रियाशील बनाया जाए। स्मार्ट पार्किंग को डिजीटिल रूप में सुव्यवस्थित रूप से चलाने हेतु पार्किंग वेंडर को विगत निरीक्षण के दौरान जो निर्देश दिए गये थे, उनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। 20 चौराहों पर आईटीएमएस सिग्नल का कार्य प्रस्तावित था जिसमें से 11 पर पूर्ण कार्य हो चुका है लेकिन अभी भी आधे से ज्यादा सिग्नल ब्लिंक मोड पर चल रहे हैं। जिस पर सभी सिग्नल को आईटीएमएस मोड पर ही चलाने के निर्देश दिए। वहीं इन आईटीएमएस जक्शन से जनित चालानों की समीक्षा की गयी तो संबंधित द्वारा अवगत कराया गया कि इन जक्शनों पर लगे स्मार्ट कैमरे से प्राप्त होने वाले 20 हजार वॉयलेंस के सापेक्ष सिर्फ 700 ही चालान जनित किए जा रहे हैं। इस गैप को कम करने एवं ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी चालान जनित करने हेतु सभी जक्शन पर स्मार्ट कैमरे और अन्य कंपोनेंट्स को इंप्रूव करने के साथ ही मैनपावर बढ़ाने के निर्देश दिए। सेफ सिटी के अन्तर्गत शहर में लगे लगभग एक हजार सीसीटीवी कैमरे को आईटीएमएस कंट्रोल रूम से इंटीग्रेट किया जा रहा है जिसमें लगभग 611 कैमरे इंटीग्रेटेड हो चुके हैं और इनसे डेटा भी मिलना शुरू हो गया है लेकिन कंट्रोल रूम में पुलिस टीम तैनात न होने से प्रक्रिया अधूरी है। मंडलायुक्त ने कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग करने हेतु एक पुलिस टीम गठित करवाने हेतु पुलिस उच्च अधिकारियों से पत्राचार करने के निर्देश दिए। शिववाला नगर के सामने से पागल बाबा मंदिर तक लगभग 3.38 करोड़ की लागत से सोलर लाईट लगाने, हजारीमल सौमानी इंटर कॉलेज के प्रथम तल पर 1.7 करोड़ की लागत से 7 क्लास रूम, शौचालय के पुर्ननिर्माण एवं स्मार्ट क्लास की स्थापना, 25 लाख की लगात से गांधी पार्क में सूर्य नमस्कार स्टैच्यू लगाने आदि उक्त सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

भाजपा कार्यकर्ताओं में दिखी उदासी, जमकर हुआ भितरघात

- प्रत्याशी की उदासीनता के चलते उम्मीद से कम उत्साह दिखा कार्यकर्ताओं में

अवधनामा संवाददाता

शिकोहाबाद। लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार तक भाजपा और इंडिया गठबंधन में कांटे की टक्कर थी। लेकिन प्रत्याशी की उदासीनता के चलते मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह कम दिखा। यह उत्साह मतदान वाले दिन और ज्यादा दिखाई दिया। वहीं कुछ क्षेत्रों में पार्टी में जमकर भितरघात भी हुआ। जो लोग पार्टी के साथ प्रचार-प्रसार के दौरान दिखाई दे रहे थे, वही लोग मतदान के दिन साइकिल में वोट डालते और डलवाते हुए दिखे।

मतदान के दिन भितरघात तो अक्सर होता ही रहता है। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में यह काफी अधिक दिखाई दिया है। जिसका कारण भाजपा के स्थानीय नेताओं मे आपसी खींचतान भी रही है। और भाजपा द्वारा जिसे प्रत्याशी बनाया गया उसका भाजपा के आनुसांगिक संगठनों से तालमेल भी नहीं बैठा। जिसके कारण भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रुचि कम ली है। जिसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अक्षय यादव को होता दिख रहा है। मतदान के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान वोटरों से बात करने पर यह पता चला कि भाजपा का कोर वोट कहा जाने वाला तबके में भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने सेंधमारी की है। जिसका भाजपा को नुकसान उठाना ही पड़ेगा। शिकोहाबाद, सिरसागंज, टूंडला और जसराना विधान सभा में यह भितरघात ज्यादा देखने को मिला है। कुछ गावों में तो भाजपा का बस्ता भी लगा नहीं मिला। जब इस संबंध में कुछ लोगो से बात की तो पता चला कि प्रत्याशी द्वारा चुनाव सही तरीके से लड़ा ही नहीं गया है। प्रत्याशी ने प्रत्येक पार्टी कार्यालय पर अपने रिश्तेदारों को तरजीह दी, जिससे स्थानीय कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में अंदरूनी गांठ बनी रही। यह लोग खुल कर तो कुछ नहीं कह पा रहे थे, लेकिन मतदान के दिन इनके अंदर कोई उत्साह नहीं दिखा। जिससे स्पष्ट होता है कि भाजपा के प्रत्याशी की उदासीनता और कार्यकर्ताओं को तरजीह देना कहीं भारी न पड़ जाए।

राष्ट्रवाद के नाम पर पड़ा भाजपा को वोट

भाजपा को सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और उनके राष्ट्रवाद के नाम पर ही वोट पड़ा है। भाजपा प्रत्याशी ने क्षेत्र में उस तरह से जनसंपर्क और भ्रमण नहीं किया, जो एक प्रत्याशी को करना चाहिए। उसके लिए पार्टी द्वारा देरी से अपने उम्मीदवार की घोषणा करना भी एक बजह रही है। उसके साथ ही प्रत्याशी द्वारा लोकसभा के चुनाव को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी एवं सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव ने चुनाव को लिया। प्रोफेसर और उनके पुत्र अक्षय यादव ने चुनाव से छह माह पहले ही पूरे जिले के प्रत्येक गांव और घर में अपनी दस्तक देदी थी। जिसका आज उन्हें लाभ मिलता दिख रहा है। जिस तरह के जनता ने रुझान दिखाया है, उससे स्पष्ट होता है कि साइकिल की रफ्तार तेज है और उसे थामना जनपद में मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रही है।

नगला जबाहर और नीमखेरिया में नहीं हुआ मतदान

शिकोहाबाद - नगला ऊमर, नीम खेरिया में ग्रामीणों ने रेलवे लाइन पर अंडर पास की मांग को लेकर मतदान का वहिष्कार कर दिया। अधिकारियों के काफी समझाने के बाद भी लोग वोट डालने के लिए तैयार नहीं हुए। उसके बाद दोपहर एक बजे के करीब कुछ नेता नगला जवाहर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों को समझा कर मतदान प्रारंभ करा दिया। लेकिन नीम खेरिया में चार बजे तक मतदान शुरू नहीं हो सका। इतना ही नहीं अधिकारियों ने शीघ्र उनकी समस्या का समाधान निकालने का आश्वासन दिया। इसके बाद नगला जवाहर में मतदान दोपहर एक बजे के बाद शुरू हो गया वहीं नीम खेरिया में मतदान नहीं हो सका।

कई पोलिंग बूथ को बनाया गया आदर्श वूथ

नगर के कई विद्यालयों में स्थापित वूथ को गुब्बारे और टैंट लगा कर सजाया गया था। जिससे मतदाताओं को वोट करने के लिए लुभाया जा सके। कई कम्पोजिट विद्यालयों पर भी आदर्श वूथ बनाये गये। इन बूथों पर मतदाताओं के लिए हरी कार्पेट बिछाई गई। पानी की सुविधा भी मुहैया कराई गई। नगला ऊमर और नगला नीम खेरिया में कार्पेट तो बिछाई लेकिन मतदाओं ने मतदान में कोई रुचि नहीं दिखाई। हरी कार्पेट और गुब्बारे से सजाया स्कूल, वही बीडीएम डिग्री कॉलेज में टेंट लगाकर की गई सजावट।

प्लेआफ की दौड़ में बने रहने के लिये लखनऊ को हराने उतरेगी सनराइजर्स हैदराबाद

अपने बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन से उबरकर सनराइजर्स हैदराबाद लखनऊ सुपर जाइंटस के खिलाफ बुधवार को आईपीएल के मैच में जीत दर्ज करके प्लेआफ का दावा पुख्ता करने के इरादे से उतरेगी। दोनों टीमों के 11 मैचों में 12 अंक हैं। सनराइजर्स का नेट रनरेट (माइनस 0.065) लखनऊ (माइनस 0.371) से बेहतर है। अंकतालिका में कोलकाता नाइट राइडर्स (16), राजस्थान रॉयल्स (16) और चेन्नई सुपर किंग्स (12) उससे ऊपर हैं।

सनराइजर्स और लखनऊ में से जो जीतेगा वह प्लेआफ की दौड़ में एक कदम आगे होगा। पैट कमिंस की कप्तानी वाली टीम में प्रतिभा की कमी नहीं है लेकिन पिछले कुछ मैचों में उसके विजय अभियान पर रोक लग गई है। पिछले चार में से तीन मैचों में सनराइजर्स को पराजय का सामना करना पड़ा है क्योंकि उसके आक्रामक बल्लेबाज नाकाम रहे हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ पिछले मैच में वे बड़ा स्कोर नहीं बनाने के कारण सात विकेट से हार गए। ट्रेविस हेड को छोड़कर बाकी बल्लेबाज पिछले कुछ मैचों में खराब फॉर्म में रहे हैं।

युवा अभिषेक शर्मा पिछले चार मैचों में 30 रन से आगे नहीं जा सके हैं। सनराइजर्स के मुख्य कोच डेनियल विटोरी ने स्वीकार किया कि हर बार सलामी बल्लेबाजों पर ही जिम्मेदारी नहीं छोड़ी जा सकती, मध्यक्रम को भी कमान संभालनी होगी। हेनरिच क्लासेन लगातार अच्छा खेलने में नाकाम रहे हैं और नीतिश रेड्डी ने भी टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन किया है। टी नटराजन ने अच्छी गेंदबाजी की है जबकि अनुभवी भुवनेश्वर कुमार ने भी लय हासिल कर ली है।

दूसरी ओर लखनऊ सुपर जाइंट्स ने कोलकाता के खिलाफ इकाना स्टेडियम पर निराशाजनक प्रदर्शन किया और पहली बार 200 से अधिक रन देने के बाद 137 रन पर आउट हो गई। कप्तान केएल राहुल नाकाम रहे जबकि मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन भी बड़ी पारियां नहीं खेल सके। आयुष बडोनी का इस आईपीएल में प्रदर्शन औसत ही रहा है और वह अपनी उपयोगिता साबित करना चाहेंगे।

गेंदबाजी में तेज गेंदबाज मयंक यादव आईपीएल से बाहर हो गए हैं जबकि बायें हाथ के तेज गेंदबाज मोहसिन खान को भी चोट लगी है। अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज नवीनुल हक, युवा यश ठाकुर, स्टोइनिस और स्पिनर कृणाल पंड्या तथा रवि बिश्नोई पर दारोमदार होगा।

टीमें

सनराइजर्स हैदराबादः पैट कमिंस (कप्तान), अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, हेनरिच क्लासेन (विकेटकीपर), ऐडन मार्करम, अब्दुल समद, नीतिश रेड्डी, शाहबाज अहमद,भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनादकट, टी नटराजन, मयंक मार्कंडेय, उमरान मलिक, अनमोलप्रीत सिंह, ग्लेन फिलिप्स, राहुल त्रिपाठी, वाशिंगटन सुंदर, उपेन्द्र यादव, झटवेध सुब्रमण्यन, सनवीर सिंह, विजयकांत व्यासकांत, फजलहक फारूकी, मार्को यानसेन, आकाश महाराज सिंह और मयंक अग्रवाल।

लखनऊ सुपर जाइंट्सः केएल राहुल (कप्तान), क्विंटन डिकॉक, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, काइल मेयर्स, मार्कस स्टोइनिस, दीपक हुडा, देवदत्त पडिक्क ल, रवि बिश्नोई, नवीन उल हक, करुणाल पंड्या, युद्धवीर सिंह, प्रेरक मांकड़, यश ठाकुर, अमित मिश्रा, शमर जोसेफ, मयंक यादव, मोहसिन खान, के गौतम, शिवम मावी, अर्शिन कुलकर्णी, एम सिद्धार्थ, एश्टन टर्नर, मैट हेनरी, मोहम्मद अरशद खान।

टी20 वर्ल्ड कप के लिए एसकेवाई कर रहे सीक्रेट तैयारी, भारत के मिस्टर 360 ने किया खुलासा

टी20 वर्ल्ड कप करीब है। आईपीएल खेलते हुए भी भारतीय खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुटे हैं। वहीं सूर्यकुमार यादव ने इसके बारे में जानकारी दी है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ बेहतरीन शतक बनाने के बाद सूर्या जियो सिनेमा पर कमेंट्री पैनल से बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि टी20 वर्ल्ड कप भी दिमाग में है। इसको लेकर वह खास तरह से तैयारी कर रहे हैं और दोपहर के वक्त भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बता दें कि, हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में सूर्या ने 51 गेंदों पर 102 रनों की नाबाद पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 12 चौके और 6 शानदार छक्के भी लगाए। सूर्या की इस पारी की बदौलत तीन विकेट गंवाकर संकट में फंसी मुंबई ने ये मैच जीत लिया।

वहीं इस दौरान जब सूर्या से पूछा गया कि टी20 वर्ल्ड कप करीब आ रहा है। इसको लेकर आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इस सवाल के जवाब में भारतीय बल्लेबाज ने अपना राज खोला। उन्होंने बताया कि भले हम आईपीएल खेल रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं दिमाग में टी20 वर्ल्ड कप चल तो रहा ही है। सूर्या ने बताया कि इसको लेकर भी मैं तैयारी कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि दोपहर के वक्त भी प्रैक्टिस करने ग्राउंड पर पहुंच जा रहा हूं। इसके पीछे की वजह बताते हुए सूर्यकुमार यादव ने कहा कि असल में यूएसए और वेस्टइंडीज में मैच दिन के वक्त ही खेले जाने हैं। इसलिए मैं अभी दिन में बैटिंग कर रहा हूं ताकि ये अभी से आदत में आ जाए और वहां जाने के बाद एकदम से नया ना लगे।

टी-20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान टीम में कलह! बाबर आजम-इमाद वसीम में कहासुनी

वीडियो सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में कप्तान बाबर आजम और इमाद किसी बात को लेकर बहस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ समय पहले ही इमाद वसीम ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें बाबर से कोई तकलीफ नहीं है।

टी20 वर्ल्ड कप के लिए सभी टीमों का ऐलान हो चुका है लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक अपने स्क्वॉड का ऐलान नहीं किया है। फिलहाल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए अपनी 17 सदस्यीय स्क्वॉड का ऐलान जरूर किया है, जिसके बाद इसी में से 15 खिलाड़ी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए फाइनल होंगे। वहीं पाकिस्तान के इस स्क्वॉड में मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की वापसी हुई है। साथ ही इन दिनों पाकिस्तान टीम आयरलैंड के दौरे पर निकलने से पहले लाहौर में ट्रेनिंग कैंप में प्रैक्टिस कर रही है। इस बीच कप्तान बाबर आजम और इमाद वसी के बीच नोकझोंक का वीडियो सामने आया है। जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

बता दें कि, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप को लेकर दोनों ने ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास वापस ले लिया। जिसके बाद उन्हें पाकिस्तान स्क्वॉड में वापसी मिल गई है। पाकिस्तान की प्रैक्टिस सेशन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद आमिर के बीच तोड़ी अनबन देखने को मिल रही है। ये वीडियो कितना सही है या गलत इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में कप्तान बाबर आजम और इमाद किसी बात को लेकर बहस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ समय पहले ही इमाद वसीम ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें बाबर से कोई तकलीफ नहीं है। इमाद वसीम ने इंटरव्यू में कहा था कि, हमारा बाबर आजम से कोई इश्यू नहीं हैं, वह टीम का कप्तान है और हम सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं हो सकता है बाबर आजम इसलिए फिर से कप्तान बनाया गया है क्योंकि वे हमें वर्ल्ड कप ट्रॉफी दिलाएगा। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 भारत में खेला गया था, जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई थी।

इगोर स्टिमक ने भुवनेश्वर शिविर के लिये 15 संभावित खिलाड़ियों की घोषणा की

भारतीय सीनियर पुरूष टीम के मुख्य कोच इगोर स्टिमक ने मंगलवार को कुवैत और कतर के खिलाफ फीफा विश्व कप 2026 के प्रारंभिक संयुक्त क्वालीफिकेशन दूसरे दौर के मुकाबलों के लिये 15 संभावित खिलाड़ियों की दूसरी सूची जारी की। पहली सूची शनिवार को जारी की गई थी। पहली सूची में शामिल 26 खिलाड़ी भुवनेश्वर में 10 मई से अभ्यास शुरू करेंगे। दूसरी सूची में शामिल 15 खिलाड़ियों में मुंबई सिटी एफसी और मोहन बागान एसजी के खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने आईएसएल कप फाइनल खेला। वे 15 मई को शिविर से जुड़ेंगे। कुल 41 खिलाड़ी राष्ट्रीय शिविर में भाग लेंगे। भारत का सामना छह जून को कोलकाता में कुवैत से और 11 जून को कतर में कतर से होगा। भारत ग्रुप ए में चार मैचों में चार अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। ग्रुप की शीर्ष दो टीमें तीसरे दौर में पहुंचेंगी और एएफसी एशियाई कप का टिकट कटायेंगी।

गोलकीपरः पी तेमपा लाचेंपा, विशाल कैथ डिफेंडरः आकाश मिश्रा , अनवर अली, मेहताब सिंह, राहुल भेके, शुभाशीष बोस, मिडफील्डर = अनिरूद्ध थापा, दीपक टंगड़ी, लालेंगमाविया राल्टे, लालियांजुआला छांगटे, लिस्टन कोलासो, सहल अब्दुल समद।

खराब मौसम के कारण कोलकाता में नहीं उतरी केकेआर की फ्लाइट, अचानक गुवाहाटी में करना पड़ा लैंड

सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स की फ्लाइट कोलकाता पहुंची। लेकिन लैंड नहीं कराया जा सका। इसके बाद फ्लाइट को गुवाहाटी डायवर्ट किया गया। दरअसल, इस दौरान फ्लाइट में बैठे खिलाड़ियों के चेहरे पर खौफ साफ देखा जा सकता था, लेकिन आप जानना चाहेंगे कि फ्लाइट को कोलकाता से गुवाहाटी क्यों डायवर्ट करना पड़ा। दरअसल, कोलकाता में मौसाम बेहद खराब था जिस कारण फ्लाइट को गुवाहाटी डायवर्ट कर दिया। हालांकि, गुवाहाटी में फ्लाइट लैंड करने में कामयाब रही।

वहीं बता दें कि, सोमवार को कोलकाता में तेज आंधी और बिजली के साथ बारिश हुई। इस दौरान तकरीबन 1 घंटे तक कोलकाता एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही बाधित रही। साथ ही 12 चार्टेड फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया। कोलकाता से फ्लाइट डायवर्ट होने के बाद केकेआर की फ्लाइट गुवाहाटी पहुंची। जहां खिलाड़ियों को लगभग 2 घंटे बिताने पड़े। फिर दोबारा कोलकाता के लिए उड़ान भरने की अनुमति मिल गई। इससे पहले इकाना स्टेडियम में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली केकेआर ने लखनऊ सुपर जांयट्स को 98 रनों के बड़े अंतर से हराया।

वहीं अब कोलकाता नाइट राइडर्स प्वॉइंट्स टेबल में टॉप पर काबिज है। केकेआर के 11 मैचों में 16 प्वाइंट्स हैं। हालांकि, राजस्थान रॉयल्स के भी 16 पॉइंट्स हैं। लेकिन बेहतर रन रेट के कारण केकेआर टॉप पर काबिज हो पाई है। वहीं दोनों टीमों का प्लेऑफ में खेलना तय है। इसके बाद सीएसके 12 प्वॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के भी बराबर 12-12 प्वाइंट्स हैं।

करीना कपूर खान ने सैफ अली खान के बड़े बेटे इब्राहिम की नवीनतम तस्वीरों पर सबसे मनमोहक टिप्पणी की

इब्राहिम अली खान ने इंस्टाग्राम पर डेब्यू करके इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। तब से स्टार लड़का कुछ आकर्षक तस्वीरें पोस्ट कर रहा है और अपने प्रशंसकों को विजुअल ट्रीट दे रहा है। लेकिन एक व्यक्ति जो इग्गी के लिए पूरी तरह से उत्साहित है, वह बेबो है, करीना कपूर खान इब्राहिम की नवीनतम तस्वीरों पर सभी प्यारे कमेंट्स कर रही हैं, और प्रशंसक इस बॉन्डिंग को पसंद कर रहे हैं। इब्राहिम की नवीनतम तस्वीरों ने एक बार फिर सभी का ध्यान आकर्षित किया है और इसके साथ ही बेबो उन पर प्यार बरसाने के लिए वापस आ गई है।

करीना कपूर खान इब्राहिम अली खान के इंस्टाग्राम पोस्ट पर अपनी टिप्पणी से पूरी तरह भावुक हो गई और उन्होंने कहा, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतने हैंडसम लगो। बेबो वास्तव में सैफ अली खान के परिवार से प्यार करती हैं और इब्राहिम और सारा अली खान के साथ उनका रिश्ता प्यारा है।

अपनी एक उपस्थिति में शर्मिला टैगोर ने करीना से कहा था कि उनका इकलौता बड़ा पोता इब्राहिम असली पटौदी जैसा दिखता है और वह खुशी से सहमत हो गई। बेबो ने अक्सर कहा था कि उनके और सैफ के बच्चों के बीच कोई अजीबता नहीं है और वे दोस्त की तरह हैं। कॉफ़ी विद करण शो में अपनी उपस्थिति में करीना ने कहा कि कैसे उन्होंने कभी भी सारा और इब्राहिम की माँ बनने की कोशिश नहीं की क्योंकि उनके पास पहले से ही एक माँ है और अमृता सिंह एक महान माँ हैं और वह केवल उनकी दोस्त बन सकती हैं।

सब्यसाची ने 1965 घंटे लगाकर तैयार की थी मेट गाला के लिए आलिया भट्ट की साड़ी, लेकिन एक्ट्रेस ने लुक डिस्क्रिप्शन में कर दी गड़बड़ी

बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट ने मेट गाला 2024 में अपनी दूसरी उपस्थिति दर्ज कराई है। आलिया ने मेट के इस साल के संस्करण के लिए मिंट ग्रीन फ्लोरल प्रिंट सब्यसाची साड़ी को चुना। आलिया का आउटफिट और स्टाइल सब लाजवाब था और उन्होंने रेड कार्पेट पर अपने आउटफिट को बखूबी कैरी किया। लेकिन अपने लुक के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस से बड़ी गलती हो गई। अब लोगों को एक्टर की ये गलती नजर आने लगी है। तो आइए जानते हैं कि इस बार आलिया भट्ट से क्या गलती हो गई।

आलिया भट्ट ने वोग से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपने आउटफिट की स्टाइलिंग और खासियतों के बारे में बात की और अपने मेट गाला 2024 लुक को तैयार करने के लिए की गई कड़ी मेहनत के बारे में भी बताया। एक्ट्रेस ने काफी तनाव के साथ अपनी बात रखी और कहा कि वह आंकड़ों को सटीक तरीके से पेश करना चाहती थीं, लेकिन इतना कहने के बाद भी उन्होंने गलत आंकड़े पेश कर दिए। आलिया भट्ट ने बातचीत के दौरान कहा, ये सब हाथ से बनाया गया है। मुझे इसे सही करने दें क्योंकि शिल्प कौशल के लिए आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं, इस साड़ी को बनाने में 1905 मानव-घंटे लगे हैं। हालांकि, एक्टर द्वारा दिया गया ये आंकड़ा सही नहीं था।

आलिया भट्ट और मशहूर डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में आलिया ने मेट गाला 2024 रेड कार्पेट से कई तस्वीरें शेयर की हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक लंबा कैप्शन लिखा, जिसमें उन्होंने अपने आउटफिट का श्रेय सब्यसाची को दिया और इसकी डिटेल्स बताई। इस पोस्ट में लिखा था कि उनकी साड़ी को बनाने में 1965 घंटे लगे। इसे 163 कारीगरों ने बनाया है और यह पूरी तरह से हस्तनिर्मित और हाथ से कढ़ाई की गई है। इसके अलावा डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी ने साड़ी कैसे बनाई गई इसकी प्रक्रिया साझा की और बताया कि साड़ी को बनाने में 1965 घंटे लगे। अफसोस की बात है कि आलिया भट्ट ने पूरी प्रक्रिया से 60 घंटे काम कम कर दिया।

मंच पर गाना गाते-गाते नाखून काट रहे थे अरिजीत सिंह, वीडियो वायरल होने पर गायक की हरकत पर भड़के लोग

अरिजीत सिंह उस पीढ़ी के लिए एक एहसास बन गए हैं जो हंसते हैं, रोते हैं और उनका संगीत सुनने की इच्छा रखते हैं। वह गायक जो कम प्रोफ़ाइल रखता है और मीडिया की सुर्खियों से बचने की कोशिश करता है, उनका व्यक्तित्व दिलचस्प है, ठीक उसी तरह जैसे वह सहजता और उत्साह के साथ भावपूर्ण से जीवंत धुनों की ओर जाते है। अरिजीत ने अपने एक दशक लंबे करियर के दौरान हिंदी सिनेमा व्यवसाय में कई ए-लिस्टर्स के लिए अपनी आवाज का योगदान दिया है। हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके लिए उन्हें नेटिजन्स द्वारा ट्रोल किया जा रहा है।

अरिजीत सिंह का यह वीडियो सोशल मीडिया पर पसंद नहीं आया और नेटीजन उन्हें मंच पर और परफॉर्म करते समय ऐसा करते देख नाराज हो गए। नेटिज़न्स अपनी राय देने के लिए टिप्पणी अनुभाग में उमड़ पड़े। एक यूजर ने लिखा, घृणित। अगर आपको किसी अजीब कारण से ऐसा करना ही पड़ा तो मंच के पीछे चले जाएं। एक अन्य यूजर ने लिखा, क्या यही अच्छा व्यवहार है? तीसरे यूजर ने लिखा, नेल्स काटने का तरीका थोड़ा कैजुअल है।

अरिजीत 2005 में रियलिटी शो फेम गुरुकुल में दिखाई देने के बाद प्रमुखता से उभरे। उन्होंने 2011 में फिल्म मर्डर 2 के गीत फिर मोहब्बत के साथ पार्श्व गायन की शुरुआत करने से पहले विभिन्न फिल्मों के लिए एक संगीत प्रोग्रामर के रूप में काम किया। उन्होंने रिकॉर्ड किया है गाने सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि बंगाली में भी।

अरिजीत सिंह ने ऐसे गाने गाए हैं जो हर समय चार्टबस्टर बन गए। इन गानों में डंकी से ओ माही, हमारी अधूरी कहानी का टाइटल ट्रैक, डंकी से लुट पुट गया, जवान से चालेया, बेफिक्रे से नशे सी चढ़ गई, राब्ता से मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तमाशा से अगर तुम साथ हो और ईके विलेन से हमदर्द शामिल हैं।

उन्होंने फिल्मफेयर अवॉर्ड्स, फिल्मफेयर अवॉर्ड्स बांग्ला, फिल्म फेयर अवॉर्ड्स साउथ, एफ ओआई ऑनलाइन अवॉर्ड्स, गाना यूजर चॉइस आइकॉन्स, ग्लोबल इंडियन म्यूजिक एकेडमी अवॉर्ड्स, गिल्ड अवॉर्ड्स, गुजराती आइकॉनिक फिल्म अवॉर्ड्स और आईफा अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार हासिल किए हैं।

हेमा मालिनी की चचेरी बहन होने का बॉलीवुड में मधु को मिला था काफी फायदा, एक्ट्रेस ने खुद कबूली ये बात

बॉलीवुड एक्ट्रेस मधु ने हाल ही में दिग्गज बॉलीवुड स्टार हेमा मालिनी के परिवार से आने के विशेषाधिकार के बारे में बात की। मधु ने कहा कि चूंकि उनके पिता एक फिल्म निर्माता थे और मालिनी उनकी चचेरी बहन थीं।

बॉलीवुड एक्ट्रेस मधु ने हाल ही में दिग्गज बॉलीवुड स्टार हेमा मालिनी के परिवार से आने के विशेषाधिकार के बारे में बात की। मधु ने कहा कि चूंकि उनके पिता एक फिल्म निर्माता थे और मालिनी उनकी चचेरी बहन थीं, इसलिए अभिनेता बनने के लिए मुंबई आने वाली अन्य लड़कियों के विपरीत, उनके साथ हमेशा सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता था। मधु ने एक मनोरंजन पोर्टल को बताया, हेमा जी जैसी कलाकार के घर से आने से मुझे बहुत सम्मान मिला।

फूल और कांटे की अभिनेत्री ने विस्तार से बताया कि हालांकि फिल्म उद्योग में कनेक्शन होने से उन्हें सही इलाज मिला, लेकिन इससे सफलता सुनिश्चित नहीं हुई। मधु ने एक मनोरंजन पोर्टल को बताया चाहे मुझे कोई फिल्म मिले या न मिले, चाहे मुझे एक अभिनेता के रूप में सराहना मिले या न मिले, हेमा जी के घर से आने के कारण मुझे निश्चित रूप से वह सम्मान मिला, जो दुर्भाग्य से, कई लड़कियां जो अभिनेता बनने के लिए बॉम्बे आती हैं, उन्हें नहीं मिलता। उन्हें अप्रिय चीजों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मुझे वे अनुभव कभी नहीं मिले।

उन्होंने तर्क दिया, शायद इसलिए कि मेरे पिता पहले से ही एक निर्माता थे। हो सकता है कि मुझमें किसी तरह की गरिमा हो। इसने मुझे एक फिल्म नहीं दी, इसने मुझे हिट नहीं दिया, इसने मुझे सराहना भी नहीं दी, लेकिन इसने मुझे पहुंच प्रदान की। अगर मैं किसी के कार्यालय में जाता था, तो मेरे साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाता था। मधु का संबंध अभिनेत्री जूही चावला से भी है। जूही मधु के साले की पत्नी है। लेकिन कयामत से कयामत तक एक्टर के रिश्तेदार होने से उनके करियर पर कोई खास असर नहीं पड़ा। 55 वर्षीय एक्ट्रेस ने कहा जूही जी मेरे जीवन में एक परिवार के सदस्य के रूप में बहुत बाद में आई, मेरी शादी के बाद। और जब मेरी शादी हुई, तो मैंने एक तरह से इंडस्ट्री छोड़ दी थी। इसलिए परिवार में उनका रहना, भावनात्मक रूप से, या मानसिक रूप से, या शारीरिक रूप से, मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मधु, जिन्होंने कई तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में अभिनय किया है, अगली बार हिंदी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर, कर्तम भुगतम में दिखाई देंगी।

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के विदेश दौरे पर वी मुरलीधरन ने उठाए सवाल

तिरुवनंतपुरम/ नई दिल्ली।,(हि.स.)। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के विदेश दौरे पर केंद्रीय मंत्री और अट्टिंगल

लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार वी मुरलीधरन ने सवाल उठाए हैं। मुरलीधरन ने आज मीडिया से बातचीत में कहा कि यह विडंबना है कि केरल में लोगों की मौत होने की खबरें आई हैं और मुख्यमंत्री पर्यटन का आनंद लेने विदेश जा रहे हैं। इसे लेकर केरल की जनता चिंतित और इन यात्राओं के लिए इतना पैसा कहां से आया? यह केरल की जनता जानना चाहती है। वी मुरलीधरन ने कहा कि केरल के मुख्यमंत्री और राज्य के पर्यटन मंत्री, जो उनके दामाद हैं, उनके परिवार के साथ विदेश में निजी दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि उनकी निजी यात्रा पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन केरल के इतिहास में पहली बार लोगों की मौत की खबरें आई हैं और मुख्यमंत्री समुद्र तट पर्यटन का आनंद लेने के लिए विदेश जा रहे हैं।

वी मुरलीधरन ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री बगैर किसी को प्रभार दिए ही 19 दिनों के विदेश में निजी दौरे पर हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री की इस निजी यात्रा पर होने वाला खर्च उनकी घोषित आय से ज्यादा है। इसके लिए पैसा कहां से आया। वी मुरलीधरन ने कहा कि सीपीआई-एम मजदूर वर्ग की पार्टी है। जब देश-प्रदेश की जनता गर्मी से त्रस्त हो तो विदेश में विलासितापूर्ण यात्राओं को कौन प्रायोजित कर रहा है, यह जानने का हक केरल की जनता को है।

बीआरओ ने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ मित्र देशों में भी सड़कें बनाई : रक्षा सचिव

रिकॉर्ड

रक्षा सचिव ने विश्वास व्यक्त किया कि संगठन के कर्मयोगी रिकॉर्ड समय में सीमा बुनियादी ढांचे के विकास को जारी रखेंगे।

नई दिल्ली(हि.स.)। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) मंगलवार को अपना 65वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज नई दिल्ली में हुए कार्यक्रम में रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने कहा कि बीआरओ ने भारत से लगी भूटान म्यांमार अफगानिस्तान और तजाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ-साथ मित्र देशों में भी सड़कें बनाई हैं। देश की उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर 9 फीट से 19 हजार फीट तक की ऊंचाई पर सड़क निर्माण करके अग्रिम इलाकों तक सेना की पहुंच बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि दुर्गम इलाकों में मौसम के विपरीत कठिन स्थिति में बीआरओ ने अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। उन्होंने सीमा सड़क संगठन को एक अत्यंत महत्वपूर्ण संगठन बताया, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रक्षा सचिव ने विश्वास व्यक्त किया कि संगठन के कर्मयोगी रिकॉर्ड समय में सीमा बुनियादी ढांचे के विकास को जारी रखेंगे। उन्होंने आग्रह किया कि परियोजनाओं को तीव्र गति से पूरा करने के लिए नवीनतम तकनीक अपनाई जाए। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने सिल्कयारा सुरंग ढहने और सिक्किम बाढ़ के दौरान राहत और बचाव प्रयासों में सीमा सड़क संगठन कर्मियों के बहुमूल्य योगदान को याद किया। रक्षा सचिव अरमाने ने सेला सुरंग पर कुछ पुस्तकों का अनावरण भी किया। उन्होंने वर्ष 2023-24 के लिए सीमा सड़क संगठन कर्मियों को उत्कृष्टता पुरस्कार दिए और महिला कर्मियों को सम्मानित किया। उन्होंने सेला टनल जैसी विभिन्न परियोजनाओं के साथ-साथ सिक्किम बाढ़ के दौरान काम करने वाले आकस्मिक भुगतान वाले मजदूरों को भी सम्मानित किया। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने कहा कि बीआरओ की टैगलाइन इन द साइलेंस ऑफ आवर ग्रेट माउंटेन्स-वर्क स्पीक्स संगठन के समर्पण, दृढ़ता और देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन पर प्रभाव को दर्शाती है। उन्होंने सभी रैंकों से जुड़े कर्मियों का आह्वान किया कि वे लोगों के आपसी संपर्क के लिए स्थानों को जोड़ने का कार्य जारी रखें। इस समय सीमा सड़क संगठन 18 परियोजनाओं पर कार्य करने वाला एक महत्वपूर्ण संगठन बन गया है। अब बीआरओ ने ऊंचाई वाले और कठिन बर्फीले क्षेत्रों में अग्रणी बुनियादी ढांचा निर्माण एजेंसी के रूप में अपनी साख स्थापित कर ली है।

कांग्रेस मुस्लिमों को आरक्षण देने की तैयारी में है: डॉ सरमा

गुवाहाटी (असम)(हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव की मुस्लिम आरक्षण संबंधी मांग से यह साबित हो गया है कि कांग्रेस नेतृत्व वाला इंडी एलाइंस मुसलमानों को आरक्षण देने के एजेंडे पर कार्य कर रहा है। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ सरमा पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के साथ मतदान करने पहुंचे थे। मतदान के बाद डॉ सरमा यहां पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछले दरवाजे से मुसलमान को आरक्षण देने की तैयारी कर रखी है। डॉ सरमा ने कहा कि वह हमेशा से ही यही कहते रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश कर रही है, जो आज साबित हो गया है।

भाजपा में शामिल राधिका खेड़ा और शेखर सुमन ने की नड्डा से मुलाकात

नई दिल्ली (हि.स.)। कांग्रेस की पूर्व नेता राधिका खेड़ा और अभिनेता शेखर सुमन ने मंगलवार को भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। जेपी नड्डा ने सभी नए सदस्यों का पार्टी में स्वागत करते हुए उनका मार्गदर्शन किया। उल्लेखनीय है कि हीरामंडी अभिनेता शेखर सुमन ने 2009 में बिहार के पटना साहिब से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था और भाजपा के शत्रुघ्न सिन्हा से हार गए थे। राधिका खेड़ा कांग्रेस की राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक रही हैं।

नई दिल्ली-एनसीआर के आबोहवा फिर हुई बहुत खराब, एक्यूआई स्तर 300 के पार

नई दिल्ली (हि.स.)। दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। मंगलवार को राजधानी दिल्ली में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300 के पार चला गया।

खराब वायु गुणवत्ता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने मंगलवार को बैठक बुलाई, जिसमें इस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए ।

आयोग के मुताबिक दिल्ली में अत्यधिक प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण दिल्ली का एक्यूआई स्तर 300 यानि %बहुत खराब% श्रेणी तक पहुंच गया है। पूर्ण शुष्क परिस्थितियों के तहत हवा की दिशा और गति में तेजी से बदलाव के कारण क्षेत्र में पार्टिकुलेट मैटर यानि सूक्ष्म कण हवा में रुक गये हैं।

आयोग ने बताया कि इस स्थिति से निपटने के लिए संबंधित एजेंसियों को निर्धारित विभिन्न धूल निवारण उपायों के माध्यम से विभिन्न सी एंड डी गतिविधियों, निर्माण परियोजनाओं और सड़कों, रास्तों/रास्ते के अधिकार और खुले क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाली धूल को कम करने के लिए कार्रवाई तेज करने के लिए कहा गया है।

कुलगाम मुठभेड़ में मारे गए दो आतंकियों में मोस्ट वांटेड बासित डार भी : आईजीपी कश्मीर

श्रीनगर(हि.स.)। कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक वीके बिरधी ने बताया कि कुलगाम जिले के रेडवानी पायीन में मंगलवार को मारे गये दो आतंकवादियों में मोस्ट वांटेड लश्कर-ए-तैयबा समर्थित टीआरएफ कमांडर बासित डार भी है। उस पर एनआईए ने 10 लाख रुपये के इनाम का ऐलान कर रखा था। पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि यह सुरक्षाबलों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बासित डार श्रीनगर में कई आतंकवादी हमलों के पीछे था। रेडवानी के कुलगाम का निवासी बासित तीन साल से अपने घर से लापता था और वह लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) में शामिल हो गया था। एनआईए ने टीआरएफ प्रमुख बासित अहमद डार की गिरफ्तारी के लिए जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी।

लालू यादव की टिप्पणी पर भाजपा का वार, कहा- मुस्लिम आरक्षण का जिन्न चिराग से आया बाहर

नई दिल्ली(हि.स.)। आरक्षण को लेकर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है। भाजपा ने कहा कि चुनाव के वक्त

मुस्लिम आरक्षण का जिन्न चिराग से बाहर आ गया है। मंगलवार को राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस पर मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी ने जो आशंकाएं व्यक्त की थीं, वे अब पूरी तरह सच साबित हो रही हैं। मुस्लिम आरक्षण का जिन्न इंडी गठबंधन के चिराग से बाहर आ गया है, जिसका असर दक्षिण से लेकर गंगा के मैदानी इलाकों तक आसमान में दिख रहा है।

उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव द्वारा दिये गए बयान में गौर करने वाली बात ये है कि जब उनसे मुस्लिम समुदाय के बारे में सबसे गंभीर बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि हां, मुसलमानों को मिलना चाहिए, आरक्षण पूरा का पूरा। इससे साफ हो गया कि वे एससी, एसटी और ओबीसी का हिस्सा छीनकर मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देना चाहते हैं।

उल्लेखनीय है कि मंगलवार को मतदान करने के बाद मीडिया ने लालू प्रसाद यादव से पूछा कि क्या कांग्रेस और इंडी गठबंधन ओबीसी का आरक्षण लेकर मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं तो लालू ने कहा कि रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए। मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए।

चारधाम यात्रा शुरू होने के साथ बारिश का अलर्ट, श्रद्धालुओं को तैयारी के साथ आने की सलाह

मिजाज

दरअसल, 10 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और 11 मई से मौसम का मिजाज बदल जाएगा।

देहरादून (हि.स.)। उत्तराखंड में 11 मई से मौसम बदलने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान है कि 11 से 13 मई तक प्रदेश भर में हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन उच्च हिमालय क्षेत्र में अच्छी बारिश होगी। 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है तो 11 मई से बारिश का सिलसिला पूरे प्रदेश में बढ़ेगा। तापमान में गिरावट होने से ठंड बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में चारधाम यात्रा पर भी इसका असर पड़ेगा। मौसम विभाग के निदेशक डा. बिक्रम सिंह ने बताया कि जो भी यात्री चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं उनको पूरी तैयारी के साथ आना होगा। दरअसल, 10 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और 11 मई से मौसम का मिजाज बदल जाएगा। खासकर उच्च हिमालय क्षेत्र में बारिश होने के अधिक आसार हैं, जिससे तापमान में गिरावट होगी और ठंड भी बढ़ेगी। हालांकि 11 मई से पहले भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। सात से 11 मई तक झोंकेदार हवाएं चलने और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के निदेशक ने बताया कि चारधाम से जुड़े मार्ग पर सुबह के समय बारिश कम होगी। इससे हेली सेवा में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दिन चढ़ने से लेकर शाम ढलने तक मौसम में बदलाव होगा और बारिश भी होगी। ऐसे में चारधाम आने वाले यात्रियों के लिए थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, इसलिए यात्रियों को तैयारी के साथ आने की सलाह दी है।

श्रीलंका और फिलीपींस के डेलीगेशन ने मध्य प्रदेश में देखी मतदान की प्रक्रिया

भोपाल और विदिशा संसदीय क्षेत्र के अनेक मतदान केन्द्रों का किया दौरा

भोपाल (हि.स.)। श्रीलंका और फिलीपींस से आए 11 सदस्यीय डेलीगेशन ने मंगलवार को भोपाल और विदिशा संसदीय क्षेत्र के विभिन्न मतदान केन्द्रों पर मतदान प्रक्रिया देखी। यह प्रतिनिधिमंडल लोकसभा निर्वाचन-2024 की प्रक्रिया को देखने एवं उससे जुड़े विभिन्न चरणों की प्रक्रियाओं को समझने के लिए भारत आया है। यह दल बुधवार तक भोपाल के प्रवास पर है। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य स्तरीय पशु चिकित्सा केन्द्र, मॉडल स्कूल टीटी नगर, आनंद विहार स्कूल, मॉडल आईटीआई गोविंदपुरा, रफीकगंज, धबोटी, जहांगीरपुरा, कांकरखेड़ा, भाउखेड़ी सहित अनेक मतदान केन्द्रों में मतदान की सिलसिलेवार जानकारी ली। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मनोज खत्री एवं अन्य अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दल को मतदान केन्द्रों के भ्रमण के दौरान संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया की चरणवार विस्तृत जानकारी दी।

कुलगाम मुठभेड़ में मारे गए दो आतंकियों में मोस्ट वांटेड बासित डार भी : आईजीपी कश्मीर

श्रीनगर (हि.स.)। कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक वीके बिरधी ने बताया कि कुलगाम जिले के रेडवानी पायीन में मंगलवार को मारे गये दो आतंकवादियों में मोस्ट वांटेड लश्कर-ए-तैयबा समर्थित टीआरएफ कमांडर बासित डार भी है। उस पर एनआईए ने 10 लाख रुपये के इनाम का ऐलान कर रखा था। पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि यह सुरक्षाबलों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बासित डार श्रीनगर में कई आतंकवादी हमलों के पीछे था। रेडवानी के कुलगाम का निवासी बासित तीन साल से अपने घर से लापता था और वह लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) में शामिल हो गया था। एनआईए ने टीआरएफ प्रमुख बासित अहमद डार की गिरफ्तारी के लिए जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी।

नेपाल: संसद के बजट सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक बेनतीजा

काठमांडू (हि.स.)। संसद के बजट सत्र को सुचारु रूप से चलाने को लेकर आज हुई सर्वदलीय बैठक बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। बजट सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, इस पर सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी।

प्रतिनिधि सभा के स्पीकर देवराज घिमिरे ने आज प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित सभी दल के शीर्ष नेताओं की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में आगामी बजट सत्र को लेकर दलों के बीच सहमति जुटाने का आग्रह किया गया था लेकिन विपक्षी दलों ने सत्ता पक्ष के कारण सहमति नहीं हो पाने का आरोप लगाया है। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा ने बताया कि सहकारी घोटाले की जांच को लेकर सरकार और

सत्ता पक्ष के दलों की गम्भीरता नजर नहीं आई। उन्होंने कहा कि हम अपनी मांग पर अभी भी अड़े हैं कि गृहमंत्री रवि लामिछाने के खिलाफ लगे सहकारी घोटाले के आरोप की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराई जाए लेकिन सत्ता पक्ष ने नहीं माना। देउवा ने कहा कि हमारी मांग पूरा नहीं होने तक संसद को नहीं चलने दिया जाएगा।

सत्ता पक्ष की तरफ से बैठक में शामिल नेकपा एमाले और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेताओं ने विपक्षी दल की तरफ से रखी गई मांग पर कोई सुनवाई नहीं होने की प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष तथा गृहमंत्री रवि लामिछाने ने स्पष्ट कहा कि व्यक्तिगत मेरे खिलाफ जांच का वो समर्थन नहीं कर सकते हैं। लामिछाने ने बताया कि समग्र में अगर सरकार सहकारी समस्या की जांच के लिए समिति बनाती है तो उसका समर्थन किया जा सकता है। इसी तरह एमाले पार्टी के प्रमुख सचेतक महेश बतौला ने कहा कि विपक्षी दल की मांग को पूरा करने का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री को लक्षित कर विपक्षी दल का यह अभियान कभी सफल नहीं हो सकता है।

सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच सहमति नहीं हो पाने के कारण संसद का बजट सत्र हंगामेदार होने की उम्मीद है।

तुर्किये ने पीकेके के खिलाफ कार्रवाई करने को इराक में किए हवाई हमले

अंकारा (हि.स.)। तुर्किये ने सोमवार को प्रतिबंधित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पीकेके) को निशाना बनाते हुए उत्तरी इराक में हवाई हमले किए। तुर्किये ने हमले में 16 पीकेके आर्तकियों के मारे जाने का दावा किया है।

पीकेके 1984 से तुर्किये के खिलाफ हथियार उठाकर विद्रोह कर रहा है। जिसे तुर्किये, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपियन यूनियन ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। वहीं तुर्किये के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उत्तरी इराक के हाकुर्क, मेटिना और गारा क्षेत्र में पीकेके आर्तकियों को निष्प्रभावी कर दिया गया है।

गत माह तुर्किये के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने उत्तरी इराक में पीकेके लड़ाकों की मौजूदगी को लेकर इराक के कुर्दिस्तान स्वायत्त क्षेत्र की राजधानी इरबिल और बगदाद में अधिकारियों के साथ बातचीत की थी और प्रतिबंधित समूह के खिलाफ बगदाद का समर्थन मांगा था।

इजराइली सेना रफाह पर कर सकती है हमला, फलस्तीनियों से सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा

यरुशलम (हि. स.)। इजराइली सेना रफाह पर आने वाले समय में संगठित तरीके से बड़ा हमला कर सकती है, इसी के मद्देनजर रफाह में शरण लिए फलस्तीनियों से ठिकाना छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा है। काहिरा में हमास के साथ युद्धविराम के लिए वार्ता विफल होने के बाद इजराइल ने रफाह में जल्द जमीनी सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए हैं। वहीं इजराइल ने रफाह पर सोमवार को हवाई हमले किए। इन हमलों में 20 लोग मारे गए और कई के घायल हुए हैं। हमास ने कहा है कि रफाह पर इजराइल की कार्रवाई का विपरीत असर भविष्य में गाजा में युद्धविराम के लिए होने वाली वार्ता पर पड़ेगा। वैसे हमास फलस्तीनियों की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। गाजा के दक्षिणी शहर रफाह में इस समय लगभग 14 लाख बेघर लोग शरण लिए हुए हैं।

इजराइल का कहना है कि इनके बीच बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके भी छिपे हुए हैं। रविवार को केरेम शेलोम क्रॉसिंग पर रफाह से किए गए रॉकेट हमले से साबित हो गया कि रफाह में हमास लड़ाके मौजूद हैं। इस हमले में चार इजराइली सैनिक मारे गए थे। इजराइल के अनुसार हमास लड़ाकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रफाह से आमजनों को हटाया जाना जरूरी है। लेकिन आमजनों के स्थानांतरण के दौरान ही इजराइली सेना और हमास के बीच टकराव शुरू होने की आशंका है, जिसमें भारी खूनखराबा हो सकता है। मिस्त्र ने इजरायल से गाजा में अत्यधिक संयम बरतने की अपील की है। रफाह में जमीनी कार्रवाई को लेकर अमेरिका और इजरायल में भी गहरे मतभेद हैं। सोमवार को एक बार फिर राष्ट्रपति जो बाइडन ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से टेलीफोन पर बात की। इस वार्ता में बाइडन ने रफाह पर कार्रवाई न करने के लिए कहा है।

बांग्लादेश के विश्वविद्यालयों में फलस्तीन के समर्थन में छात्रों ने किया मार्च

ढाका (हि.स.)। फलस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन अब अमेरिका के विश्वविद्यालयों से होते हुए बांग्लादेश के विश्वविद्यालयों में पहुंच गया है। बांग्लादेश में सत्तारूढ़ पार्टी की छात्र शाखा से जुड़े छात्रों ने इजराइल-हमास युद्ध समाप्त करने और स्वतंत्र फलस्तीन के निर्माण की मांग को लेकर सोमवार को देश भर के विश्वविद्यालयों में मार्च किया। ढाका विश्वविद्यालय के परिसर में बांग्लादेश छात्र लीग के कार्यकर्ताओं ने इजराइल विरोधी नारे लगाते हुए बांग्लादेशी और फलस्तीनी का झंडा लेकर मार्च किया। वे फलस्तीन को मुक्त करो, नरसंहार बंद करो लिखे बैनर लेकर चल रहे थे। छात्र समूह ने कहा कि उसने अमेरिका में विरोध प्रदर्शनों के साथ एकजुटता दिखाने और गाजा में इजरायली सैन्य कार्रवाई के खिलाफ बढ़ते गुस्से के कारण प्रदर्शनों का आयोजन किया। उन्होंने नरसंहार और मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया। इस बीच, अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने विरोध प्रदर्शन को देखते हुए 15 मई को होने वाले विश्वविद्यालय स्तर के मुख्य आयोजन को टाल दिया है। इसकी जगह छोटे-छोटे स्तर पर कार्यक्रम के आयोजन का फैसला लिया गया है। मैनहट्टन में आईवी लीग स्कूल के अधिकारियों ने कहा कि छात्रों से मिले फीडबैक के आधार पर हमने अपने कक्षा दिवसों और स्नातक समारोहों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है।

नेपाल के सहकारी घोटाले में अपने खिलाफ जांच होने पर गृहमंत्री रवि लामिछाने ने दी इस्तीफे की धमकी

काठमांडू (हि.स.)। सहकारी घोटाले में घिरे नेपाल के उपप्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री रवि लामिछाने ने कहा कि अगर उनके खिलाफ संसदीय जांच समिति बनाई गई तो ना सिर्फ वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, बल्कि उनकी पार्टी सरकार से समर्थन वापस ले लेगी।

संसद को सुचारू करने को लेकर आज हुई सर्वदलीय बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए गृहमंत्री लामिछाने ने कहा कि विपक्षी दल उनके खिलाफ घेराबंदी कर रहे हैं। उन्होंने किसी भी सहकारी घोटाले में किसी तरह की संलग्नता नहीं होने का दावा किया। लामिछाने ने कहा कि कांग्रेस अपनी सरकार गिरने से बौखलाई हुई है, इसलिए सरकार और सदन नहीं चलने दे रही है।

रवि लामिछाने ने कहा कि वो जांच समिति से भाग नहीं रहे हैं, बल्कि पूरे देशभर की सभी सहकारी संस्थाओं की जांच होनी चाहिए। सिर्फ उनको टार्गेट करते हुए जांच समिति बनाए जाने पर उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सिर्फ वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि सरकार को दिया गया समर्थन भी वापस ले लिया जाएगा।

रवि लामिछाने की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के पास 21 सांसद है। अगर लामिछाने ने पद से इस्तीफा दे दिया तो प्रचंड की सरकार अल्पमत में आ जाएगी। विपक्षी दलों का मानना है कि गृहमंत्री लामिछाने सरकार के साथ राजनीतिक सौदेबाजी कर रहे हैं।

ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस चैरिटी कोप्पाफील की संस्थापक क्रिस हालेंगा का 38 वर्ष की आयु में निधन

लंदन (हि.स.)। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस चैरिटी कोप्पाफील की संस्थापक क्रिस हालेंगा का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने इंग्लैंड के कॉर्नवाल में अपने घर पर आखिरी सांस ली। हालेंगा ने अपने जीवन के आखिरी समय तक लाखों महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने के लिए प्रोत्साहित किया। दरअसल, ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जागरुकता फैलाने वाली क्रिस हालेंगा को 15 साल पहले टर्मिनल ब्रेस्ट कैंसर का पता चला था। एक साल से ज्यादा समय तक अपने अभिभावकों से दूर रहने के बाद हालेंगा का 23 साल की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर का इलाज हुआ था। क्रिस हालेंगा के मित्र और लेखक फर्ने कॉटन ने उनके निधन पर कहा, जितना मैंने किसी को जीवित देखा है, वह उससे कहीं अधिक जिंदगी जीती थीं। उल्लेखनीय है कि कोप्पाफील मिशन युवतियों को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में शिक्षित करता है। संस्था की जागरुकता की वजह से कई युवतियों को दोबारा अपनी सामान्य जिंदगी जीने में मदद मिली। कोप्पाफील ने सोमवार को हालेंगा की मौत की पुष्टि करते हुए कहा, क्रिस ने जीवन को बेहद रचनात्मक, मजेदार और निडर तरीके से जिया और हमें दिखाया कि कैंसर के साथ भी जीवन को पूरी तरह से जीना संभव है।

बारजा विवाद में चली गोली में एक की हुई मौत, दो घायल

अवधनामा संवाददाता

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को लिया हिरासत में

जौनपुर (सरायख्वाजा) स्थानीय थाना क्षेत्र के कयार गांव में मंगलवार की सुबह छत के बारजा के विवाद में गोली चलने पर एक की मौत हो गई जबकि दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी समेत 4 को हिरासत में ले लिया।प्राप्त जानकारी के अनुसार कयार गांव निवासी एजाज अहमद उर्फ बिफ्फन 62 वर्ष अपने घर का निर्माण करवा रहे थे। घर का बारजा पड़ोसी मोहम्मद अरमान के घर से छू रहा था। इस बात को लेकर एक दिन पहले सोमवार को अरमान व उसके परिजनों ने आकर आपत्ति की तो मौके पर मौजूद एजाज के पुत्र अब्दुल रहीम ने विरोध किया तो उसकी पिटाई कर दी। जब घर से एजाज सहित अन्य सदस्य निकले तो अरमान सहित अन्य लोग अपने घर में भाग गए। इसके बाद घर के अंदर से ईंट-पत्थर चलाने लगे। इसमें एजाज, उसकी पत्नी, पुत्र रहीम घायल हो गया। इसमें एजाज ने अरमान पक्ष पर सरायख्वाजा थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। इस पत्थरबाजी में अरमान के घर के सदस्य याकूब के पैर में भी चोट आई थी।इसी बात को लेकर अरमान व उसके भाई मोहम्मद रहमान मंगलवार की सुबह एजाज के घर पहुंच गए। पहले तो दोनों में लाठी–डंडे से वार हुआ। जब देखा कि घर से अन्य सदस्य आ गये तो इन दोनों ने असलहा निकालकर दो गोलियां चलाई। एक गोली एजाज के पेट में लग गई जबकि दूसरी गोली से उसका पुत्र अब्दुल रहीम 20 वर्ष उसकी पुत्री सादिया 18 वर्ष घायल होकर जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। गोली की आवाज सुनकर गांव में हड़कंप मच गया और घटनास्थल पर गांव के लोग पहुंच गए। इसकी सूचना सराय ख्वाजा पुलिस को दी। सूचना लगते ही कई थाने की फोर्स पुलिस अधीक्षक डा. अजय पाल शर्मा ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल किया। फॉरेंस्टर की टीम ने पहुंचकर जांच के लिए सैंपल लिया। परिजन घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय ले गये जहां उपचार के दौरान एजाज की मौत हो गई जबकि दो अन्य का उपचार चल रहा है। घटना में पुलिस ने एजाज के भाई असलम की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। अभी तक मुख्य आरोपी अरमान, उसके भाई रहमान, मां, बहन को गिरफ्तार कर लिया गया है।इस बाबत पूछे जाने पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि बारजे के विवाद को लेकर मारपीट में गोली चलने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि दो लोग घायल हैं। इसमें मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्य आरोपी अरमान, भाई रहमान, मां, बहन समेत चार लोगों गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया है।

दौलत हुसैन की जीत में अनस और विशेष चमके

प्रयागराज। दौलत हुसैन इंटर कॉलेज ने एंग्लो बंगाली क्रिकेट क्लब को 15 रन से हराकर कर्नल एमआर शेरवानी सीनियर डिवीजन क्रिकेट लीग में पूरे अंक प्राप्त किये। इस जीत में अनस अहमद (63 रन, 79 गेंद, नौ चौके, दो छक्के) एवं विशेष आनंद (25 रन एवं तीन विकेट) की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दौलत हुसैन इंटर कॉलेज ने मंगलवार को अपने मैदान पर 37.4 ओवर में 172 रन (अनस अहमद 63, इज़ाज़ अली 38, विशेष आनंद 25, कृष्ण यादव, श्रेयस सिंह, उदय प्रताप सिंह, आदित्य यादव और सुहेब खान दो-दो विकेट) बनाए। जवाब में एंग्लो बंगाली क्लब की टीम 35.4 ओवर में 157 रन (मोहम्मद अंशी 56, रवींद्र आनंद 21, सिद्धार्थ वर्मा 3/13, विशेष आनंद 3/42, हंसम जायसवाल 2/33) पर सिमट गई। मैच में हितेश श्रीवास्तव और मोहम्मद आरिफ ने अंपायरिंग एवं खुर्शीद अहमद ने स्कोरिंग की।

सावित्री देवी और चौधरी नौनिहाल को मिली जीत

अवधनामा संवाददाता

प्रयागराज। कृष्णा तिवारी के शतक (114 रन, 74 गेंद, 17 चौके, दो छक्के) के दम पर सावित्री देवी क्लब ने भवम क्लब को 33 रन से हराकर रविकांत अंडर-16 समर क्रिकेट लीग में पूरे अंक प्राप्त किये। एक अन्य मैच में चौधरी नौनिहाल सिंह क्लब ने वाईएमसीए को छह विकेट से हराया। सावित्री देवी क्लब ने मंगलवार को अपने मैदान पर 30 ओवर में 9 विकेट पर 255 रन (कृष्णा तिवारी 114, सूरज कुमार 73, सौरभ यादव 20, सक्षम मिश्र 3/54, प्रभाष मिश्र 2/38, सानिध्य श्रीवास्तव 2/42) बनाए। जवाब में भवम क्लब की टीम 28.2 एक ओवर में 222 रन (शिवांश पाण्डेय 93, रोशन कुशवाहा 38, सानिध्य श्रीवास्तव 31, सर्वेश 19, अमन 3/41, सौरभ तिवारी 3/60, संग्राम सिंह 2/20) पर सिमट गई। मैच में नितिन मिश्र व राजीव कुशवाहा ने अंपायरिंग और मोहम्मद सैफ ने स्कोरिंग की। कैपी कॉलेज मैदान पर वाईएमसीए ने 34.1 ओवर में 167 रन (लक्ष्य यादव 61, सचिन मिश्र 4/32) बनाये। जवाब में चौधरी नौनिहाल सिंह क्लब ने 23.5 ओवर में 4 विकेट पर 168 रन (देवप्रयाग 55, आर्यन बनर्जी 49, कौशल 24 नाबाद, देवांश शर्मा 2/25, कार्तिकेय वर्मा 1/24) बना लिए। मैच में राहुल सिंह व अजय कुमार अंपायर एवं आशीष भारतीय स्कोरर रहे।

पर्चा खारिज होने से फूट फूटकर रो पड़ा निर्दल प्रत्याशी

जौनपुर। नामाकंन का समय समाप्त होने के बाद मंगलवार की नामाकंन पर्चो का जांच हुई, जांच में जौनपुर सीट से निर्दल प्रत्याशी अमित कुमार सिंह का पर्चा खारिज हो गया। अपना पर्चा रद्द होने के बाद अमित सिंह कलेक्टेऊट परिसर में फूट फूटकर रो पड़ा।

पर्चा खारिज होने का जिम्मेदार उसने अधिवक्ता और नामाकंन कराने वाले अधिकारियो को ठहराया। जिले के दरियावगंज गांव के निवासी अमित कुमार सिंह पुत्र राजेश सिंह ने जौनपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए नामाकंन के अंतिम दिन यानी छह मई को एक सेट में पर्चा दाखिल किया था। आज नामाकंन पत्रों की जांच में उनके दस्तावेज में जमानत राशि का चलान न होने के कारण पर्चा निरस्त कर दिया। पर्चा खारिज होने के बाद अमित सिंह फूट फूटकर रो पड़े। उन्होने रोते हुए मीडिया को बताया कि मैने नामाकंन भरने के लिए बीते 30 अप्रैल को 25 हजार रूपये जमा किया था उसकी चालान भी मैने वकील को दिया था।

विधायक रागिनी बनीं सपा की स्टार प्रचारक

अवधनामा संवाददाता

नवनियुक्त सपा प्रदेश अध्यक्ष को दी शुभकामना

जौनपुर। मछलीशहर की सपा विधायक डा. रागिनी सोनकर को शीर्ष नेतृत्व की ओर से स्टार प्रचारक बनाए जाने पर जिले के सपाइयों के साथ लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बने नेताओं में काफी उत्साह है। यह पत्र सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रो. राम गोपाल यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास प्रेषित कर अवगत कराया है। जिले के सपाजनों ने कहा कि विधायक रागिनी सोनकर की अपनी मेहनत, जनसम्पर्क के साथ अपनी बातों को जनता के बीच शालीनता और समझदारी के साथ रखने की कला के चलते उन्हें यह जिम्मेदारी मिली है। इस संबंध में विधायक डॉ. रागिनी सोनकर ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रमुख महासचिव प्रो. राम गोपाल यादव के प्रति आभार जताया है।

उन्होंने कहा कि मुझे जो भी जिम्मेदारी मिली है, उसका निर्वहन हमेशा करती रही हूं और कार्यकर्ताओं के उत्साह के बल पर और भी बखूबी तरीके से इसे निभाऊंगी। उन्होंने पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल को शुभकामना देते हुये कहा कि एक स्टार प्रचारक के रूप में मुझे अधिक से अधिक लोगों तक अपने कार्यों और योजनाओं का संदेश पहुंचाने के अतिरिक्त उन्हें समाज के विभिन्न वर्गो और समूहों के साथ संवाद करने का अवसर मिलेगा जिससे समाज के अधिकतर लोगों तक उनके कार्यो का सम्मान और समर्थन पार्टी को मिल सके।

पुलिस लाइन में प्रेक्षक से मिल सकते हैं सम्बन्धित लोगः एडीएम

जौनपुर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अवस्थित 73-जौनपुर एवं 74-मछलीशहर (अ0जा0) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नामित सामान्य एवं पुलिस प्रेक्षकगण का जनपद में आगमन हो चुका है। सामान्य प्रेक्षकगण का अवस्थान स्थल लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस लाइन बाजार एवं पुलिस प्रेक्षक का अवस्थान स्थल पुलिस लाइन है। नामित समस्त प्रेक्षक के नाम व मोबाइल नम्बर का इस प्रकार है–जौनपुर (जनरल प्रेक्षक) सी0बी0 बलात हैं जिनका मो.नं 9235900189 है। प्रेक्षक से प्रातः 9 बजे से 10 बजे के मध्य संपर्क किया जा सकता है। 74-मछलीशहर (अ0जा0) (जनरल प्रेक्षक) के0 लीलावती हैं जिनका मो.नं. 9235928224 है।

नवाचार किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं: प्रो. पुरोहित

नवाचार एवं उद्यमिता विषय पर विशेष व्याख्यान

अवधनामा संवाददाता

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के केंद्रीय ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट प्रकोष्ठ के तत्वावधान में आयोजित विशेष व्याख्यान नवाचार एवं उद्यमिता विषय पर मंगलवार को विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दून विश्वविद्यालय देहरादून के स्कूल आफ मैनेजमेंट के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर एच सी पुरोहित ने कहा कि नवाचार किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं है यह हमारी सोचने की क्षमता एवं सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति है। प्रोफेसर पुरोहित ने कहा कि जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए सकारात्मक सोच के साथ-साथ हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव होना आवश्यक है। कई बार हम आत्ममुग्धता के कारण हम अपनी कमियों को नहीं समझ पाते और प्रत्याशित सफलता नहीं अर्जित कर पाते हैं इसलिए इस प्रकार की भावना से बाहर निकलने की आवश्यकता है और अपनी कमियों को पहचान कर उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए अन्यथा इस प्रकार की भावना नकारात्मकता को बढ़ावा देगी। उन्होंने नवाचार के कई उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि दुनिया के बड़े-बड़े नवाचार को साधारण परिवार के युवाओं ने जन्म दिया क्योंकि नवाचार किसी क्षेत्र विशेष तक नहीं नहीं होता है। प्रो. एच. सी. पुरोहित ने छात्रों से संवाद के दौरान नवाचार को बढ़ावा देने को कहा। उन्होंने आने वाले अग्रिम वर्षो में तकनीकी को लेकर बताया कि ए. आई, ब्लॉक चैन, क्लाउड एवम् डाटा एनालिटिक का दौर आरहा है द्य उन्होंने सेंट्रल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के द्वारा छात्रों के लिए लगातार ट्रेनिंग सेशन वर्कशॉप और प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित किये जाने हेतु सराहना की और कहा कि छात्रों को पूर्वांचल विश्वविद्यालय में मिल रही सुविधा पर खुशी जाहिर की द्य सेंट्रल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के निदेशक प्रो. प्रदीप कुमार ने स्वागत भाषण में कहा की छात्रों को संस्कार युक्त रोजगारपरक शिक्षा देना ही हम सब का उदेश्य है। धन्यवाद ज्ञापन छात्र यत्नदीप दुबे ने किया। कार्यक्रम के दौरान डा. अमरेंद्र सिंह , डा. अशोक कुमार श्रीवास्तव, प्रो अविनाश पाथर्डीकर, श्याम त्रिपाठी व सेंट्रल ट्रेनिग एंड प्लेसमेंट सेल के मुख्य सदस्य विकास यादव, दिव्यांशु संजय, रुद्रांश चतुर्वेदी, हरी ओम साहू, शिवांश श्रीवास्तव, आर्यन पांडे, आयुष गुप्ता, विनीत त्रिपाठी, राजेश कुमार आदि छात्र उपस्थित रहे।

ट्रक से बाइक सवार युवक की हुई दर्दनाक मौत

जौनपुर। नगर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के विशेषरपुर चौराहे के निकट मंगलवार दोपहर ट्रक से कुचलकर बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। विभत्स हादसे में युवक के शरीर का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह कुचलकर क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर पहुंचे शीतला चौकियां चौकी प्रभारी निखिलेश तिवारी ने किसी तरह शव उठाकर कपड़े में लपेटकर जिला अस्पताल भेजवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पचहटियां तिराहे से माल लदा ट्रक तेज गति से शाहगंज हाईवे होते हुए कुत्तूपुर की तरफ़ जा रहा था। क्षेत्र के विशेषरपुर चौराहे के समीप पहुंचते ही ट्रक चालक बाइक सवार युवक को कुचलते हुए निकल गया। उस समय चौराहे पर तेज ध्वनि में डीजे बज रहा था जिसकी वजह से आस–पास लोगों को तत्काल हादसे की जानकारी नहीं हो सकी। ध्वनि कम होते ही सड़क पर क्षतिग्रस्त युवक का शव देख सनसनी मच गई।

बाइक रैली निकाल मतदाताओं को किया गया जागरूक

जनपद के हर ब्लॉक में शिक्षकों ने बाइक रैली निकाल 25 मई को मतदान करने का किया अपील

अवधनामा संवाददाता

बाइक रैली के जरिए दिया गया मतदान करने का संदेश

जौनपुर। लोकसभा निर्वाचन में शत-प्रतिशत लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा लगातार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

इसी कड़ी में मंगलवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ गोरखनाथ पटेल के नेतृत्व में जनपद के सभी ब्लॉकों में बाइक रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से जनपद के मतदाताओं को आगामी 25 मई को मतदान करने के लिए जागरूक व प्रेरित किया गया।

बाइक रैली में बड़ी संख्या में परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षिकाओं, शिक्षामित्र अनुदेशक ने हेलमेट लगाकर मतदाता जागरूकता स्टीकर, पोस्टर बैनर लगाकर चल रहे थे। साथ ही अधिकारी-कर्मचारी भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। रैली के जरिए लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया गया।

इसी के तहत पूर्वांचल विश्वविद्यालय मुख्य गेट से शाहगंज की बाइक रैली को क्रीड़ा अधिकारी डा अतुल सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली भकुरा मोड़, सरायख्वाजा, कोईरीडीहा, लपरी, जपटापुर, गुरैनी, बादशाही, मनेछा, खेतासराय, गौरारी, उसरहटा, इमरानगंज सबरहद, होते हुए बीआरसी शाहगंज तक गई। रैली में शामिल शिक्षक रास्ते भर सारे काम छोड़ दो सबसे पहले वोट दो, वोट करेगा जौनपुर, जौनपुर ने ठाना है मतदान 70 प्रतिशत पार पहुचाना है, आदि नारे लगाते, लोगों को वोट करने के लिए प्रेरित करते चल रहे थे।

इसके पूर्व उपस्थित लोगों को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डा गोरखनाथ पटेल ने कहा कि आपके एक-एक मत से लोकतंत्र सशक्त होगा। लोकसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान के लिए जनपद के सभी 21 ब्लाको में एक साथ बाइक रैली निकाल कर ज़मीनी स्तर पर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने सभी पात्र व्यक्तियों से अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की। क्रीड़ा अधिकारी डा अतुल सिन्हा ने कहा कि कहा कि लोकसभा के लिए 25 मई को मतदान है। इसमें अधिक से अधिक लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान करें, और अन्य मतदाताओं को जागरूकर करने के लिए उन्हें पोलिंग बूथ तक लाने के लिए अपने स्तर से हर सम्भव प्रयास करें।

इस अवसर पर जिला स्वीप कोआर्डिनेटर सैय्यद मोहम्मद मुस्तफा, वीरेंद्र यादव, प्रशांत मिश्र, वीरेंद्र सिंह, ऐमन मिन्टो, अशोक मौर्य, सुजीत सोनकर रुपेश सिंह सहित शिक्षक शिक्षामित्र उपस्थित रहे। तथा सभी ब्लाकों में खण्ड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली गई जिसमें सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी, एस.आर.जी., ए.आर.पी., अध्यापको /अध्यापिकाओ, शिक्षामित्र, अनुदेशक व कर्मचारियों समेत क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे।

रिजवी क्लब को मिली जीत

प्रयागराज। रिजवी क्रिकेट क्लब ने प्रयाग क्रिकेट क्लब को 11 रन से हराकर प्रयाग क्रिकेट क्लब के तत्वावधान में आयोजित आबिद मुर्तजा स्मारक अंडर-19 क्रिकेट प्रतियोगिता में पूर्ण अंक अर्जित किए है। मंगलवार को डीएवी कॉलेज मैदान पर टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए रिजवी क्रिकेट क्लब ने 31.5 ओवर में 140 रन (विवेक कुमार 34, सचिन पाल व प्रीतम कुमार 21-21, आदित्य कुशवाहा 19, शिव नारायण सिंह 15 रन, शास्वत उपाध्याय व सिद्धार्थ सिंह 2 -2 विकेट, अंश सिंह 2/25, अजीत कुमार व अवनीश कुमार 1 -1 विकेट,) पर बनाए। जवाब में प्रयाग क्रिकेट क्लब की पूरी टीम 33.4 ओवर में 129 रन (लवकुश कुमार 52, अंश सिंह 21 रन, शिव नारारण सिंह 3/25, आदित्य प्रजापति 2/21, प्रीतम कुमार 1/19, विभव कुशवाहा 1/24) पर सिमट गई। मैच में तौसीफ शैख व अभिषेक मिश्रा ने अंपायरिंग और प्रितेश सोनकर ने स्कोरिंग की।

प्रयागराज जंक्शन में स्लीपिंग पॉड का लुत्फ उठाएं

इसी महीने शुरू हो रही है स्लीपिंग पॉड की सुविधा

रेल यात्री महंगे होटलों की जगह महज 600 रुपए में ले सकेंगे लक्जरी होटल जैसी सुविधा

अवधनामा संवाददाता

प्रयागराज। प्रयागराज में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के कुंभ नगरी प्रयागराज पहुंचने का अनुमान है। सरकार की तरफ से इनके ठहरने के लिए के लिए नव्य व्यवस्था की जा रही है। पहली बार इनके ठहरने के लिए स्लीपिंग पॉड की भी व्यवस्था की जा रही है जिसे इसी महीने यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। महाकुंभ आने वाले यात्रियों और पर्यटकों में सबसे बड़ी तादाद ट्रेन से आने वाले लोगों की होती है। इनके ठहरने के लिए प्रयागराज जंक्शन में पहली बार स्लीपिंग पॉड भी तैयार किए गए हैं। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज डिविजन में प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन में ये स्लीपिंग पॉड तैयार हो रहे हैं। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जन संपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक जंक्शन रेलवे स्टेशन के सिविल लाइंस साइड में पौने दो करोड़ की लागत से 115 स्लीपिंग पॉड बनकर तैयार हो गए हैं। तैयार हुए इन स्लीपिंग पॉड में 20 लेडीज यात्रियों के लिए 16 कपल के लिए और 04 फैमिली के लिए होंगे। दो मंजिला भवन में इनका निर्माण पीपीपी मॉडल पर दिल्ली की एक कंपनी पीयूष ट्रेडर्स ने किया है जो अब लगभग बनकर तैयार हैं। स्लीपिंग पॉड में अब केवल एसी कनेक्शन का कार्य बाकी है। मई महीने के आखिर तक यह सेवा यात्रियों के लिए खोल दी जायेगी। स्लीपिंग पॉड दरअसल एक कैप्सूल के आकार के चैंबर होंगे जो सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे। रेल यात्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये पॉड तैयार किए गए हैं। पॉड में यात्री के आराम से सोने के साथ ही अपने आवश्यक कार्यों को भी पूरा करने की सभी सुविधाएं होंगी। पूरी तरह वातानुकूलित इस पॉड में चार्जिंग और पेय जल की सुविधा भी होगी । पॉड की सुविधा लेने वाले यात्रियों को क्लॉक रूम, रिसेप्शन बूथ, वाशरूम/ टॉयलेट और हाउस पेंट्री की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इसका किराया 12 घंटे के लिए 500 से 1500 के बीच होगा। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा प्रदान की गई है।

एक ही कमरे में बैठकर पढ़ने को है मजबूर बच्चें

अवधनामा संवाददाता

आजमगढ़। जनपद के शिक्षा क्षेत्र सठियांव अंतर्गत ग्राम सभा चकतगे में प्राइमरी स्कूल की शिक्षा 1 से 5तक के बच्चे एक ही कमरे में बैठकर पठन-पाठन करने के लिए मजबूर हैं। प्राइमरी पाठशाला चकतगे में बच्चों की संख्या लगभग सैकड़ो की तादाद होने के बावजूद सिर्फ मात्र एक ही कमरे में पठन-पाठन का कार्य हो रहा है इतना ही नहीं इस ही कमरे में प्रधानाध्यापक का कार्यालय हो अथवा स्कूल के कागजात रखने की जगह हो इस संदर्भ में प्रधानाध्यापिका ने बताया कि सर्दी गर्मी बरसात के मौसम में मात्र एक कमरे होने के नाते बच्चों के पढ़ने में काफी दिक्कत होती है इस संदर्भ में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी अवगत कराया जा चुका है लेकिन आश्वासन के अलावा अभी तक भवन निर्माण नहीं हो पता वहीं दूसरी तरफ ग्राम प्रधान जितेंद्र राम ने भी जिलाधिकारी से लेकर जिले के तमाम अधिकारियों तक प्रार्थना पत्र देकर विद्यालय के भवन निर्माण के लिए काफी प्रयास किया ताकि विद्यालय का भवन बन जाए और बच्चों का पठन-पाठन सुचारू रूप से चल सके लेकिन अब तक कोई फायदा ना हो सका और नहीं कोई प्रशासनिक इस विद्यालय के बारे में कोई सुद लिया ग्राम प्रधान ने कई बार संघर्ष भी किया।

फास्ट फूड से बढ़ता है अस्थमा अटैक का खतराः डॉ. तोमर

अवधनामा संवाददाता

विश्व अस्थमा दिवस 2024 के अवसर पर बचाव एवं नियंत्रण विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन

प्रयागराज। राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय हिम्मतगंज प्रयाग राज के हकीम अहमद हुसैन उस्मानी सभागार में विश्व अस्थमा दिवस 2024 की थीम ÷अस्थमा शिक्षा सशक्त÷ के अंतर्गत अस्थमा से बचाव एवं नियंत्रण विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। यह सेमिनार विश्व आयुर्वेद मिशन के सहयोग से क्रियान्वित किया गया। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. वसीम अहमद ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन किया।

आयुर्वेदिक प्रणाली से आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सा संकाय के पूर्व डीन प्रोफेसर जीएस तोमर ने कहा कि आयुर्वेद में हजारों साल पहले चरक संहिता में इस बीमारी का जिक्र है, जिसमें इस बीमारी से बचने के उपाय भी विस्तार से बताए गए हैं। उन्होंने रेस्पीकल्प एवं आस्थाकल्प पर अपने चिकित्सीय अनुभव साझा करते हुए इन्हें अस्थमा की चिकित्सा में बहुत लाभकारी बताया । फास्ट फूड से भी अस्थमा अटैक का खतरा बढ़ जाता है। विशिष्ट अतिथि डॉ. शांति चौधरी, वरिष्ठ शोधकर्ता, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह के कार्यक्रम का उद्देश्य इस बीमारी के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करना है ताकि लोग निवारक उपाय अपना सकें। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज के पल्मोनोलॉजिस्ट प्रोफेसर तारिक महमूद ने अस्थमा पर एक बहुमूल्य व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि अस्थमा एक पुरानी बीमारी है और इसके कारकों की रोकथाम के माध्यम से इससे बचा जा सकता है।

होम्योपैथी पद्धति के प्रोफेसर एसएम सिंह, पूर्व निदेशक साईनाथ पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, प्रयाग राज ने अपने संबोधन में इस बीमारी के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए व्यक्ति व्यक्ति एवं लक्षणों अनुसार चिकित्सा होम्योपैथी की विशेषता है। प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक एवं राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, प्रयागराज के त्वचा विज्ञान एवं सौंदर्यशास्त्र विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर बरकतुल्लाह नदवी ने अपने सम्बोधन में कहा कि यूनानी चिकित्सा पद्धति में इस बीमारी का इलाज बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन इसके उपचार चिकित्सा में वर्णित सिद्धांतों के अनुसार ही उपचार करना चाहिए। आमतौर पर डॉक्टर उपचार के सिद्धांतों की अनदेखी करते हैं, जिससे रोग और अधिक गंभीर हो जाता है। कार्यक्रम का आयोजन डॉ. फ़िरदौस अनीस द्वारा किया गया तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रो. नजीब हंजला अम्मार द्वारा प्रस्तुत किया गया। सेमिनार में महाविद्यालय के सभी शिक्षक, छात्र एवं छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गीत के साथ हुआ।

बंटवारे के विवाद में वृद्ध की चाकू मार कर हत्या

आजमगढ़। फूलपुर कोतवाली के खुटौली गांव में भूमि के बंटवारे के विवाद में मंगलवार की सुबह एक वृद्ध की चाकू मार कर हत्या कर दी गई। घटना को मृतक के भाई व भतीजे ने ही अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के खुटौली गांव के लोधी के पूरा निवासी सुरेंद्र व राजेंद्र सगे भाई थे। सुरेंद्र एयरफोर्स में नौकरी करते थे और राजेंद्र घर पर खेतीबाड़ी करते थे। वर्तमान में सेवानिवृत्त होकर सुरेंद्र भी घर आ गए थे।

पूर्वोत्तर रेलवे

खुली ई-निविदा सूचना

NER-LJN-2024-42 and NER-LJN-2024-43

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल रेल प्रबन्धक/इंजीनियरिंग/पूर्वोत्तर रेलवे/लखनऊ द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु आनलाईन 'खुली' ई-निविदायें आमंत्रित की जाती हैं जिसका विवरण नीचे निम्नवत है-

1. ई निविदा संख्या : NER-LJN-2024-42, कार्य का नाम : लखनऊ मंडल-पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ के डीआरएम कार्यालय के बुनियादी ढांचे और सुविधा का विस्तार। अनुमानित लागत (रू) : 18111592.09, अग्रिम धन (रू) : 240600.00, समापन अवधि : 12 माह।

2. ई निविदा संख्या : NER-LJN-2024-43, कार्य का नाम : ऐशबाग में डॉग स्क्वाड बिल्डिंग (केनेल, ओपन यार्ड और बैरक) का सुधार। अनुमानित लागत (रू) : 2423963.58, अग्रिम धन (रू) : 48500.00, समापन अवधि : 3 माह।

1. उपरोक्त ई-निविदा संख्या NER-LJN-2024-42 और NER-LJN-2024-43 तक के लिये ई-निविदा दिनांक 27.05.2024 को 15.00 बजे तक अपलोड की जा सकती है तथा उसी दिन समय 15.00 बजे के बाद ई-निविदा खोली जायेंगी। 2. उपरोक्त ई-निविदा से सम्बन्धित सभी सूचना, निम्नतम अर्हता, नियम एवं शर्तो का पूर्ण विवरण पूर्वोत्तर रेलवे के वेबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। निविदाकार ई-निविदा प्रपत्र को अपलोड करने से पूर्व इस ई-निविदा सूचना से सम्बन्धित वेबसाइट पर उपलब्ध शुद्धि पत्र (यदि, कोई हो तो) को भी संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

मंडल रेल प्रबंधक/इंजीनियरिंग, लखनऊ

मुजाधि/डब्ल्यू - 50

गाड़ियों की छतों व पायदान पर कदापि यात्रा न करें।

मतदान करने के लिए जागरूक थीम सांग हुआ लांच

अवधनामा संवाददाता

आजमगढ़। जनपद लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में दिनांक 25 मई 2024 को अधिक से अधिक लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक करने उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम का थीम सांग लांच किया।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र और अधिक मजबूत हो, इसके लिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक मतदाता निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ें और अपना मतदान करें। उन्होने कहा कि जहां पर मतदान प्रतिशत कम है, वहां के लोगों को जागरूक करते हुए मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाय। उन्होने कहा कि जो लोग जनपद के बाहर जाकर कार्य कर रहे हैं, उनके घर वालों से मिलकर 25 मई के दिन मतदान करने हेतु जनपद में आने के लिए प्रेरित किया जाय। उन्होने डीआईआईएस एवं बीएसए को निर्देश दिया कि स्कूलों में बच्चों के अभिभावकों से लिखित में शपथ पत्र लें कि 25 मई के दिन मतदान अवश्य करेंगे। उन्होने कहा कि अच्छा नेतृत्व व अच्छी सरकार तभी प्राप्त होगा, जब सभी लोग मिलकर इस निर्वाचन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए शत प्रतिशत मतदान करें। उन्होने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया कि मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से बसों में भी स्वीप के थीम सांग को बजाया जाय।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि स्वीप कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 09 मई से 20 मई 2024 तक सायं 5:00 बजे समस्त तहसील मुख्यालय, समस्त ब्लाकों एवं नगर पालिकाध्नगर पंचायत क्षेत्रों में मशाल जुलुस निकाली जायेगी। नगर क्षेत्र के अन्तर्गत शिब्ली कालेज से पहाड़पुर, तकिया, पुरानी कोतवाली, चौक, बड़ादेव होते हुए में मशाल जुलुस निकाली जायेगी, जिसमें कुल 600 लोग प्रतिभाग करेंगें, लगभग 300 छात्रध्छात्रा, 50-50 प्रतिभागी एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, स्काउट्स तथा स्टेडियम से तहसील विकास भवन कलेक्ट्रेट के कर्मचारीगण, महिला संगठन व्यापार मण्डल तथा रोटरी क्लब इत्यादि से लगभग 200 व्यक्ति शामिल होंगे। उन्होने कहा कि मशाल यात्रा के आगे म्यूजिक सिस्टम होगा। लगभग 300 नारे के बोर्ड तथा 100 मशाल जुलुस के मध्य एवं अन्त में ई-रिक्शे पर इलेक्शन थीम सांग बजेगा। उन्होने बताया कि 11 मई को पिंक स्कूटी रैली निकाली जायेगी। यह पिंक स्कूटी रैली हरिऔध कला भवन आजमगढ़ से प्रारम्भ होकर कलेक्ट्रेट, सिविल लाइन, रोडवेज, बवाली मोड़, हरबंशपुर, पहलवान तिराहा, नरौली, हाईडिल चौराहा, सरोज हास्पिटल, लाइफ लाइन हास्पिटल, रैदोपुर, काली चौरा, कोट, हर्रा की चुंगी तिराहा, मुकेरीगंज, पहाड़पुर चौक, बड़ादेव होते हुए नगर पालिका चौराहा पर समाप्त होगी।

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने नए मानक ग्रेड के रूप में इनोवा क्रिस्टा जीएक्स + किया पेश

बरेली। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) ने इनोवा क्रिस्टा लाइनअप में नए ग्रेड, जीएक्स+ की शुरुआत की घोषणा की। इनोवा क्रिस्टा लाइन-अप को

पुनर्जीवित करते हुए, नई पेश की गई इनोवा क्रिस्टा जीएक्स + ग्रेड 14 अतिरिक्त सुविधाओं से भरी हुई है, जो सामंजस्यपूर्ण रूप से कार्यात्मक और सौंदर्य संवर्द्धन का मिश्रण है और ड्राइविंग के समग्र अनुभव को बढ़ाती है।इनोवा क्रिस्टा जीएक्स+ की मुख्य विशेषताओं में रियर कैमरा, ऑटो-फोल्ड मिरर, डीवीआर जैसी कार्यात्मक विशेषताएं शामिल हैं, साथ ही डायमंड-कट अलॉय, वुडन पैनल और प्रीमियम फैब्रिक सीट जैसी सौंदर्य वृद्धि भी शामिल है। 7 और 8-सीटर विकल्पों में पेश किया गया, जीएक्स+ ग्रेड पांच रोमांचक रंगों में उपलब्ध है, जैसे सुपर व्हाइट, एटीट्यूड ब्लैक मीका, अवंत-गार्डे ब्रॉन्ज़ मेटैलिक, प्लैटिनम व्हाइट पर्ल और सिल्वर मेटैलिक, जिनमें से प्रत्येक वाहन के बहुमुखी पैलेट में एक अनूठा स्वभाव जोड़ता है।नई पेशकश पर टिप्पणी करते हुए टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के बिक्री-सेवा-उपयोगी कार व्यवसाय के वाइस प्रेसिडेंट श्री सबरी मनोहर ने कहा, 2005 में अपने लॉन्च के बाद से ही इनोवा ब्रांड ने उद्योग के मानक स्थापित करके इस क्षेत्र में अग्रणी होने की अडिग प्रतिष्ठा अर्जित की है। गुणवत्ता और भरोसे का पर्याय, इनोवा ने भारतीयों की कई पीढ़ियों की विविध गतिशीलता आवश्यकताओं को पूरा किया है और उसी आकांक्षात्मक मूल्य को बनाए रखना जारी रखा है। टीकेएम में हमारा प्रयास हमेशा से ही हमारे ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण के अनुरूप, ग्राहकों के बदलते रुझानों के आधार पर ब्रांड को प्रासंगिक और बहु-कार्यात्मक बनाए रखना रहा है।

नई पेश की गई इनोवा क्रिस्टा जीएक्स+ ग्रेड हमारी मौजूदा इनोवा क्रिस्टा लाइन-अप का पूरक है । नई पेश की गई सुविधाएँ उन्नत सुविधाओं और बहु-कार्यक्षमता के माध्यम से अधिक मूल्य प्रदान करने के मामले में एक छलांग हैं। हमें विश्वास है कि नई पेशकश ग्राहकों के व्यापक दर्शकों को आकर्षित करती रहेगी और इस तरह भारत की सबसे पसंदीदा एमपीवी होने की इनोवा की विरासत।

फिक्की एफएलओ विशेष रुप से समर्थ लोगों की आजीविका के लिए प्रतिबद्ध, मिट्टी कैफेस के साथ साझीदारी का विस्तार किया

नई दिल्ली। 2024-फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) की महिला इकाई फिक्की एफएलओ ने मिट्टी सोशल इनिशिएटिव फाउंडेशन (एसएसआईएफ) के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) का विस्तार कर देशभर में आजीविका को सशक्त करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इस गठबंधन का लक्ष्य विशेष रूप से सक्षम कर्मचारियों द्वारा चलाए जा रहे प्रख्यात मिट्टी कैफेस श्रृंखला को प्रोत्साहित करना है। दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई के टर्मिनल 2 और अमृतसर जैसे प्रमुख स्थानों पर सफल साझीदारी के आधार पर फिक्की एफएलओ और एमएसआईएफ देशभर में अपने प्रभाव का विस्तार करने की तैयारी में हैं। इस नए गठबंधन का उद्देश्य विशेष जरूरतों वाले लोगों के लिए और अधिक अवसरों का सृजन करना और समाज में समावेशिता को बढ़ावा देना है। मिट्टी कैफेस जैसी पहल में सहयोग कर फिक्की एफएलओ का लक्ष्य सशक्तिकरण को नई ऊंचाई पर ले जाना और अनूठी क्षमताओं वाले लोगों के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है जिससे वे कार्यबल में फल फूल सकें। फिक्की एफएलओ की राष्ट्रीय अध्यक्ष जॉयश्री दास वर्मा ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने को लेकर इस संगठन के समर्पण पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों का सशक्तिकरण महज़ एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सही मायने में एक समावेशी समाज के लिए यह आवश्यक है।

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने नए मानक ग्रेड के रूप में इनोवा क्रिस्टा जीएक्स+ पेश किया

बैंगलोर। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) ने आज इनोवा क्रिस्टा लाइनअप में नए ग्रेड,

जीएक्स+ की शुरुआत की घोषणा की। ग्राहक केंद्रितता पर कंपनी के फोकस से प्रेरित होकर, नया ग्रेड उन्नत सुविधाओं का दावा करता है और इस प्रकार ग्राहक की प्राथमिकताओं के अनुरूप उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए टीकेएम की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इनोवा क्रिस्टा लाइन-अप को पुनर्जीवित करते हुए, नई पेश की गई इनोवा क्रिस्टा जीएक्स + ग्रेड 14 अतिरिक्त सुविधाओं से भरी हुई है, जो सामंजस्यपूर्ण रूप से कार्यात्मक और सौंदर्य संवर्द्धन का मिश्रण है और ड्राइविंग के समग्र अनुभव को बढ़ाती है। इनोवा क्रिस्टा जीएक्स+ की मुख्य विशेषताओं में रियर कैमरा, ऑटो-फोल्ड मिरर, डीवीआर जैसी कार्यात्मक विशेषताएं शामिल हैं, साथ ही डायमंड-कट अलॉय, वुडन पैनल और प्रीमियम फैब्रिक सीट जैसी सौंदर्य वृद्धि भी शामिल है। 7 और 8-सीटर विकल्पों में पेश किया गया, जीएक्स+ ग्रेड पांच रोमांचक रंगों में उपलब्ध है, जैसे सुपर व्हाइट, एटीट्यूड ब्लैक मीका, अवंत-गार्डे ब्रॉन्ज़ मेटैलिक, प्लैटिनम व्हाइट पर्ल और सिल्वर मेटैलिक, जिनमें से प्रत्येक वाहन के बहुमुखी पैलेट में एक अनूठा स्वभाव जोड़ता है। नई पेशकश पर टिप्पणी करते हुए टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के बिक्री-सेवा-उपयोगी कार व्यवसाय के वाइस प्रेसिडेंट श्री सबरी मनोहर ने कहा , " 2005 में अपने लॉन्च के बाद से ही इनोवा ब्रांड ने उद्योग के मानक स्थापित करके इस क्षेत्र में अग्रणी होने की अडिग प्रतिष्ठा अर्जित की है। गुणवत्ता और भरोसे का पर्याय, इनोवा ने भारतीयों की कई पीढ़ियों की विविध गतिशीलता आवश्यकताओं को पूरा किया है और उसी आकांक्षात्मक मूल्य को बनाए रखना जारी रखा है। टीकेएम में हमारा प्रयास हमेशा से ही हमारे ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण के अनुरूप, ग्राहकों के बदलते रुझानों के आधार पर ब्रांड को प्रासंगिक और बहु-कार्यात्मक बनाए रखना रहा है। नई पेश की गई इनोवा क्रिस्टा जीएक्स+ ग्रेड हमारी मौजूदा इनोवा क्रिस्टा लाइन-अप का पूरक है । नई पेश की गई सुविधाएँ उन्नत सुविधाओं और बहु-कार्यक्षमता के माध्यम से अधिक मूल्य प्रदान करने के मामले में एक छलांग हैं। हमें विश्वास है कि नई पेशकश ग्राहकों के व्यापक दर्शकों को आकर्षित करती रहेगी और इस तरह भारत की सबसे पसंदीदा एमपीवी होने की इनोवा की विरासत को मजबूत करेगी।

के2 ज़ेनॉक्स मध्य उत्तर प्रदेश में अपनी बाजार उपस्थिति को करेगी मजबूत

लखनऊ। भारत की सबसे युवा और तेज़ी से बढ़ती टीएमटी बार (द इंटेलीजेंट स्टील) विनिर्माता कंपनी के2 ज़ेनॉक्स ने घोषणा की है कि वह मध्य उत्तर प्रदेश में अपनी बाज़ार हिस्सेदारी को और बढ़ाएगी। कंपनी का मानना है की उत्तर प्रदेश में स्टील उत्पादों की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। इस हेतु कंपनी अगले एक साल मे स्टील टीएमटी बार की अपनी उत्पादन क्षमता को 30 प्रतिशत और बढ़ाएगी। योजना के मुताबिक, के2 ज़ेनॉक्स, जिसकी वर्तमान में उत्पादन क्षमता 80 हजार मीट्रिक टन सालाना है, वो बढ़कर 120 हजार मीट्रिक टन सालाना हो जायेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कंपनी के पास 350 से अधिक डीलरों और वितरकों का नेटवर्क पहले से ही मजबूत है। कंपनी मिस्त्री मीट, निर्माण के सूरवीर, बिल्डर्स मीट जैसे प्रोग्राम कर के अपने नेटवर्क का और अधिक विस्तार कर रही है के2 ज़ेनॉक्स के निदेशक श्री सुनील अग्रवाल ने कहा, "KAY2 ज़ेनॉक्स एक प्रीमियम उत्पाद है जिसे आधुनिक निर्माण आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए तैयार किया गया है। इसके उत्पादन ने पहले ही देश भर के कई बाजारों में अपनी महत्वपूर्ण पैठ बना ली है और आगे यह नए बाजारों में विस्तार के लिए अग्रसर है। मध्य उत्तर प्रदेश अभूतपूर्व विकास के अवसरों और तेज गति से बुनियादी ढांचे के विकास के साथ आगे बढ़ रहा है और यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। अपनी विस्तार रणनीति की घोषणा करते हुए और क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली इनपुट सामग्री की बढ़ती मांग को पूरा करते हुए, हमें अत्यधिक खुशी हो रही है।

एआईसीएफ के प्रेसिडेंट नितिन नारंग ने भारत में शतरंज के विकास के लिए 65 करोड़ रुपये का बजट पेश किया

नई दिल्ली। हाल ही में निर्वाचित अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (एआईसीएफ) के प्रेसिडेंट (अध्यक्ष) श्री नितिन नारंग ने आज भारत में शतरंज के खेल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 65 करोड़ रुपये का विशाल बजट पेश किया है।

एआईसीएफ की आज देर शाम आयोजित आम सभा में प्रस्तावित प्रमुख पहलों पर चर्चा की गई। इन पहलों की मदद से पेशेवर और जमीनी स्तर के खिलाड़ियों को वित्तीय और संस्थागत सहायता प्रदान करके भारत में शतरंज के खेल को मजबूती प्रदान करना है। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए एआईसीएफ प्रो और एआईसीएफ पॉपुलर जैसे कार्यक्रमों का शुभारंभ करने की योजना है, जो हर घर शतरंज के नजरिए को साकार करने में सहायक होगा। इस बैठक में एक चेस डेवलपमेंट फंड बनाने, सभी स्तरों पर खिलाड़ियों के साथ अनुबंध और कोचिंग के जरिए वित्तीय सहायता देने, जिला और राज्य संघों को आर्थिक सहायता देने, विशिष्ट स्तर के प्रशिक्षण के लिए एक अत्याधुनिक नेशनल चेस एरेना (एनसीए) की स्थापना जैसे कई प्रस्ताव पास किए गए। इस बैठक में विशेष रूप से भारत के लिए एआईसीएफ रेटिंग सिस्टम को भी मंजूरी दी गई जो एक महत्वपूर्ण कदम है। ये पूरा सिस्टम आने वाले सालों में भारतीय शतरंज के क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देगा। इन अहम फैसलों के बारे में श्री नितिन नारंग ने कहा, ÷खिलाड़ी शतरंज के केंद्रबिंदु हैं और कई लोगों को धन, संस्थागत समर्थन और अवसरों के अभाव के कारण अपने जुनून से समझौता करना पड़ता है।

एआईसीएफ के प्रेसिडेंट नितिन नारंग ने भारत में शतरंज के विकास के लिए 65 करोड़ रुपये का बजट पेश किया

नई दिल्ली। हाल ही में निर्वाचित अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (एआईसीएफ) के प्रेसिडेंट (अध्यक्ष) श्री नितिन नारंग ने आज भारत में शतरंज के खेल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 65 करोड़ रुपये का विशाल बजट पेश किया है।

एआईसीएफ की आज देर शाम आयोजित आम सभा में प्रस्तावित प्रमुख पहलों पर चर्चा की गई। इन पहलों की मदद से पेशेवर और जमीनी स्तर के खिलाड़ियों को वित्तीय और संस्थागत सहायता प्रदान करके भारत में शतरंज के खेल को मजबूती प्रदान करना है। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए एआईसीएफ प्रो और एआईसीएफ पॉपुलर जैसे कार्यक्रमों का शुभारंभ करने की योजना है, जो हर घर शतरंज के नजरिए को साकार करने में सहायक होगा। इस बैठक में एक चेस डेवलपमेंट फंड बनाने, सभी स्तरों पर खिलाड़ियों के साथ अनुबंध और कोचिंग के जरिए वित्तीय सहायता देने, जिला और राज्य संघों को आर्थिक सहायता देने, विशिष्ट स्तर के प्रशिक्षण के लिए एक अत्याधुनिक नेशनल चेस एरेना (एनसीए) की स्थापना जैसे कई प्रस्ताव पास किए गए। इस बैठक में विशेष रूप से भारत के लिए एआईसीएफ रेटिंग सिस्टम को भी मंजूरी दी गई जो एक महत्वपूर्ण कदम है। ये पूरा सिस्टम आने वाले सालों में भारतीय शतरंज के क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देगा। इन अहम फैसलों के बारे में श्री नितिन नारंग ने कहा, ÷खिलाड़ी शतरंज के केंद्रबिंदु हैं और कई लोगों को धन, संस्थागत समर्थन और अवसरों के अभाव के कारण अपने जुनून से समझौता करना पड़ता है। मैं आज 65 करोड़ रुपये के बजट से शुरू की गई इन योजनाओं के जरिए हर खिलाड़ी के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए एक चेस डेवलपमेंट फंड स्थापित कर रहे हैं कि हम जमीनी स्तर के खिलाड़ियों को मजबूत बनाएं और उन्हें उत्कृष्टता के वैश्विक स्तर पर ले जाएं। मेरा मिशन घर-घर शतरंज-हर घर शतरंज के मोटो के साथ शतरंज को हर घर तक पहुंचाना है। हम जिला संघों को सीधे सहायता देने वाले पहले खेल महासंघ हैं। हम 15 लाख रुपये तक की सहायता के साथ तीन साल के लिए राज्य संघों को सपोर्ट करेंगे। इसके साथ ही भारत के लिए खास प्लेयर रैंकिंग सिस्टम की शुरुआत करते हुए एआईसीएफ प्रो के तहत सभी आयु वर्ग में 2 करोड़ के बजट के साथ 42 खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी अनुबंध शुरू करेंगे। टॉप 20 एफआईडीई-रेटेड खिलाड़ियों को 25,00,000 रुपये और 12,50,000 रुपये प्रति वर्ष का अनुबंध मिलेगा, जिसका कुल खर्च 4 करोड़ रुपये होगा। हम चाहते हैं कि युवाओं से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक हर पीढ़ी में हर घर में शतरंज खेला जाए। इसमें महिलाओं को शामिल करने पर फोकस किया जाना चाहिए। मैं भारत को ग्रैंडमास्टर्स के देश के रूप में उभरते हुए देखना चाहता हूं।

टाटा मोटर्स ने अपनी लखनऊ फैक्ट्री से 9,00,000 वें वाहन को रोल-आउट करने का जश्न मनाया

■ यह आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कॉमर्शियल वाहनों का उल्लेखनीय हब है, इसमें पर्यावरण की रक्षा करने वाले परिवहन समाधान भी शामिल हैं

लखनऊ। टाटा मोटर्स, कॉमर्शियल वाहन बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी, ने लखनऊ स्थित अपनी आधुनिक फैक्ट्री से 9,00,000वें वाहन को रोल-आउट करने का जश्न मनाया। टाटा मोटर्स के इस नए वाहन को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर लखनऊ स्थित फैक्ट्री पर टाटा मोटर्स के वरिष्ठ प्रतिनिधि

भी मौजूद थे।

टाटा मोटर्स की लखनऊ स्थित फैक्ट्री 600 एकड़ में फैली हुई है। यह स्थिर निर्माण प्रक्रिया के प्रति टाटा मोटर्स की प्रतिबद्धता का जीता-जागता सबूत है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने इसे वॉटर पॉजिटिव प्लांट के रूप में मान्यता दी है। इस संयंत्र में छह मेगावॉट का सोलर पावर प्लांट लगाया गया, जिससे कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में उल्लेखनीय ढंग से कमी आई है। यह प्लांट अल्ट्रा मॉडर्न व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग स्टेशन को बढ़ावा देता है। यहां रोबोटिक पेंट बूथ और बॉडी इन वाइट शॉप जैसी सुविधाएं है। इसके साथ ही अन्य विशेषताओं के साथ यहां रोबोटिक स्पॉट वेल्डिंग की सुविधा है। 1992 में अपनी शुरुआत के बाद से इस फैक्ट्री से कई यात्री और मालवाहक वाहनों का निर्माण किया है, जिसमें हल्के, मध्यवर्ती, मध्यम और भारी कॉमर्शियल वाहनों के साथ बिजली और फ्यूल सेल से चलने वाली इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं।

टाटा मोटर्स के लखनऊ स्थित संयंत्र से 9,00,000वें वाहन के रोल आउट के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा, ÷मैं इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए टाटा मोटर्स को बधाईयां देता हूं। यह उपलब्धि मौजूदा और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए आधुनिक, सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण के अनुकूल आवागमन के साधनों को प्रदान करने में टाटा मोटर्स की शानदार उपलब्धि को उभारती है। इसके अलावा कंपनी महिलाओं को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी ने इस साल की जाने वाली भर्तियों में 22 फीसदी से ज्यादा महिलाओं को प्रतिनिधित्व देकर महिला सशक्तीकरण की मिसाल पेश की है। यह निर्माण क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने का उल्लेखनीय कदम है।''

इन गर्मियों में खाएं सेहतमंद स्नैक्स और त्वचा को बनाएं स्वस्थ

गर्मियों का असर अक्सर त्वचा के स्वास्थ्य पर पड़ता है ऐसे में इस मौसम में त्वचा की विशेष देखभाल करना ज़रूरी है। डॉ गीतिका मित्तल, त्वचा विशेषज्ञ और कॉस्मेटोलोजिस्ट विशेषज्ञ होने के नाते मैं यही सलाह दूंगी कि त्वचा की बाहरी देखभाल के साथ-साथ इसका भीतर से भी ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए संतुलित आहार का सेवन करें, अगर आप भीतर से स्वस्थ होंगे तो बाहर से भी खूबसूरत महसूस करेंगे। बादाम पोषण से भरपूर मेवा है। इनमें तकरीबन 15 पोषक तत्व जैसे मैग्नीशियम, प्रोटीन, राइबोफ्लेविन, ज़िंक आदि होते हैं। बादाम में सेहतमंद वसा और विटामिन ई (एल्फा-टोकोफेरोल) होते हैं, जो एंटी-एजिंग के गुणों से भरपूर और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इन्हें कई तरीकों से अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। बादाम को रोस्ट करके खाएं, अपनी स्मूदी या ओटमील में मिलाएं, सलाद के साथ खाएं और ऐसे कई ढेरों तरीकें हैं, जिनके द्वारा आप बादाम को अपने रोज़मर्रा के आहार में शामिल कर सकते हैं। अपने आहार में संतरा, अंगूर और स्ट्रॉबैरी शामिल करें। इन्हें और मज़ेदार बनाने के लिए बादाम से गार्निश करें। विटामिन ई और सी एक साथ मिलकर त्वचा को रसायनों एवं यूवी के कारण होने वाली जलन इत्यादि से सुरक्षित रखते हैं।

टीटीके प्रेस्टीज ने दिल को छू लेने वाले कैम्पेन ''सेलीब्रेटिंग 75 सालों का प्यार'' के साथ मनाया प्रेस्टीज प्रेशर कुकर के 75 साल पूरे होने का जश्न

लखनऊ। टीटीके प्रेस्टीज, किचन अप्लायंसेज बनाने वाली प्रमुख कंपनी, ने अपने मशहूर प्रेस्टीज प्रेशर कुकर के 75 साल पूरे होने की महत्वपूर्ण उपलब्धि का जश्न मनाया। कंपनी के इतिहास में इस उल्लेखनीय क्षण को यादगार बनाने के लिये ब्राण्ड ने दिल को छू लेने वाला एक टेलीविजन विज्ञापन लॉन्च किया है। इस विज्ञापन का टाइटल है ''सेलीब्रेटिंग 75 सालों का प्यार''। इस टेलीविजन विज्ञापन के माध्यम से ब्राण्ड भारत के घरों में प्रेस्टीज प्रेशर कुकर की विरासत पर रोशनी डालना चाहता है। यह प्यार, भरोसे और पारिवारिक परंपराओं को जीवित रखने का प्रतीक है।

डीडीबी मुद्रा द्वारा परिकल्पित, यह टेलीविजन विज्ञापन दर्शकों को एक परिवार की भावुक यात्रा पर ले जाता है। परिवार का हर सदस्य अपनी इच्छा और संयोग से यह फैसला करता है कि दादी मां के जन्मदिन पर उनकी पारंपरिक और चहेती बिरयानी बनाई जाए। अब परिवार के सभी सदस्य बताते हैं कि इस खास दिन के लिये उन्होंने क्या बनाया है। तब

साबित हो जाता है कि उन्हें परिवार की सबसे पसंदीदा डिश 'ग्रैण्डमदर्स स्पेशल बिरयानी' से अपनी दादी मां के जन्मदिन को सचमुच खास बनाने की दिली इच्छा रही। और इसके लिये हर किसी ने प्रेस्टीज प्रेशर कुकर के अलग-अलग मॉडल का इस्तेमाल किया। इससे पता चलता है कि रसोईघर के इस उपकरण का महत्व पीढ़ियों से बना हुआ है। यह विज्ञापन खूबसूरती से दिखाता है कि आने वाली पीढ़ियों की पारिवारिक परंपराओं को कायम रखने के लिये प्रेस्टीज कितना महत्वपूर्ण है।

इस विज्ञापन में ब्राण्ड के पाँच अलग-अलग प्रेशर कुकर्स दिखाए गए हैं। इनमें शामिल हैं- फ्लिप ऑन ट्रायप्लाय, ट्रायप्लाय प्रेशर कुकर (ओएल), स्वच्छ हार्ड एनोडाइज्ड प्रेशर कुकर (ओएल), नक्षत्र अल्फा स्वच्छ (आईएल) और नक्षत्र ड्यूओ प्लस स्वच्छ (आईएल)। अपनी दिलचस्प कहानी और भावनाओं की गूंज के साथ, यह विज्ञापन प्रेस्टीज प्रेशर कुकर के 75 वर्षों का भाव संजोता है। यह हर रसोईघर के लिये प्यार, परंपरा और विश्वसनीयता का प्रतीक है।

इस मौके पर बात करते हुए, टीटीके प्रेस्टीज में मार्केटिंग के जनरल मैनेजर श्री अंकुर अग्रवाल ने कहा, 'प्रेशर कुकर्स के 75 साल हमारे लिये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसकी शुरूआत नवाचार और गुणवत्ता को लेकर प्रतिबद्धता की सोच के साथ हुई थी। हमारा सफर अपने प्रेशर कुकर की पेशकश से शुरू हुआ था, जिसने देशभर में गृहिणियों के लिये कुकिंग का तरीका बदल दिया। बीते वर्षों में हमने लगातार कुछ नया करने की सीमाओं को चुनौती दी है और प्रेशर कुकर में क्रांतिकारी खूबियाँ लेकर आये हैं। हमने उद्योग में नये मानक भी स्थापित किये हैं। पीढ़ियों के विकसित होने के साथ-साथ प्रेस्टीज प्रेशर कुकर का भी विकास हुआ है और वह हर घर का जरूरी हिस्सा बन गया है। हमारी ब्राण्ड फिल्म इसी विकास को दिखाती है। हम अपने अभिनव उत्पादों से आधुनिकता लाने और यादें संजोने के लिये प्रतिबद्ध हैं।''

सफोला के साथ अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने का दृढ निश्चय लें और हर रोज स्वस्थ जीवनशैली की तरफ कदम बढ़ायें

■ 'वर्ल्ड हेल्थ डे' समारोह के कुछ ही दिन बाद, सफोला ने पिछले वर्ष के वर्ल्ड हार्ट डे पर दिया हुआ संदेश दोहराते हुए, हर दिन एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के महत्व पर प्रकाश डाला

नई दिल्ली। देश भर के कई पाठक सुबह उठतेही अखबार का पहला पन्ना तेल से सना हुआ देख चौंक गए। सफोला के नए विज्ञापन अभियान ने पाठकों को सुबह-सुबह स्वस्थ जीवनशैली के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता और पुणे के अखबारों के पाठकों को हाल ही में यह अभिनव अनुभव मिला। पिछले साल वर्ल्ड हार्ट डे पर शुरू हुई

बातचीत को आगे बढाते हुए, सफोला ने लोगों को #RozKaHealthyStep लेने के लिये प्रेरित किया ताकी उनका दिल और शरीर दोनो स्वस्थ रह सकें।

इस तथ्य पर जोर देने के लिए कि हमारा स्वास्थ्य एक दिन में बेहतर नहीं हो सकता, सफोला ने जागरूकता पैदा करने के लिए एक विशेष विज्ञापन बनाया। अखबार पे रखे पकोडे और उनसे निकले तेल के दाग की छबी को एक अखबार के पन्ने पर दिखाते हुए यह विज्ञापन #RozKaHealthyStep का संदेश देता है ताकी न केवल वर्ल्ड हेल्थ डे पर स्वास्थ्य के महत्व का गायन करें, बल्कि हर दिन स्वास्थ्य के नियमों का पालन करें।

सड़क किनारे ठेले पर अखबार पर पकोडे खाने का अनुभव कईयोंने लिया होगा। उसी परिचित स्मृति को उजागर करना इस विज्ञापन का उद्देश्य था। यह कल्पना यह संदेश देने का काम करती है कि वर्ल्ड हेल्थ डे और इसी तरह के अवसरों पर स्वस्थ खाने के संकल्प कितनी आसानी से भुला दिए जाते हैं और हम जल्द ही अस्वास्थ्यकर भोजन की आदतों में वापस आ जाते हैं। इसलिए, किसी विशेष दिन या विशेष अवसर पर संकल्प लेने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, हर दिन स्वस्थ आदतें विकसित करने को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। देखा गया कि इस सन्देश का पाठकों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसकी चर्चा भी करी।

इस विज्ञापन के बारे में बोलते हुए मेरिको लिमिटेड की मुख्य विपणन अधिकारी सोमश्री बोस अवस्थी ने कहा, स्वास्थ्य संकल्पों का नियमित पालन काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हमारा लक्ष्य ग्राहकों को हर दिन लगातार स्वस्थ जीवनशैली जीने में मदद करना है। हमने अपना संदेश वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन जारी करने के बजाय बाद में जारी करने का अनूठा तरीका अपनाया, इसके पिछे कुछ कारण है। हम लोगों को याद दिला रहे हैं कि कैसे किसी विशेष दिन पर लिए गए संकल्प तुरंत भुला दिए जाते हैं। अपने मूल्यवान ग्राहकों तक पहुंच कर, हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि वे इस संकल्प से पीछे न हटें, उन्हें याद दिलाते हुए कि उन्हें रोज़ का स्वस्थ कदम चुनना चाहिए, भले ही वे बहुत व्यस्त हों।

मुलेन लिंटास के मुख्य रचनात्मक अधिकारी (सीसीओ) राम जयारमन ने कहा, कभी-कभी, सबसे अच्छा प्रासंगिक / सामयिक विज्ञापन वह होता है जिसे जानबूझकर कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। जैसा की सफोला का मानना है कि अच्छे स्वास्थ्य के निर्माण में समय लगता है, हम जानबूझकर वर्ल्ड हेल्थ डे पर चुप रहे। हमने लोगों को यह याद दिलाने के लिए कुछ दिनों बाद अपना विज्ञापन जारी किया कि वास्तविक जीत निरंतर और सुसंगत कार्यों में निहित है। और आज की डिजिटल दुनिया में, अच्छे पुराने अखबार को कुछ ऐसा करते हुए देखना बेहद विपरीत है जो केवल वही कर सकता है।

केश किंग एंटी-हेयरफॉल शैम्पू ने पलक तिवारी की 'चमक' और शिल्पा शेट्टी की 'दमक' के साथ एक नई जोड़ी को पेश किया है

कोलकाता। केश किंग एंटी-हेयरफॉल शैम्पू ने अपने नए विज्ञापन में युवा जोश से भरपूर और मनोरंजन की दुनिया के उभरते हुए सितारे पलक तिवारी एवं सदाबहार खूबसूरती की मलिका शिल्पा शेट्टी को एक साथ पेश किया है। सन् 2019 से ही शिल्पा शेट्टी ब्राण्ड की पहचान रही हैं और केश किंग आयुर्वेद ऑइल - भारत का नं. 1 हेयरफॉल एक्सपर्ट को एन्डोर्स करते रही हैं। राजू हिरानी फिल्म्स द्वारा तैयार इस नए केश किंग एंटी-हेयरफॉल शैम्पू कमर्शियल में दो अदाकारा बहुत ही रोचक बातचीत करती हुई नज़र आएंगी और ÷उड़ें जब जब जुल्फें तेरी जैसे पुराने ज़माने के गीत ने तो इसे और भी खास बनाया है । यह कमर्शियल मई महीने से प्रसारित किया जाएगा।इस नए कमर्शियल के बारे में कहते हुए श्रीमती प्रीति सुरेका, डाइरेक्टर, ईमामी लिमिटेड ने कहा, केश किंग बालों और स्कैल्प का ख्याल रखने वाला एक ब्राण्ड है और इसका आधार आयुर्वेद है। कई सालों से इस ब्राण्ड ने अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा किया है। शिल्पा शेट्टी इसकी

ब्राण्ड अम्बैसेडर हैं। शिल्पा हमेशा से ही योग के माध्यम से एक स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की सलाह देती आ रही हैं और इसलिए ब्राण्ड के प्राकृतिक समाधान प्रदान करने की प्रतिबद्धता के लिए वह बिल्कुल उपयुक्त हैं। रोज़ाना गिरते बालों से परेशान आज की पीढ़ी को एक बेहतर समाधान प्रदान करने के लिए बहुत ही टैलेंटेड पलक तिवारी को भी हमारे साथ शामिल किया गया है। बॉलीवुड की एक उभरती हुई कलाकार के रूप में पलक तिवारी और शिल्पा की सदाबहार खूबसूरती लोगों में एक नया जोश जगाएगी एवं एकदम नए अंदाज़ में ब्राण्ड की बातों को उन तक पहुँचाएगी ।÷ पलक तिवारी, केश किंग ब्राण्ड के साथ अपना सफर शुरू करने वाली सबसे नई सदस्य ने कहा, ÷भारत की महान आयुर्वेद की परम्परा एक सेहतमंद जीवन के लिए सम्पूर्ण समाधान प्रदान करती है। आज की इस व्यस्त और रफ्तार से भरी जन्दिगी में बालों के गिरने जैसी रोज़ की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हमें चाहिए एक प्राकृतिक उपाय।

नामांकन का पहला दिन : भाजपा प्रत्याशी विजय दुबे ने भरा पर्चा

अवधनामा ब्यूरो

कुशीनगर। निवर्तमान सांसद व भाजपा प्रत्याशी विजय कुमार दुबे ने मंगलवार को लगातार दुसरी बार चुनाव जीतने के लिए कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। श्री दुबे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, राज्यसभा सदस्य आरपीएन सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, पांचों विधानसभा के विधायक, वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा कार्यालय से गगनभेदी नारों के बीच रोड शो करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दो सेट में पर्चा दाखिल किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत भाजपा नेता व कार्यकर्ता पडरौना नगर के उदित नारायण स्नाकोत्तर महाविद्यालय के प्रांगण में इकट्ठा हुए।

- **जनता का मिल रहा है आशीर्वाद, आठ लाख पार : विजय**
- **तीसरी बार बनेगी मोदी सरकार : संजय निषाद**

यहां जनसभा को संबोधित करने के बाद भाजपा प्रत्याशी विजय दुबे कुशीनगर लोकसभा सीट से दुसरी बार चुनाव मे जीत दर्ज करने के उद्देश्य से रवीन्द्र नगर स्थित भाजपा कार्यालय के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां आर्दश आचार संहिता का पालन करते हुए सभी औपचारिकता पुरी कर भाजपा प्रत्याशी श्री दुबे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, राज्यसभा सदस्य आरपीएन सिंह, जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, खड्डा विधायक विवेकानंद पाण्डेय सदर विधायक मनीष जायसवाल सहित अन्य के साथ डीएम कोर्ट में गए और जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा के मौजूदगी मे दो सेट मे अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।

जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल करते भाजपा प्रत्याशी विजय कुमार दुबे

सुरक्षा का रहा पुख्ता इंतजाम

विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास जगह-जगह वैरीकेटिंग कर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम के साथ कलेक्ट्रेट मुख्य गेट पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए थे जहां प्रत्याशियों व समर्थकों के चेकिंग के बाद अन्दर प्रवेश की अनुमति दी जा रही थी। कलेक्ट्रेट परिसर मे दाखिल होने के बाद नामांकन कक्ष में जाने से पहले प्रत्याशी व प्रस्तावकों को सीसीटीवी कैमरा एवं बाहरी सुरक्षा का सामना करना पडा और पुलिस प्रशासन द्वारा सघन चेकिंग आदि की औपचारिकताएं पुरी की गई। इस दौरान अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश पुरी तरह वर्जित रहा।

पहले दिन नौ पर्चे बिके

लोकसभा चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन राम अनुज मिश्रा ने भाजपा उम्मीदवार विजय दुबे के लिए दो सेट, निर्दल प्रत्याशी रामचंद्र सिंह ने एक सेट पर्चा खरीदा। इसी कडी मे निर्दल प्रत्याशी अतुल एक सेट ,सुनील कुमार शुक्ला एक सेट, अमीरुद्दीन एक सेट, मुकेश एक सेट, तथा वेद प्रकाश द्वारा दो सेट नामांकन पत्र लिया गया । इस तरह पहले दिन कुल प्रथम 9 नामांकन पत्र बिके। इसमें भाजपा प्रत्याशी विजय दुबे ने दो सेट मे अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।

जनसभा को किया संबोधित

नामांकन पत्र दाखिल करने से पूर्व उदित नारायण स्नाकोत्तर महाविद्यालय के प्रांगण में आयोजित जनसभा में लोकसभा प्रत्याशी विजय कुमार दुबे ने सभी का हाथ जोड़कर सभी आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि मुझे कुशीनगर की जनता का प्यार और आशीर्वाद पहले भी मिला है और आगे भी मिल रहा है। जनता के उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरने का मेरी प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद मुझे क्षेत्र और समाज की सेवा करने की ऊर्जा और प्रेरणा देता है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा भाजपा सरकार मे सभी जाति-धर्म के लोगो का विकास हुआ है। मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास के तर्ज पर कार्य कर देश का विकास किया है।

आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन करें सुनिश्चित : प्रेक्षक

कुशीनगर। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 65-कुशीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के व्यय चुनाव प्रेक्षक आसवा मनोज राजगोपाल का जनपद कुशीनगर ने निर्वाचन कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। साथ में कलेक्ट्रेट स्थित नामांकन कक्ष एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु लगाई गई बैरिकेडिंग का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में लगाए गए एकल परमिशन विंडो टीम, वीवीटी टीम, एमसीएमसी टीम, डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर, शिकायत टीम का निरीक्षण करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा की विज्ञापन से संबंधी व्यय में जीएसटी भी सम्मिलित किया जाए। सोशल मीडिया की निगरानी हेतु शपथ पत्र में दाखिल प्रत्याशियों के सोशल मीडिया अकाउंट के उपर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए। कहा कि सभी लोग आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

पोस्टर प्रतियोगिता हुई

देवरिया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी देवरिया के द्वारा रेड क्रॉस दिवस के पूर्व विद्यालय के बच्चों के बीच पोस्टर एंड ड्राइंग प्रतियोगिता जिसका थीम डोनेट ब्लड, सेव द लाइफ विषय रखा गया था, का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता का निर्णय करते हुए हिमांशु कुमार सिंह ने पल्लवी चौबे, आर्या बरनवाल, मानवी सिंह, को क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान एवं सांत्वना के लिए अर्पिता यादव, स्वीटी यादव, दिव्यांशी वर्मा, श्वेता चौहान के नाम की घोषणा की. सभी प्रतिभागी को रेड क्रॉस दिवस के दिन पुरुस्कृत किया जायेगा। उपसभा पति अखिलेन्द्र शाही ने बताया कि विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन विकास भवन के गांधी सभागार में प्रात. 10 बजे से आयोजित किया गया है।

आकाशीय बिजली गिरने से ईंट भट्ठा पर काम कर रहे सात मजदूर झुलसे, एक की मौत

अवधनामा संवाददाता

मथौली बाजार, कुशीनगर। कसानगंज थाना क्षेत्र के लोहेपार व मठिया उर्फ अकटहां गांव के सिवान में स्थिति ईंट भठ्ठों पर काम कर रहे सात मजदूर आकाशीय बिजली चपेट में आ गए। गंभीर रूप से घायल मजदूरों को आनन फानन में सीएचसी मथौली ले जाया गया जहां हालत गंभीर देख सातों मजदूरों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया जहां इलाज के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। मंगलवार को सुबह से ही आसमान में बादल छाया हुआ था। दोपहर 12 बजे के बाद गरज चमक के साथ मुशालाधार बारिश होने लगी। इसी बीच मठिया उर्फ अकटहां में स्थित जनता ईंट भट्ठा पर काम कर रहे सागर पुत्र संतोष उम्र 17 वर्ष, रतिराम पुत्र छैब उम्र 36 वर्ष, जमूलाल पुत्र चिनीलाल उम्र 40 वर्ष, अजय पुत्र उमेश उम्र 25 वर्ष निवासीगण छत्तीसगढ़ व पंकज पुत्र राजेंद्र उम्र 20 वर्ष निवासी मठिया उर्फ अकटहां गंभीर रूप से झुलस गए। इसी तरह लोहेपार स्थित सी के आर ईंट भट्ठा पर भी आकाशीय बिजली के चपेट में आने से दीपक पुत्र संजय उम्र 19 वर्ष व संजय पुत्र प्रेम लाल उम्र 30 वर्ष निवासी छत्तीसगढ़ गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों ईंट भट्ठे पर मौजूद लोगों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मथौली भर्ती कराया गया जहां हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। इलाज के दौरान सी के आर ईंट भट्ठा के मजदूर संजय की जिला अस्पताल में मौत हो है। उधर घटना की जानकारी होने पर उप जिलाधिकारी हाटा ने ईंट भट्ठा का जायजा लिया और जिला अस्पताल में पहुंचकर सभी घायलों का हाल जाना।

जिला अस्पताल में घायलों का हाल जानते एसडीएम हाटा

मोदी सरकार ने महिलाओं के संपूर्ण विकास के लिए ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कदम उठाए हैं: संगीता

अवधनामा संवाददाता

सलेमपुर। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा मेनका मैरेज हाल सलेमपुर में महिला मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सलेमपुर की सांसद प्रत्याशी रविन्दर कुशवाहा के समर्थन में महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने आगामी 1 जून को कमल के फूल पर वोट देने की अपील की। कार्यक्रम में लोकसभा क्षेत्र सलेमपुर की महिलाओं ने प्रतिभाग किया। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत ने कहा कि विगत दस वर्षों में देश की महिलाओं के सशक्तिकरण में भाजपा ने अनेक निर्णय लिए, जिसकी गारंटी पीएम नरेंद्र मोदी ने ली और उस गारंटी का परिणाम है आज देश की आधी आबादी भाजपा के साथ है।

उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी की सरकार ने महिलाओं के संपूर्ण विकास के लिए ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। भाजपा ने महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रख उज्जवला योजना की शुरुआत की, 2014 और 2017 से पहले की सरकारों की बदहाल कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया। गुंडों माफियाओं और रोड साइड रोमियो को जेल पहुंचाने का काम किया और भयमुक्त वातावरण का निर्माण किया। नतीजा बहन बेंटियां बिना डरे घर से बाहर निकल रही है। राज्यमंत्री विजयलक्ष्मी गौतम ने कहा कि भाजपा की कल्याणकारी योजनाओं से महिला उद्यमियों को बढ़ावा दिया। गांव की बहनों के लिए योजनाओं के मध्य से सशक्त बनाकर उन्हें लखपति दीदी बनाने का कार्य किया। कांग्रेस पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा कि 60 साल में देश और देशवासियों का विकास किया गया होता तो न गरीबी होती और न गरीब होते। गरीबी हटाओ का नारा देकर कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ अपने परिवार को अमीर और साधन संपन्न बनाया। उन्होंने कहा कि देश की महिलाओं ने एक बार फिर से केंद्र में भाजपा सरकार का गठन करने का जो संकल्प लिया है वह अवश्य पूरा होगा। जिलाध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि देश की माताएं और बहनों का आशीर्वाद भाई नरेन्द्र मोदी के साथ हैं। 2014 व 2019 के लोकसभा चुनाव में मातृ शक्ति ने नरेन्द्र मोदी का साथ दिया था। अब 2024 में मोदी की गारंटी से देशवासियों के जीवन को आर्थिक और सामाजिक समानता का अवसर प्राप्त हुआ है उससे आनंदित होकर जनता 400 पार के नारे को हकीकत में बदलने जा रही है। उन्होंने कहा कि देश को पहला ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने महिलाओं के विषय में सोचा और उन्हें बराबरी को मौका दिया। वर्षों से लंबित पड़ी महिला आरक्षण की मांग को पूरा करने का काम किया। राष्ट्रपति से लेकर पंचायत तक महिलाओं को अवसर उपलब्ध कराए, जिससे मातृ शक्ति आगे बढ़ साज और देश अपना योगदान दे सके।

- **एक जून को कमल के फूल पर वोट देने की अपील की**

दूसरे जनपद में निर्वाचन ड्यूटी में लगे मतदान कार्मिक पोस्टल बैलेट के माध्यम से कर सकते हैं मतदान

अवधनामा संवाददाता

देवरिया। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अखण्ड प्रताप सिंह ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 66-देवरिया के ऐसे मतदान कार्मिक, जो दूसरे जनपदों में निर्वाचन ड्यूटी में लगे है और जिनका नाम 66-देवरिया लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में सम्मिलित है, ऐसे कार्मिकों के लिये पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने हेतु मतदान सुविधा केन्द्र, इंदिरा गांधी बालिका इंटर कॉलेज, टाऊनहाल देवरिया तथा एस.एस.बी.एल. इंटर कॉलेज, देवरिया में स्थापित किया गया है। उक्त मतदान सुविधा केन्द्र पर 20 मई से 25 मई तक पूर्वाह्न 10 बजे से सायं 05 बजे तक पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान संचालित रहेगा।

- **पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने हेतु मतदान सुविधा केन्द्र किया गया है स्थापित**

जनपद के ऐसे पात्र कार्मिक, जिनकी ड्यूटी सप्तम चरण में होने वाले निर्वाचन कार्यों में लगी है एवं जिन्होंने प्रारूप 12 पर आवेदन किया है तथा जो 66-देवरिया लोक सभा सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता है, 20 मई से 25 मई तक निर्धारित समयावधि में किसी भी दिवस में अपने साथ वोटर आई.डी. अथवा कार्यालय द्वारा निर्गत पहचान-पत्र तथा निर्वाचन ड्यूटी पत्र की छायाप्रति सहित मतदान सुविधा केन्द्र पर पहुंचकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मत का प्रयोग करने के सम्बन्ध में अवगत करा सकतें हैं।

मतदाता जागरूकता के लिए हुए विविध कार्यक्रम

अमेठी अवधनामा संवाददाता। लोकसभा चुनाव में मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से नेहरू युवा केंद्र की उपनिदेशक डॉ आराधना राज के निर्देशन में विकासखंड शाहगढ़ में राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक आकाश द्वारा ग्राम सभा बहोरखा में मतदाता जागरूकता शपथ कराई गई। ब्लॉक शुकुल बाजार के ऊंचगांव में पूर्व राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक घनश्याम शुक्ला ने मतदाता जागरूकता रैली निकाल कर अधिक मतदान करने के लिए लोगों को आवाहन किया। ब्लॉक अमेठी में ग्रामसभा अमहा में पूर्व राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक ललित कुमार ने मतदाता जागरूकता के लिए मेहंदी कार्यक्रम आयोजित करके अधिक से अधिक मतदान के नए वोटरों को जागरूक किया। राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक पिंटू शुक्ला ने ब्लॉक सिंहपुर में ग्रामसभा फूला में सशक्त लोकतंत्र बनाने में लोगों को अधिक से अधिक वोटिंग करने के लिए शपथ दिलाई। ब्लॉक बहादुरपुर राष्ट्रीय युवा स्वयंसेविका दीपशिखा ने रैली निकालकर वोटिंग करने के लिए लोगो प्रेरित किया।ब्लॉक भादर में ग्रामसभा सोनारी में राष्ट्रीय युवा सेवा स्वयंसेवक राहुल कुमार एवं नेहा सिंह ने 20 मई को अमेठी में होने वाले मतदान के लिए बुलावा टोली के साथ जाकर घर-घर सभी को शत प्रतिशत मतदान करने के लिए ग्रामीणों को शपथ दिलाई।

नेउरहां में तीन दिवसीय श्रीहरि कथा के लिए निकली भव्य कलश यात्रा

भाटपार रानी, देवरिया अवधनामा संवाददाता। सोमवार को भाटपार रानी तहसील क्षेत्र के रहीमपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत स्थित नेउरहां गांव में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान गोरखपुर के तत्वावधान में तीन दिवसीय श्रीहरि कथा का शुभारंभ हो गया। इस मौके पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में हाथी, घोड़ा, बैंडबाजा आकर्षण के प्रमुख केंद्र रहे। वहीं गांव की बालिकाओं द्वारा श्रीराम, लक्ष्मण, सीता व हनुमान की शानदार झांकी सजाई गई। कलश यात्रा कथा स्थल से शुरू होकर पड़री बाजार, बहेरा टोला, रहीमपुर होते हुए पुनः कथा स्थल पर पहुंची, जहां ट्रैंक में रखे गए पानी को प्रतीकात्मक नदी मानकर जल भरा गया।इस दौरान पण्डित मार्कण्डेय तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चारण किया। बता दें कि कथा स्थल से महज डेढ़ किलोमीटर दूरी पर स्याही नदी स्थित है। लेकिन इन दिनों उस नदी में एक बूंद पानी भी नहीं है।वहीं झरही नदी की दूरी दस किलोमीटर होने के चलते तेज धूप में श्रद्धालु पैदल चलकर जाने की जहमत नहीं उठा सके जिसके कारण कथा स्थल पर ही पानी रखकर जल भरा गया।इस दौरान धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो आदि गगनभेदी नारों से माहौल भक्तिमय हो गया।वहीं शाम को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के आचार्यों स्वामी ब्रह्मेशानन्द जी व कमल स्वामी जी ने कथा का रसपान कराया। उन्होंने कहा कि भगवान के शरण में ही परम सुख है।यह दुनिया तो सिर्फ दिखावा है। अतः हमें सांसारिक मोह माया से बाहर निकलर ईश्वर को भजना चाहिए। यहां मुख्य रुप से कथा के संयोजक प्रदीप मौर्य, सुशील मौर्य,राज बल्लभ सिंह, अरुण सिंह मुन्ना, बृज नारायण सिंह, संजय कुशवाहा, व्यास कुशवाहा, गिरिजेश कुशवाहा, अनिल सिंह, कृष्णा कुशवाहा, विजय सिंह, जयप्रकाश कुशवाहा, राज नारायण सिंह, उमेश कुशवाहा, शम्भू कुशवाहा, लक्की कुशवाहा, मुकेश पासवान, रामेश्वर शर्मा,रविन्द्र कुशवाहा, वशिष्ठ कुशवाहा, गॉधीलाल, पवन, सर्वेश,अंजू, रम्भा, मैना, प्रभावती, माया, बुच्ची, कालिंदी, सत्या, पुष्पा, रंजीता, अलका, निधि, अंजली, मीरा, अनिता, रीता, अमरावती,संध्या, प्रियांशु, अनुराधा, प्रिया सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

गन्ना किसानों की कौन सुने भाई बहन की शादी रुकी, मां की दवाई

शकील अहमद

कुशीनगर (अवधनामा ब्यूरो)। जिले के गन्ना किसानों के दुखों का इलाज न तो योगी सरकार के पास है और न ही मोदी के पास। कसानगंज चीनी मिल किसानों का करोड़ो रुपया दबाकर बंद है। कभी गन्ने से लहलहा रहे खेत अब गन्ना विहीन हैं। सरकार किसानों की आय दोगुना करने का दावा कर रही है और यहां पूंजी ही डूब गई है। पैसे के अभाव में किसी की बहन की शादी तीन साल से नहीं हो रही तो किसी के मां की दवाई बंद हो गई है।

चीनी का कटोरा कहे जाने वाला जनपद आज मिठास से दूर होता जा रहा है। चीनी मिलों द्वारा किसानों का समय से भुगतान न करने की दशा में गन्ने की खेती करने से किसान परहेज कर रहे है। सरकार आती रही, जाती रही लेकिन किसी ने किसानों की सुधि नहीं ली। नेताओं का वादा भी ठंडे बस्ते में है। आज किसानों का ब्याज सहित 77 करोड़ रुपए दबाकर बंद है और सील भी हो चुकी है। इसी तरह जनपद में आधा दर्जन चीनी मिले पडरौना, कठकुईया, लक्ष्मीगंज, रामकोला आदि बंद पड़ी है और नीलामी के कगार पर है। चीनी मिले चलवाने का दावा केवल चुनावी वायदा ही रहा है। बता दें कि वर्ष 1934 में स्थापित दी कनौरिया सुगर मिल का क्षेत्र में कोई जवाब नही था, लेकिन पिछले एक दशक से चीनी मिल की स्थिति डावडोल होने लगी, क्योंकि चीनी मिल का प्रबंधन सही हाथो नही होने से सील हो गई है। इस चीनी मिल पर ब्याज सहित किसानों का 77 करोड़ रुपए बकाया है। बकाए को लेकर शासन स्तर से रिकवरी भी जारी की गई थी कि किसानों का जल्द से जल्द भुगतान हो जायेगा लेकिन मिल प्रबंधन की लापरवाही से अब तक किसानों का भुगतान नही हुआ जिससे किसान अपने बेटे बेटियों की शादी करने में काफी परेशान है। दवा इलाज व रोजमर्रा की चीजों के लिए किसान या तो केसीसी का सहारा लिए है या खेत बंधक रखे है। इन किसानों की परेशानियां दूर होने वाली है है।

कसानगंज चीनी मिल की फोटो

- **कसानगंज चीनी मिल किसानों का करोड़ो रुपया दबाकर बंद**

6 सौ कर्मचारियों व मजदूर भी भुखमरी के कगार पर है। इनकी रोजी रोटी इसी फैक्ट्री पर निर्भर था। वहीं किसानों की गाढ़ी कमाई का करोड़ो रुपया फैक्ट्री के जिम्मे बकाया है।

छः सौ कर्मचारी व मजदूर भुखमरी के कगार पर : 1934 में स्थापित कसानगंज चीनी मिल एक अच्छे केन जोन एरिया की फैक्ट्री मानी जाती थी, जो आज गन्ना मूल्य बकाया को लेकर बंद पड़ी है। जिससे फैक्ट्री में काम करने वाले लगभग 5 से नगर पंचायत मथौली के किसान राजू जायसवाल ने पिछले सत्र में दो ट्राली गन्ना चीनी मिली को दिया था लेकिन अबतक भुगतान नहीं हुआ। इन्होंने बताया कि 50 हजार रुपए बकाया है दो से तीन साल हो गया लेकिन अभी तक भुगतान नही हुआ। घर में मां की तबियत हमेशा खराब रहती है कही से आमदनी न आने के कारण मैं अपना खेत बंधक रख दिया। अब गन्ना बोन से मोह भंग हो रहा है। इसी प्रकार किसान दीनानाथ यादव उर्फ राजू ने बताया कि मैं छः पर्ची गन्ना गिराया था जिसका कुल एक लाख 87 हजार रुपए बकाया है। भुगतान न होने से घर का शादी विवाह कुछ नही हो पा रहा है। सरकार के दावे भी फेल है। कसानगंज चीनी मिला द्वारा भुगतान न करने पर खेत भी बंधक रख दिया हूं। इसी तरह किसान राजकिशोर मद्धेशिया का छः पर्ची का कुल सवा दो लाख रुपए बकाया है। ढाई साल हो गया लेकिन अब तक भुगतान नही हुआ। हम लोग खेती बारी करने वाले है भुगतान न होने से घर का सारा काम रुक गया है, खेत भी बंधक रख दिया हूं लेकिन भुगतान पर सरकार ध्यान नही दे रही है। इसी तरह किसान जब्बार अंसारी, आलिम अंसारी, अल्ताफ अंसारी, जय सिंह, रामसूरत यादव, भोला राव, ठगई सिंह, नैमुल्लाह खान, पारस सिंह, अयूब खान, शिवकुमार सिंह, एकरम सहित तमाम किसानों का गन्ना भुगतान बकाया है।

केसीसी और खेत बंधक रखकर किसान रोजमर्रा की जरूरतें कर रहे पूरा

प्रत्याशियों व उनके प्रतिनिधियों के साथ प्रेक्षकगणों ने की बैठक

अवधनामा संवाददाता

अमेठी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों तथा उनके प्रतिनिधियों के साथ मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नामित सामान्य प्रेक्षक डॉ एन युवराज पुलिस प्रेक्षक दीपक गहलावत व्यय प्रेक्षक संजय कुमार जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी निशा अनंत व पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने बैठक कर प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करने निर्वाचन के दौरान होने वाले व्यय विवरण तथा भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की जानकारी दी और चुनाव को निष्पक्ष पारदर्शी व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सहयोग की अपेक्षा किया। बैठक में सामान्य प्रेक्षक ने चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों को बधाई दी तथा कहा कि अमेठी में मतदान प्रतिशत विगत चुनाव में काफी कम रहा है इस बार चुनाव में सभी लोग अपने-अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें आप लोग सभी लोगों को वोट करने के लिए जरूर कहें।मतदाताओं को पैसा शराब तथा अन्य किसी प्रकार का प्रलोभन देने का प्रयास न करें आदर्श आचार संहिता उल्लंघन संबंधी शिकायतों के लिए सी विजिल ऐप विकसित किया गया है जिस पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन संबंधी शिकायत की जा सकती है जिसका निस्तारण 100 मिनट के अंदर उड़न दस्ता टीम भेज कर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आप लोग भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का गहनता से अध्ययन कर लें तथा उसी के अनुसार अपना चुनाव प्रचार करें कहीं कोई ऐसा कृत्य ना करें जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। बैठक में पुलिस प्रेक्षक ने कहा कि मतदान के दिन मतदान अभिकर्ता को बूथ के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा बूथ के अंदर सिर्फ माकपोल के समय ही प्रवेश दिया जाएगा। बैठक में व्यय प्रेक्षक ने निर्वाचन के दौरान प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले खर्च के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी को स्वयं अथवा अपने एजेंट के साथ संयुक्त खाता खुलवाना होगा चुनाव में होने वाले सभी खर्चों का भुगतान उसी खाते के माध्यम से किया जाएगा।

उच्च प्राथमिक विद्यालय का ताला तोड़कर चोरी

अवधनामा संवाददाता

अहिरौली बाजार, कुशीनगर। थाना क्षेत्र के ग्राम खोखिया में स्थित कंपोजिट विद्यालय का ताला तोड़कर हुई चोरी। प्राप्त सूचना के मुताबिक अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के खोखिया में स्थित कम्पोजिट विद्यालय का बीते सोमवार की रात स्थित अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर विज्ञान लैब, किचन व दो अन्य कमरों का ताला तोड़कर कमरे से स्मार्ट टीवी, यूपीएस, सीपीयू, अमरान बैट्री, चार्जिंग वायर, साउन्ड सिस्टम,एक बड़ा गैस सिलेंडर तथा एक छोटा गैस सिलेंडर चोरी कर फरार हो गए। मंगलवार की सुबह जब प्रधानाध्यापक विद्यालय पर पहुंचे तो देखा विज्ञान लैब किचन और अन्य कमरों का ताला टूटा हुआ है और उसमें से रखा यह सब सामान गायब है। तब इसकी सूचना प्रधानाध्यापक ने खंड शिक्षा अधिकारी मोतीचक को दिया। खंड शिक्षा अधिकारी मोतीचक मौके पर पहुंचे और एक लिखित तहरीर अहिरौली बाजार थानाध्यक्ष देकर कार्रवाई की मांग की है।

चाक-चौबन्ध व्यवस्था के बीच हुआ मतदान

पांचों विधानसभाओं पर सायं 6 बजे तक लगभग 60 प्रतिशत हुआ मतदान

अवधनामा संवाददाता

फिरोजाबाद। फिरोजाबाद लोकसभा सीट की पांचों विधानसभाओं पर जनपद भर में चाक-चौबन्ध व्यवस्था के बीच मतदान तय समय के अनुसार प्रातः 7 बजे से प्रारम्भ होकर सायं 6 बजे तक निर्विवाद चलता रहा। इस बीच न सिर्फपुलिस के ड्रॉन कैमरों से निगरानी होती रही तो वहीं जनपद भर में 66 पिकेट लगाकर लगातार संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की चैकिंग भी की जाती रही। कहीं-कहीं मतदान केन्दओं के बाहर लगी भीड़ को जरूर पुलिस ने दौड़ाया तो कहीं-कहीं से संदिग्ध मतदाताओं को हिरासत में लिया। जिला प्रशासन की मुस्तैदी के चलते चुनाव शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुआ जिसके चलते लगभग 60 प्रतिशत मतदान हुआ। प्रातः के 6 बजे से ही जनपद की पांचों विधानसभाओं के मतदान केन्दओं पर मतदाताओं की कतारें लगना प्रारम्भ हो गयी थीं और मतदान केन्दओं पर तय समय 7 बजे से ही मतदान प्रारम्भ हो गया था। सुरक्षित एवं निष्पक्ष मतदान कराने के लिए जिला एवं पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तरह से कमर कस रखी थी जिसकें चलते 44 क्यूआरटी पुलिस टीम, 22 थाना मोबाइल, 116 क्रिस्टल मोबाइल, 188 सेक्टर पुलिस तथा 15 एफएसटी की टीमों के साथ-साथ प्रेरक्षकों के संग जिलाधिकारी रमेश रंजन एवं एसएसपी सौरभ दीक्षित तथा दर्जनों सेक्टर मजिस्ट्रेट अपनी-अपनी ड्यूटियों को अंजाम देते दिखायी दिए। चाक-चौबन्ध व्यवस्था के बीच प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक के प्रथम चरण में लगभग 13-14 प्रतिशत मतदान हुआ। इसी तरह दोपहर 12 बजे तक भी द्वितीय चरण में 14-15 प्रतिशत मतदान हुआ। इसी तरह मतदान अपनी रफ्तार पकड़ता गया और दोपहर 1 बजे तक 40.5 प्रतिशत मतदान हुआ। इसी बीच कई मतदान केन्दओं पर पुलिस द्वारा मतदाताओं को धमकाने एवं जांच करने के नाम पर दबाव बनाने की शिकायत मिलती रहीं तो वहीं मतदाताओं ने अपना जोश दिखाते हुए 3 बजे तक 47.87 प्रतिशत मतदान कर दिया था। चिलचिलाती धूप, गर्मी की तपिश के बावजूद भी मतदाताओं में मतदान के प्रति जोश कम नहीं हुआ और जैसे ही थोड़ी धूप कम हुयी तो 4 बजे के बाद भी मतदान केन्दओं पर मतदाताओं की लाइनें दिखायी देने लगी थीं। जिसके चलते सायं 5 बजे तक 56.27 प्रतिशत मतदान हो चुका था। इसके उपरान्त भी मतदान केन्दओं पर इक्का-दुक्का मतदाताओं का आना-जाना लगा हुआ था और आखिर सायं 6 बजे तक मतदान चलता रहा तथा चुनाव सम्पन्न होते-होते कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना सामने नहीं आयी और लगभग 60 प्रतिशत मतदान सकुशल सम्पन्न हुआ।

नवीन मंडी परिसर में होने वाली मतगणना का व्यापारी कर रहे हैं विरोध

सुल्तानपुर। चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हमेशा नवीन कृषि उत्पादन मंडी में ही चुनाव डयूटी अधिकारियों के ठहरने व ईबीएम मशीन को सुरक्षित रखने के स्थानों सहित मतगणना स्थल बनाया जाता रहा है। राजनीतिक चुनाव में हमेशा से मंडी में व्यापार करने वाले फल एवं हरी सब्जी के व्यापारियों को मंडी से बाहर कर दिया जाता है। ऐसे में उनके सामानों की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं रहती है। लखनऊ बनारस चालू रोड है व्यापारी, किसान व पल्लेदार के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। इसके विरोध में कल दिन बुधवार को मंडी के सैकड़ो व्यापारी तकरीबन 10:00 बजे मन्डी में चुनाव प्रचार करने भाजपा सांसद व लोकसभा प्रत्याशी मेनका संजय गांधी के पहुंचने पर उनके समक्ष अपनी बात रखेंगे।

जाति नहीं विकास की राजनीति से होगा लोगों का भलाः सांसद मेनका

पीएम मोदी ने देश का पूरी दुनिया में बढ़ाया सम्मानः सांसद मेनका

अवधनामा संवाददाता

सुलतानपुर। चुनावी कैंपेन के 32 वें दिन सांसद मेनका संजय गांधी ने भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ आरए वर्मा व विधायक राज प्रसाद उपाध्याय के साथ सदर जयसिंहपुर विधानसभा में एक दर्जन से अधिक नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। सांसद मेनका ने कहा जाति बिरादरी कौम की नहीं विकास की राजनीति से होगा लोगों का भला।सुल्तानपुर हमारा परिवार है।सब हमारे हैं। हमने कभी भी भेदभाव नहीं किया है। मेरा दरवाजा सबके लिए खुला है। उन्होंने कहा मैं दो दफा पीलीभीत से 1996 एवं 1998 में देश में सबसे बड़ी जीत जीते थे।यहां भी हमारे पास मौका है।हम सब एक होकर देश में सबसे बड़ी जीत प्राप्त करने की मिसाल कायम कर सकते हैं।तब प्रधानमंत्री के 400 फूलों के गुलदस्तों में एक फूल मेरा भी अलग दिखेगा।उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने बिना भेदभाव हर गरीब तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया हैं पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाया है।उन्होंने कहा इलेक्शन बाद मैं एक लाख गरीबों को मकान देने का वादा करती हूं। श्रीमती गांधी ने कहा मैं रोज के रोज ऐसी मुसीबतों को निपटाती हूं जिससे लोगों की खुशियां चली जाती हैं। मिशाल के रूप में उन्होंने बताया कि शनिवार को एक विधवा महिला आई। उसने बताया की 10 साल से उसकी पेंशन नहीं मिली है।मैंने जिम्मेदारों से बात की और उसी दिन 4ः00 बजे तक पेंशन सही होकर पैसा उसके खाते में पहुंच गया।4ः15 बजे उसने अपने खाते से पैसा भी निकाल लिया। हम इसी तरह काम करते हैं।मैं काम को लटकाने में नहीं निपटाने में विश्वास करती हूं। श्रीमती गांधी ने बताया रामपुर हनुमानगंज के पास का जो मुस्लिम युवक मलेशिया में फंस गया था। मैंने 8 दिन पहले विदेश मंत्रालय बात कर उसके वापसी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा था।

पुलिस व प्रशासन ने मतदाताओं को जमकर डराया-धमकाया

कहीं पहचान के नाम पर, तो कहीं आधार कार्ड के नाम पर

अवधनामा संवाददाता

फिरोजाबाद। फिरोजाबाद लोकसभा सीट की पांचों विधानसभाओं में प्रातः 7 बजे से चुनाव प्रारम्भ हो गया था। जहां एक बीएलओ को फर्जी मतदान कराते हुए हिरासत में लिया तो वहीं दर्जनों भर मतदाताओं को जगह-जगह से फर्जी मतदाता बनने के आरोप में हिरासत में लिया गया तो वहीं फिरोजाबाद विधानसभा के क्षेत्र के अन्तर्गत कई मतदान केन्द्रों पर पुलिस व प्रशासन मतदाताओं को जमकर डराते-धमकाते देखा गया। इतना ही नहीं उपनामों को लेकर भी प्रशासन ने मतदाताओं के बीच काफी भ्रान्तियां उत्पन्न कीं जिसके कारण मतदाता वोटर होते हुए भी अपना वोट नहीं डाल सके। प्रायः देखा गया कि जो मतदाता अपने आधार कार्ड को लेकर आ रहे थे तो उनकी वोटर पर्ची एवं आधार कार्ड में उपनामों को लेकर फर्क दिखायी दिया तो पुलिस ने उन्हें मतदान से वंचित कर दिया जबकि वह उनके पिता के नाम एव पते एक समान थे। कहीं-कहीं तो मतदान केन्द्रों पर तैनात प्रशासनिक अधिकारियों ने आधार कार्ड को फर्जी बताते हुए मतदान केन्दऊसे भगा दिया इतना ही नहीं एक-दो जगह से तो महिला मतदाता को हिरासत में भी ले लिया गया। क्षेत्रीय लोगों के हस्तक्षेप करने के पश्चात उन्हें छोड़ा गया लेकिन पुलिस व प्रशासन के इस रवैये के चलते भी मतदान प्रतिशत में कमी आयी।

जीत होती है जब ठान लिया जाता हैः डॉ. रीमा शुक्ला

छात्राएं ही हमारे समाज और परिवार की रीढ़ः प्राचार्या प्रो. प्रिया मुखर्जी

महिला महाविद्यालय में पंच दिवसीय रेंजर्स प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन

अवधनामा संवाददाता

बहराइच। जनपद में शहर के प्रतिष्ठित महिला महाविद्यालय में भारत स्काउट गाइड संस्था उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में प्राचार्या डा. प्रिया मुखर्जी के निर्देशन एवं रेंजर्स प्रभारी डॉ. रीमा शुक्ला के संयोजन में पंच दिवसीय रेंजर्स प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ रेंजर्स प्रभारी डा.रीमा शुक्ला द्वारा स्काउट ध्वजारोहण के साथ हुआ। पंच दिवसीय प्रशिक्षण में प्रशिक्षक कल्लन इदरीसी द्वारा रेंजर्स स्काउटिंग के इतिहास, उद्देश्य, प्रार्थना एवं झंडा गीत सहित अन्य के विषयो में को विस्तार से समझाया। प्रशिक्षक द्वारा रेंजर्स को विभिन्न प्रकार की स्काउट गांठ बांधने तथा स्काउट गाइड में प्रयोग की जाने वाली तालियो का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम समापन के अवसर पर रेंजर्स की टोलियो ने प्रभारी डॉ. रीमा शुक्ला तथा प्रशिक्षक कल्लन इदरीसी के निर्देशन में महाविद्यालय प्रांगण में टेंट शिविर भी लगाया गया। इस दौरान छात्राओ ने रंगोली बनाई,सीमित संसाधनों का प्रयोग कर भोजन तैयार किया एवं छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम गीत ,नृत्य ने माहौल को खुशनुमा बना डाला। इस अवसर पर प्रभारी डॉक्टर रीमा शुक्ला ने छात्राओं को रेंजर्स प्रशिक्षण के महत्व को समझाते हुए कहा कि हार होती है जब मान लिया जाता है,जीत होती है जब ठान लिया जाता है। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण हमें श्रम के साथ-साथ सामूहिकता, मानवता का प्रशिक्षण भी देता है जो न सिर्फ हमारे जीवन के लिए बल्कि समाज तथा देश के विकास के लिए भी सहायक है। उन्होंने आगे कहा रेंजर्स का यह प्रशिक्षण हमें धैर्य और सहनशीलता भी सिखाता है कि किस तरह हम विपरीत परिस्थितियों में अपना धैर्य न खोते हुए हर संकट का सामना कर सके। शिक्षकों ने रेंजर्स द्वारा बनाया भोजन ग्रहण किया तथा उन्हें शुभकामनाएं दी। शिविर में रेंजर्स का दीक्षा समारोह भी संपन्न हुआ। प्राचार्या प्रोफेसर प्रिया मुखर्जी ने छात्राओं तथा प्रभारी डॉ. रीमा शुक्ला को सफल कार्यक्रम के लिए बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छात्राएं ही हमारे समाज और परिवार की रीढ़ है, आपको स्वयं मजबूत बनना होगा तथा परिवार,समाज के प्रति दायित्व का निर्वहन करना होगा। इसके साथ-साथ अपने अधिकारों के लिए भी जागरूक रहना होगा। कार्यक्रम के अंत मे फ्लैग डाउन तथा राष्ट्रगान के साथ रेंजर्स प्रशिक्षण शिविर का समापन किया गया।

संक्षिप्त समाचार

विश्व अस्थमा दिवस पर मेडिकल कॉलेज के छात्रों द्वारा प्रस्तुत किया गया नुक्कड़ नाटक

बहराइच। जनपद के महाराजा सुहेलदेव चिकित्सा महाविद्यालय एवं महर्षि बालक चिकित्सालय में डॉ (प्रो) संजय खत्री प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में विश्व अस्थमा दिवस पर आज बीएससी नर्सिंग के विद्यार्थियों द्वारा चिकित्सालय में नुक्कड़ नाटक और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें नाटक कर लोगो को जागरूक करने का प्रयास किया गया।इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मेडिकल कॉलेज एव नर्सिंग कॉलेज के प्रधानाचार्या एस्मिथा फिलिप एवं नर्सिंग कॉलेज के फैकल्टी तथा चिकित्सालय मैनेजर रिजवान आदि उपस्थित रहे।

मतदान के दिन बाजार में पसरा सन्नाटा

शिकोहाबाद। लोकसभा चुनाव के तृतीय चरण का मतदान मंगलवार को सुबह सात बजे से प्रारंभ हो गया। मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित होने के कारण पूरे बाजार में दो-चार दुकान ही खुली मिलीं। शेष दुकान और प्रतिष्ठान बंद रहे। जिसके कारण बाजार में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा। यह दोपहर 12 बजे के बाद और भी ज्यादा दिखाई दिया। दोपहर के बाद धूप और गर्मी के कारण लोग घरों में ही रहे। साम तीन बजे के बाद ही कुछ चहल कदमी दिखाई दी। वह मतदाता ही वूथ पर पहुंचे जो अपने वाहनों से जा रहे थे, अन्यथा दोपहर में भी मतदान ठप सा पड़ गया। कटरा बाजार और बड़ा बाजार में एक भी दुकान नहीं खुली। स्टेशन रोड पर भी एके कॉलेज के पास दो चार ठेल वाले सब्जी बेंचते दिखाई दिये। कोई दुकान नहीं खुली थी। नगर पालिका से बड़ा बाजार तक भी कोई दुकान नहीं खुली। जिससे पूरे बाजार में लोगों को चाय, पान और बीड़ी सिगरेट पीने के लिए भी इधर-उधर भटकना पड़ा।

मतदाताओं को जागरूक करेंगे स्वास्थ्य नायक

ललितपुर। एसडीएम/प्रभारी ईओ की अध्यक्षता में पालिका सभागार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को दृष्टिगत रखते हुये मतदान दिवस 20 मई 2024 को शत-प्रतिशत मतदान किये जाने हेतु नगर पालिका के सभी 26 स्वास्थ्य नायकों के साथ बैठक आहूत की गयी। बैठक में वार्डवार प्रत्येक मतदाता सूची के अनुसार मतदाताओं से सम्पर्क कर मतदान हेतु प्रोत्साहित करने एवं मतदाताओं को मतदान का प्रतिशत बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में जागरूक करने के निर्देश दिये गये। इस दौरान सिटी मैनेजर त्रिपाठी (डूडा) राकेश त्रिपाठी, कर निर्धारण अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद, कार्यालय अधीक्षक रमाकान्त तिवारी, वरिष्ठ लिपिक रामसेवक बाल्मीकि, कु.सीमा कुशवाहा राजस्व निरीक्षक, बृजेश, रामू, विनीत (बाबा), जितेन्द्र, प्रदीप, प्रियंक, कपिल कुमार, संतोष कुमार, नवीन, विक्रम, अमरदीप, जागेश, अखिलेश, रजनीश, सनी, अमित, राजकुमार, लक्ष्मन, अजय कुमार, धीरेन्द्र कुमार, यशपाल, कुजबिहारी, महेन्द्र, अशोक कुमार सहित पालिका के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

रय्यान मुजम्मिल ने हासिल किये 92 प्रतिशत अंक

ललितपुर। संत डोमनिक सेविियो इंग्लिश मीडियम स्कूल व एसडीएस के दसवीं के विद्यार्थी रय्यान मुजम्मिल ने 92 प्रतिशत अंक प्राप्त कर जनपद का नाम रौशन किया है। उन्होंने कम्प्यूटर में 98 अंक, हिन्दी में 99, गणित में 89, अंग्रेजी में 87, एच.सी.जी. में 85 अंक हासिल कर उपलब्धि प्राप्त की है। वहीं इंग्लिश मीडियम एसडीएस के ही 10 वीं के छात्र प्रियांश श्रीवास्तव को 92.5 प्रतिशत मिले। उन्होंने हिन्दी में 98 अंक, कम्प्यूटर में 97, साइंस में 91, अंग्रेजी में 89,और एचसीजी में 89, अंक प्राप्त कर सफलता हासिल की। दोनों मेधावी छात्रों की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर उनके शुभचिंतकों, परिजनों ने हर्ष व्यक्त किया है।

फिरोजाबाद में कमल पर भारी पड़ती दिखायी दी साईकिल

हाथी मदमस्त तो क्या, किसी भी चाल में दिखायी नहीं दिया

अवधनामा संवाददाता

फिरोजाबाद। फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर जैसा कि मतदान प्रचार समाप्ति के दिन ही दिखायी देने लगा था कि फिरोजाबाद की पांचों विधानसभाओं में सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी व भाजपा के बीच रह गयी है। जबकि फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर 7 प्रत्याशी मैदान में थे। जैसे ही मतदान सुबह 7 बजे से अपनी रफ्तार पकड़ता गया वैसे ही वैसे यह स्पष्ट होने लगा कि मतदाताओं के बीच सिर्फ 2 ही नाम साईकिल व कमल सुनायी व दिखायी दे रहे थे। हाथी का दूर-दूर तक कोई पता नहीं था। देखा जाए तो पहली बार बसपा के मतदान केन्दओं के बाहर लगे बस्तों पर भी मतदाताओं की भीड़ दिखायी नहीं दी। अगर भीड़ से ही आंकलन लगाया जाए तो प्रातः से लेकर देर सायं तक साईकिल कमल पर भारी पड़ती दिखायी दे रही थी। फिरोजाबाद लोकसभा सीट की पांचों विधानसभाओं टूण्डला, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, जसराना, सिरसागंज में प्रातः से लगी मतदाताओं की कतारें इस ओर तो इशारा कर रही थीं कि मतदान के प्रति मतदाताओं में काफी जोश है। तो वहीं कतारें इस बात का भी संदेश दे रही थीं कि भाजपा के प्रति कम और साईकिल के प्रति मतदाताओं का झुकाव काफी दिखायी दे रहा था। वहीं कहीं-कहीं मदमस्त चाल चलने वाला हाथी किसी भी रूप में चलता दिखायी नहीं दिया। मतदाता केन्द्रों के बाहर लगी भीड़ इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि बसपा का वोटर पहले तो पूर्व की तरह निकला ही नहीं है और जितना निकला भी है तो उसमें से भी सपा के पक्ष में मतदान किया है। जबकि वैश्य समाज का गढ़ समझी जाने वाली फिरोजाबाद विधानसभा में भी भाजपा के वोटरों में पूर्व की तरह मतदान के प्रति जोश दिखायी नहीं दिया। वहीं यादव बाहुल्य समझी जाने वाली तीनों विधानसभा शिकोहाबाद, जसराना, सिरसागंज में मतदान के प्रति मतदाताओं में जोश भी दिखायी दिया और साईकिल के प्रति झुकाव ज्यादा दिखायी दिया। वहीं टूण्डला विधानसभा में भी जिन-जिन क्षेत्रों में कभी हाथीं चिंघाड़ता नज़र आता था वहां भी लोग साईकिल पर सवारी करते दिखायी दिए। अगर हम फिरोजाबाद विधानसभा की बात करें तो भाजपा के प्रचार-प्रसार में नामांकन के बाद से ही भाजपा प्रत्याशी के प्रति भाजपा संगठन की उदासीनता निरन्तर देखी गयी। जो मतदान के दौरान भी दिखायी दी। वहीं अन्य 4 विधिमान्य प्रत्याशी न तो स्वयं नज़र आए और न ही उनके प्रति मतदान करते हुए मतदाता नज़र आए। उपरोक्त सभी क्यास बाहरी प्रदर्शन से ही दिखायी दिए लेकिन 4 जून को ही मतगणतना के दिन यह पता चलेगा कि सातों प्रत्याशियों में से किसको कितने मत मिले और किसके सिर बंधेगा जीत का सहरा ?

प्रसव के नाम पर अवैध वसूली का खेल उजागर

ललितपुर। जिला महिला अस्पताल में भ्रष्टाचार कितनी जड़ें जमा चुका है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहां आने वाली प्रसूताओं के परिजनों से प्रसव के नाम पर बेखौफ होकर सुविधा शुल्क की मांग की जाती है। ऐसे ही एक मामले में डीएम के आदेश पर महिला अस्पताल में की गयी दो सदस्यीय टीम की जांच के दौरान यह बात भी स्पष्ट हो चली है कि यहां तैनात चिकित्सकों द्वारा प्रसव के नाम पर पांच हजार या उससे अधिक रुपयों की अवैध वसूली का गोरखधंधा किया जा रहा है। इतना ही नहीं प्रसूताओं व उनके परिजनों से अभद्र व्यवहार भी किया जाने के आरोप उजागर हुये हैं। अब यह भी तय माना जा रहा है कि प्रशासन की ओर से कार्यवाहियां की जा सकती हैं।

महिला जैन मिलन ने निकाली जागरूकता रैली

ललितपुर, अवधनामा संवाददाता। भारतीय जैन मिलन महिला मुख्य शाखा द्वारा षहर में मतदाताओं को रैली निकालकर मतदान के लिए जागरूक कर मतदान का महत्व समझाया। मुख्य षाखा की पदाधिकारी सुषमा जैन खजुरिया मंत्री निधि अलया,षैलजा मुडरा, डिम्पल जैन, रष्मि जैन ममता जैन अलका जैन गदयाना संगीता जैन अलका चौधरी स्वाति वडकुल, अनीता जैन सहारा, अर्चना खजुरिया, कामनी जैन संगीता वछरौनी मंजू जैन वर्षा जैन जैनिथ संध्या मोदी कीर्ति जैन संगीता बुखारिया जयंती जैन अनीता खजुरिया ने मतदाताओं को बताया कि हमारे मत से अच्छी सरकार चुनी जाती है जो राज्य देष का विकास करती है और सभी की सुरक्षा करती है। कार्यक्रम के उपरान्त मूक पषुओं को भीषण गर्मी के मौसम में पानी की व्यवस्था हेतु पानी की टंकियां वाहुवलिनगर, वर्णी कालेज चौराहा, वाहुवलिनगर इलाइट चौराहा पर रखाई जिसमें जैन मिलन की वीरांगनाओं ने वढचढकर हिस्सा लिया।

छात्राओं ने जनपद का मान बढ़ाया

ललितपुर, अवधनामा संवाददाता। शिक्षक अनिल जैन व शिक्षिका सीमा जैन की पुत्रियों व पत्रकार शैलेष जैन पिन्टू की भांजियों ने जिले का नाम रौशन किया है। दरअसल, सिद्धि जैन, रिद्धि जैन को जनपद ललितपुर आईएससी बोर्ड 12 वीं में सिद्धि जैन को 94.25 प्रतिशत एवं रिद्धि जैन को 90 प्रतिशत प्राप्त करने पर मॉडर्न पब्लिक स्कूल की छात्रा को श्रीगजराज गंगवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासभा द्वारा बेटियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान उनके घर पर बधाईयां देने वालों का ताता लग गया। दोनों छात्राओं ने अपने भविष्य के बारे में बताया कि वह नीट की परीक्षा क्रॉस कर डॉक्टर बनना चाहती हैं। सभी ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली स्वराज जैन, दिगम्बर जैन पंचायत से डा.अक्षय टडया, आकाश जैन, कोषाध्यक्ष सौरभ जैन सी.ए., संजीव जैन, सनत जैन, पंकज जैन पूर्व पार्षद, शीलचंद जैन, राजेंद्र जैन, अनंत सराफ, वैभव जैन, राहुल जैन नवभारत, पंकज पार्षद, अजय जैन, शैलेष जैन पिन्टू, अभय जैन, अंकित जैन मोनू आदि उपस्थित रहे।

दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा

ललितपुर। थाना गिरार पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता उस समय मिली, जब दुष्कर्म के मामलें में वांछित अभियुक्त पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बताया गया है कि पुलिस अधीक्षक मो.मुश्ताक के आदेश व एएसपी अनिल कुमार और क्षेत्राधिकारी मड़ावरा राजेश कुमार श्रीवास्तव के निकट पर्यवेक्षण में अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत गिरार पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को पकडने में सफलता हांसिल हुयी है। बताया गया है कि गिरार क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने बताया कि थाना गिरार के ग्राम बिधाई निवासी राजकुमार पुत्र पनुआ अहिरवार ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर राजकुमार के खिलाफ धारा 376, 506 के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी थी।

टूण्डला विधानसभा में भी साईकिल व कमल चला

अवधनामा संवाददाता

फिरोजाबाद/टूंडला। लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्व की अपेक्षा कम मतदान प्रतिशत होने से राजनीतिक दलों में हलचल पैदा हो गई है। लेकिन टूंडला और जसराना विधान सभा में मतदान प्रतिशत 59ः के लगभग 5 बजे तक रहा है। मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइन कुछ जगह ही दिखाई दी।सामान्य तौर पर अधिकांश मतदेय स्थलों पर लोगों ने लंबी लाइन ना लगने के चलते आराम से मतदान किया।

मतदाताओं को मतदान करने के लिए धूप में खड़े होकर अब इंतजार नहीं करना पड़ा,कम मतदान प्रतिशत अधिकांश लोगों में चर्चा का विषय बना रहा। चर्चा में लोगों का मानना था कि कम मत प्रतिशत होना भाजपा के लिए नुकसान देह हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदेय स्थलों पर जरूर लाइनें दिखाई दी। यादव एवं मुस्लिम बहुल्य मतदेय स्थलों पर लंबी-लंबी लाइन दिखाई दी जो सपा के लिए लाभ की बात हो सकती है। इस बार एक अलग बात देखने को मिली कि बसपा का वोट बैंक बड़े पैमाने पर बिखरा हुआ दिखाई दिया। जिससे बसपा को नुकसान की स्थिति बन गई है। पहले से ही माना जा रहा था कि इस बार चुनाव सपा भाजपा के बीच सिमटता जा रहा है लेकिन मतदान के दिन देखने को मिला की असली मुकाबला सपा भाजपा के बीच हुआ है।अब वोट खुलने पर ही पता चलेगा कि सपा जीतती है या फिर भाजपा ये तो चार जून को ही सबको पता चलेगा।

श्रीमद् भागवत कथाः कथा व्यास ने श्रोताओं को पिलाया भक्तिरस

भगवान से भी ऊंचा मात पिता का दर्जा सारे तीर्थ धाम उन्हीं के चरणों में

अवधनामा संवाददाता

भदैया, सुलतानपुर। श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिन कथा व्यास ने श्रोताओं को भक्तिरस की संगीतमयी घुट्टी पिलाई तो भक्त आनंदमय होकर झूमने लगे। वृंदावन धाम से पधारे कथाव्यास पवनदेव जी महाराज विगत चार दिनों से चल रही अपनी अमृतमयी संगीतमयी कथा के माध्यम से ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं जहां सैकड़ों भक्त रोज़ बाढ़ गंगा में डुबकी लगा रहे है। श्री व्यास जी के मुखारबिंद से निकले एक-एक अमृतवचन श्रोताओं को भाव विभोर कर रहे हैं। भदैया विकासखण्ड के शिवपुर गौरा मध्य स्थित बाग प्रांगण मे सार्वजनिक रूप से चल रही सात दिवसीय कथा के चौथे दिन व्यास जी ने सुनाया कि चार साल की आयु में ही ध्रुव अपनी सौतेली मां सुरूची के ताने वा कटुक वचन के कारण सांसारिक प्रेम सुख त्याग कर नारायण की तलाश में जंगल की तरफ प्रस्थान कर गए, जहां वन गमन के समय रास्ते में उनकी मुलाकात देव ऋषि नारद मुनि जी से होती है, नारद जी ध्रुव से पूछते है नारायण नारायण बालक इतने घोर जंगल में तुम कहां चले जा रहे हो, ध्रुव ने देव ऋषि नारद जी को अपनी सौतेली मां की सारी बातें सुनाई और कहा कि अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है अब मैं रुकने वाला नहीं हूं मैं नारायण प्राप्ति करके लौटूंगा, नारदजी ने भरसक प्रयास किया परन्तु ध्रुव ने एक ना सुनी जंगल की ओर बढ़ चले,। उसी कड़ी में कथा व्यास जी ने सुनाया कि भगवान अपने भक्त की समय समय पर कठिन परीक्षा लेते रहते हैं कि कहीं मेरा भक्त रास्ता तो नहीं भटक रहा है। भगवान भक्ति मिलन पर प्रकाश डालते हुए बताया की पचास वर्ष के बाद आता है इक्यावन अर्थात पचास वन इक्यावन जहां वन का अर्थ जंगल यानि भगवान की शरण में चले जाना चाहिए, बदस्तूर जारी अमृत धारा प्रवाह में आज कल की संतानो पर प्रकाश डालते बताया कि भगवान से भी ऊंचा दर्जा मात पिता का होता तीर्थ धाम उन्हीं के चरणों में है।

उत्तर रेलवे

आज़ादी का अमृत महोत्सव

खुली निविदा सूचना (ई–निविदा)

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल रेलवे प्रबंधक (इंजीनियरिंग), उत्तर रेलवे, लखनऊ द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ई निविदा प्रणाली द्वारा जिसकी अंतिम निविदा तिथि दिनांक 31.05.2024 को 15:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। इस निविदा के मैनुयल आफर स्वीकार नहीं किये जायेंगे यदि कोई मैनुवल आफर आता है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाकर्ता निविदा फार्म का मूल्य व धरोहर राशि का भुगतान केवल ireps पोर्टल पर उपलब्ध आनलाईन भुगतान प्रणाली में नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि किया जायेगा। डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक, डिपाजिट रसीद एफ डी आर द्वारा भुगतान स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

1	निविदा सूचना संख्या	03702024 दिनांक 06.05.2024
2	निविदा संख्या	10-Sr-DEN-VI-LKO-2024-25
3	कार्य का नाम : वरि० मण्डल इंजीनियर–षष्ठम, लखनऊ के कार्य क्षेत्र में सहायक मंडल इंजीनियर– उन्नाव एवं सहायक मंडल इंजीनियर– प्रयाग में DMW-DYP सेक्शन में कि०मी० 0/0 से 24/0, UCR-ON सेक्शन में कि०मी० 72/0 से 184/0, AYC-PFM सेक्शन में कि०मी० 71/0 से 94/0 & KM: 103/0 से 144/0 ट्रिमबल गेडो वोर्सिस ट्राली तकनीक या वैसे ही अन्य तकनीक के उपयोग से प्री एण्ड पोस्ट टैम्पिंग ट्रैक मापन सर्वे एवं अद्यतन पैमाना नक्शे का विकास का कार्य।	
4	अनुमानित लागत	Rs. 80,89,014.00
5	धरोहर राशि	Rs. 1,61,800.00
6	कार्य की समापन अवधि	स्वीकृत पत्र जारी करने की तिथि से दस माह।
7	निविदा डालने का प्रारंभ	17.05.2024
8	निविदा बंद होने की तिथि एवं समय	31.05.2024, 15:00 बजे
9	वेबसाईट	www.ireps.gov.in

नोट :– 1. निविदा संबंधी अन्य विस्तृत विवरण उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध है। 1371/2024

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

झाड़ फूंक कराकर लौट रहे बाइक सवार खाई में गिरे, एक की मौत

अवधनामा संवाददाता

हमीरपुर। जलालपुर थाना क्षेत्र के भेड़ी गांव से झाड़ फूंक कराकर लौट रहे बाइक सवार सोमवार की दोपहर धौहल-जलालपुर मार्ग के बीच बंगराहे नाले की खाई में जा गिरे। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। तीसरा युवक सही सलामत हालत में होते हुए मौके से निकल भागा, जिसने किसी को घटना के बारे में कोई जानकारी तक नहीं दी। दो घंटे तक दोनों युवक खाई में पड़े तड़पते रहे। बाद में पुलिस की मदद से उन्हें सीएचसी सरीला लाया गया, जहां एक की मौत हो गई और दूसरे को गंभीर हालत में रेफर कर दिया गया। जनपद जालौन के थाना आटा के परासन अलमोरी गांव निवासी 20 वर्षीय राजू उर्फ परमसुख पुत्र हरीकिशन थाना जलालपुर के राजामऊ गांव में अपनी ननिहाल में रहता है। राजू कल सोमवार को अपने रिश्तेदार संजय पुत्र चंद्रभान और बबलू पुत्र गड़ेला के साथ जलालपुर के भेड़ी गाँव झाड़-फूंक कराने गया हुआ था। वापस लौटते समय दिन के 3 बजे के आसपास धौहल जलालपुर मार्ग के बंगराहे नाले के पास इनकी तेज रफ्तार बाइक खाई में जा गिरी। इस हादसे में राजू और संजय गंभीर रूप से घायल हो गया।

जबकि बबलू सही सलामत बच गया। लेकिन घायलों की मदद करने के बजाए बबलू वहां से भाग निकला। दोनों घायल घटना स्थल पर दो घंटे तक पड़े तड़पते रहे। इसकी वजह से किसी को हादसे की भनक तक नहीं लगी। राहगीरों से सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को खाई से निकालकर सीएचसी पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने चेकअप के बाद राजू को मृत घोषित कर दिया और संजय को गंभीर हालत में रेफर किया गया है। परिजन संजय को कानपुर ले गए हैं, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

08 मई को होगा ईवीएम/वीवी पैट मशीनों का द्वितीय रैंण्डमाइजेशन

हमीरपुर। 08 मई को होगा ईवीएम/ वीवी पैट मशीनों का द्वितीय रैंण्डमाइजेशन जिला निर्वाचन अधिकारी जनपदहमीरपुर द्वारा 47-संसदीय क्षेत्र हमीरपुर लोक सभा (सामान्य) निर्वाचन लड़ने वाले समस्त 11 उम्मीदवारों को पत्र जारी कर सूचना प्रेषित कर दी गई है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र के क्रम में लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अन्तर्गत जनपद में पंचम चरण के मतदान दिनॉक 20.05.2024 हेतु ईवीएम0मशीनों के द्वितीय रैण्डमाइजेशन के दृष्टिगत सामान्य प्रेक्षक की अध्यक्षता में दिनॉक 08.05.2024 को पूर्वान्ह 11:30 बजे डॉ एपीजे अब्दुल कलाम सभागार कलेक्ट्रेट परिसर हमीरपुर में बैठक आहूत की गयी है।

नामांकन के प्रथम दिन 13 लोगों ने 23 सेट में नामांकन पत्र प्राप्त लिए

विधान सभा उप निर्वाचन दुद्धी के लिए 4 लोगों ने 14 सेट में नामांकन पत्र प्राप्त लिए

अवधनामा ब्यूरो

सोनभद्र। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्र विजय सिंह की मौजूदगी में कलेक्ट्रट सभागार में स्थापित लोकसभा सामान्य निर्वाचन, 2024, के लिए नामांकन कक्ष में 13 लोगों ने 23 नामांकन पत्र प्राप्त किये, इसी प्रकार से विधान सभा दुद्धी उप निर्वाचन के लिए 4 लोगों ने 14 सेट में नामांकन पत्र प्राप्त किये। इस दौरान जिलाधिकारी /जिला निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन कक्ष में तैनात कार्मिकों को निर्देशित करते हुए कहा कि नामांकन पत्र लेने के लिए लोगों को किसी प्रकार की समस्या न होने पाये, इसका विशेष ध्यान दिया जाये। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) सहदेव कुमार मिश्र व अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने पुलिस बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कलेक्ट्रेट परिसर में लगे पुलिस कार्मिकों का जायजा लेते रहें और आवश्यक दिशा-निर्देश दियें। इसी प्रकार से नामांकन के प्रथम दिवस में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के लिए जनवादी पार्टी से बचाऊ बनवासी एक सेट में, राष्ट्रीय समाज दल से प्रभु दयाल एक सेट में, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से भरत लाल एक सेट में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अशोक कुमार कनौजिया 04 सेट में, निर्दल से रामरूप एक सेट में, राष्ट्रीय समानता दल से अरविंद कुमार भारती 02 सेट में, भागीदारी पार्टी से गुलाबी एक सेट में, निर्दल से नन्दलाल 2 सेट में, समाजवादी पार्टी से जितेंद्र कुमार 04 सेट में, राष्ट्रीय समाज से शिवपूजन 2 सेट में, जनरक्षक पार्टी से सुकालू एक सेट में, इंडियन नेशनल समाज पार्टी से सूरज प्रकाश एक सेट में नामांकन पत्र प्राप्त किया। इसी प्रकार से विधानसभा उप निर्वाचन दुद्धी के लिए भारतीय जनता पार्टी से 04 सेट में, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी से 4 सेट में, गोड़वाना गणतंत्र पार्टी से 04 सेट में तथा निर्दलीय के रूप में दो सेट में नामांकन पत्र प्राप्त किया गया।

घायल युवक की इलाज के दौरान मौत

हमीरपुर। डग्गामार वाहन की टक्कर से घायल युवक की ग्वालियर में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही युवक के परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। यह घटना राठ कोतवाली क्षेत्र के कुर्रा गांव के पास हुई थी। मझगवां थाना क्षेत्र के इटौरा निवासी अजीत अपने गांव से बाइक पर सवार होकर राठ आ रहा था। तभी रास्ते में कुर्रा गांव के पास तेज रफ्तार डग्गामार वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार युवक अजीत सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल इलाज के लिए राठ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने घायल अजीत का प्राथमिक उपचार कर उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे उरई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया था।

9 मई को वोटिंग मशीनों को मण्डी स्थल सुमेरपुर पहुंचाया जएगा

अवधनामा संवाददाता

हमीरपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल पाण्डेय ने जारी पत्र के माध्यम से सभी प्रत्याशियों को अवगत कराया कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन.2024 के पंचम चरण के मतदान दिनांक 20.05.2024 हेतु ईवीएम / वीवीपैट मशीनों को कलेक्ट्रेट परिसर हमीरपुर में बने गोदाम जहाँ यह मशीनें विधान सभावार अलग अलग बने स्ट्रांगरूम में रखी हुई है से निकाल कर जीपीएस युक्त भारी वाहनों में ई0वी0एम0 प्रोटोकॉल के अनुसार पुलिस एवं मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में लोडकराकर कृषि उत्पादन मण्डी स्थल, भरूवा सुमेरपुर में विधानसभावार (हमीरपुर.228, राठ. 229) बने अस्थाई ई0वी0एम0 स्ट्रांग रूम में भण्डारण हेतु दिनांक 09.05.2024 को प्रातः 10:00 बजे रवाना किया जायेगा।

उक्त कार्यवाही हेतु कलेक्ट्रेट हमीरपुर का वेयरहाउस /स्टांग रूम दिनांक 09.05.2024 को प्रातः 09:30 पर खोला जायेगा। स्टांग रूम खोलते समय तथा कलेक्ट्रेट वेयरहाउस से परिवहन कर कृषि मण्डी स्थल, भरूआ सुमेरपुर में ई0वी0एम0 मशीनों को रखवाते समय दोनो स्थानो पर स्टांगरूम खोलने,बंद करने एवं सील करते समय आप अथवा आपके प्रतिनिधि की उपस्थिति अपेक्षित है। कृपया ससमय उक्त स्थानों में आप स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि को उपस्थित रहने हेतु सूचित करने का कष्ट करें।

सामान्य प्रेक्षक द्वारा तिन्दवारी विधानसभा की वनरेबल बूथों का किया गया निरीक्षण

अवधनामा संवाददाता

हमीरपुर। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु लोकसभा क्षेत्र. 47 हमीरपुर की सामान्य प्रेक्षक प्रियंका दास द्वारा 232.तिन्दवारी विधानसभा क्षेत्र के वनरेबल बूथों का निरीक्षण किया।उन्होंने वनरेबल बूथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर तथा परमहंस रणछोडदास इण्टर कॉलेज खप्टिहाकलां एवं प्राथमिक विद्यालय पपरेन्दा का निरीक्षण करते हुए उपस्थित बीएलओ से मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान परिवर्धन एवं अपमार्जन के कार्यो के सम्बन्ध में जानकारी ली तथा जेण्डर रेशियो और ईपी रेशियो तथा नये बनाये गये मतदाताओं के सम्बन्ध में जानकारी लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा.निर्देश दिये। उन्होंने स्थायी निगरानी टीम हमीरपुर बार्डर का भी निरीक्षण किया तथा तहसील पैलानी के सभागार में सभी सेक्टरध्जोनल मजिस्ट्रेटों के साथ मतदान बूथों की समीक्षा की तथा उनको मतदान दिवस में बरती जाने वाली सावधानियों से अवगत कराया। उन्होंने तिन्दवारी विधानसभा के मध्यवर्ती स्ट्रांग रूम नियंत्रण कक्ष के साथ मण्डी समिति बाँदा में स्थित सभी स्ट्रांग रूम एवं मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। मण्डी समिति बाँदा में निरीक्षण के दौरान 48.बाँदा लोकसभा की समान्य प्रेक्षक वी0 कलाईराशि, पुलिस प्रेक्षक जॉय विश्वास, जिला निर्वाचन अधिकारी बाँदा दुर्गा शक्ति नागपाल पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे तथा उप जिलाधिकारी/ सहायक रिटर्निंग ऑफीसर 232.तिन्दवारी विधानसभा क्षेत्र शशि भूषण सहित सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

ईवीएम/वीवी पैट कमीशनिंग की तिथि निर्धारित

हमीरपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल पाण्डेय द्वारा पत्र जारी कर समस्त प्रत्याशियों को अवगत कराया है कि जनपद हमीरपुर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र के क्रम में विधान सभावार ई0वी0एम0/वी0वी0 पैट की कमीशनिंग बी0ई0एल0 कम्पनी से आये 03-03 तकनीकी कर्मियों की उपस्थिति में कृषि उत्पादन मंडी समिति भरूआ सुमेरपुर में दिनॉक 10.05.2024 से प्रातः 10:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक प्रत्येक दिन कार्य की समाप्ति तक किया जाएगा तत्समय स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि कि उपस्थित अपेक्षित है। अतः मंडी स्थल सुमेरपुर में स्थित ई0वी0एम0 एवं वी0वी पैट मशीनों के अस्थाई स्ट्रांग रूम को खोलने एवं बन्द करते समय स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि को उपस्थित रहने का कष्ट करें।

मतदान कार्मिको का द्वितीय प्रशिक्षण हुआ निर्धारित

अवधनामा संवाददाता

हमीरपुर। जनपद हमीरपुर लोक सभा सामान्य निर्वाचन- 2024 के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल पाण्डेय द्वारा मतदान कार्मिकों को ई0वी0एम0/वी0वी0पैट मशीनों का द्वितीय प्रशिक्षण दिनॉक 10.05.2024 से 13.05.2024 तक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुछेछा व राजकीय महिला महाविद्यालय में नियत किया गया। जिसमें पीठाशीन अधिकारिी एवं मतदान अधिकारी प्रथम,द्वितीय व तृतीय को प्रशिक्षण दिया जाना है। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में कार्मिकों को हैण्डस ऑन ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ई0वी0एम0/वी0वी पैट मशीने कलेक्ट्रेट परिसर में एन0आई0सी0 के सामने स्थित वेयरहाउस से सुक्रमा प्रसाद विश्वकर्मा उपजिलाधिकारी (न्यायिक) राठ की अभिरक्षा में पुलिस सुरक्षा के साथ जी0पी0एस0 युक्त वाहन द्वारा परिवहन किया जाएगा, तथा प्रशिक्षण की समाप्ति के पश्चात पुनः उसी वाहन से वापस कलेक्ट्रेट परिसर में एन0आई0सी0 के सामने स्थित वेयरहाउस में जमा की जाएगी। इस हेतु 47-लोकसभा सामान्य निर्वाचन हमीरपुर में उम्मीदवार सभी 11 प्रत्याशियों को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है। कि ई0वी0एम0 मशीनों को प्रतिदिन निकालने व प्रशिक्षण उपरान्त मशीनों को गोदाम में जमा/शील करते समय स्वयं अथवा अपने किसी प्रतिनिधि को उपस्थित रहने हेतु निर्देशित कर दिया जाए।

एनटीपीसी रिहंद में महिलाओं का 45 दिवसीय कढ़ाई बुनाई प्रशिक्षण का समापन

अवधनामा संवाददाता

सोनभद्र/बीजपुर। एनटीपीसी रिहंद में नैगम सामाजिक दायित्व के अंतर्गत सोमवार को वर्तिका महिला मण्डल का समापन हुआ। प्रशिक्षण में महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु 45 दिवसीय कढ़ाई-बुनाई प्रशिक्षण दिया गया है। जिसमें सिरसोती गाँव की 25 महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत वर्तिका महिला मंडल समिति की अध्यक्षा श्रीमती अनीता मेदीरत्ता नें किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर्मचारी विकास केंद्र में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अनीता मेदीरत्ता ने कहा कि इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य आस-पास की ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्य अतिथि ने यह भी बताया कि ग्रामीण महिलाएं किस प्रकार से इस प्रशिक्षण का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। 45 दिन तक चले इस कढ़ाई-बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण ले रही 25 महिलाओं को निःशुल्क कपड़ों की डिजाइन बनाना एवं कढ़ाई के नए तरीके बताने के साथ हुनरमंद बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वे आगे चलकर प्रशिक्षण के ज्ञान को रोजगार में तब्दील कर सके। कढ़ाई बुनाई प्रशिक्षण श्री जहीर द्वारा दिया तथा अजय तिवारी ने समस्त प्रशिक्षण को कोआर्डिनेट किया। वर्तिका महिला मण्डल कार्यक्रम में आई बालिकाओं एवं महिलाओं नें भी अपने विचार व्यक्त किए और एनटीपीसी रिहंद का धन्यवाद करते हुए कहा कि यही एनटीपीसी रिहंद भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करेगा तो वे बढ़-चढ़ कर उसमें प्रतिभागिता करेंगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वर्तिका महिला मण्डल समिति की पदाधिकारी महिलाएं कृष्णकली सिन्हा, नीलु असाटी, मोहिनी श्रीवास्तव, डेज़ी सिन्हा, माया पाण्डेय, तुलिका, कार्यपालक (नैगम सामाजिक दायित्व) नर्गिस, आस-पास की ग्रामीण महिलाएं एवं बालिकाएँ आदि उपस्थित रही।

आन बान और शान से सरकार चुने मतदान से

अवधनामा ब्यूरो

सोनभद्र। जिला अधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र विजय सिंह के निर्देशानुसार मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवम खण्ड शिक्षा अधिकारी म्योरपुर द्वारा गठित टीम के विकासखंड म्योरपुर के ग्राम रजनीश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्त्व में बूथ नंबर 309, 310, 311 एवं 312 हेतु जन संवाद/ चुनावी चौपाल कार्यक्रम का आयोजन कंपोजिट विद्यालय मुर्धवा परिसर मे किया गया। जन मानस को मतदान हेतु जागरूक करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा मतदान संबंधी सुंदर जागरूकता गीतों की प्रस्तुति की गई साथ ही विद्यालय प्रधानाध्यापिका श्रीमती मंजू देवी ने सभी उपस्थित जनमानस को शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने हेतु शपथ भी दिलाई। शिक्षक राकेश सिंह द्वारा चर्चा के दौरान मतदान के अधिकार द्वारा ही हम सरकार चुनकर अपने राष्ट्र का निर्माण करते हैं विचारों के साथ मतदान के महत्व पर प्रकाश डाला। इस आयोजन में शिक्षक राकेश सिंह, प्रियंका,ज्योति मिश्रा, सीमा मिश्रा ,प्रदीप गुप्ता, दीपचंद सहित समाजसेवी आशीष मिश्रा, राकेश त्रिपाठी,सानू सिंह बीडीसी सदस्य अनिल जायसवाल, कोटेदार मेघनाथ पासवान सहित कई नगर वासी उपस्थित रहे।

तेल भराकर निकल रही ट्रेलर ने बस को मारी टक्कर बाल-बाल बचे यात्री

अवधनामा संवाददाता

चोपन/ सोनभद्र। मंगलवार की सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक पेट्रोल पंप से तेल भराकर निकल रही ट्रेलर ने बस में टक्कर मार दी गनीमत रहा कि इस दुर्घटना में बस सवार सभी यात्री बाल बाल बच गये। प्राप्त जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के वाराणसी शक्तिनगर मुख्यमार्ग पर स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप से मंगलवार की सुबह एक ट्रेलर तेल भराकर जैसे ही मुख्य मार्ग पर आया कि तभी विण्मगंज से मिर्जापुर जा रही रोडवेज बस आ गई जब तक रोडवेज चालक कुछ समझ पाता ट्रेलर ने बस को टक्कर मार दी जिसके बाद अफरा तफरी मच गई गनीमत रहा कि इस दुर्घटना में बस सवार सभी यात्री बाल बाल बच गये दुर्घटना के बाद संड़क पर कुछ देर के लिए आवागमन बाधित हो गया। गौरतलब है कि रिलायंस पेट्रोल पंप के पास पूर्व में भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी है जिसमें असमय काल के गाल में लोग समा चुके हैं धिरे धिरे यह स्थान दुर्घटना बाहूल्य होता जा रहा है चुंकि जब गाड़ियां चोपन से रावट्सगंज की तरफ जाती हैं तो रिलायंस पेट्रोल पंप के पास घुमाव के साथ साथ ढलान भी जहां वाहन चालकों की गति सीमा ज्यादा रहती है वहीं पेट्रोल पंप से तेल भराकर निकल रहे वाहन बिना सतर्कता के सिधे मुख्य मार्ग पर आते हैं इसिलिये अक्सर एक दूसरे को बचाने के चक्कर में दुर्घटनाएं हो जाती हैं लोगों ने इस समस्या पर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया है ताकि इस समस्या का उचित उपाय हो सके जिससे दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण लग सके।

बुंदेली सेना के मार्गदर्शन के लिए बुंदेला ने बुलंद की आवाज

अवधनामा संवाददाता

बाँदा। बुंदेली सेना की युवा टीम की बैठक लेने के लिए बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला और बुंदेली सेना के सयोजक डॉ आश्रय सिंह का आगमन हुआ जिसमें बुंदेली सेना जिलाध्यक्ष भानु मिश्रा और युवा टीम ने राजा बुंदेला का जोरदार स्वागत किया राजा बुंदेला ने बुंदेली सेना की टीम का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें बुंदेली धरोहर एवं बुंदेलखंड की बढ़ती हुई बेरोजगारी एवं किसानों की परिस्थितियों के बारे में अवगत कराते हुए उनकी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखने के लिए और उन समस्याओं का निदान करने के लिए जिला अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए कहा उन्होंने बताया कि अगर बुंदेलखंड राज्य का निर्माण होता है तो यहां के युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा और किसानों को बुंदेलखंड राज्य के अंदर आने वाली योजनाओं का सीधे बुंदेलखंड वासियों को सीधे लाभ प्राप्त होगा जिससे बुंदेलखंड राज्य के अंदर आने वाले सभी जिले अपने-अपने जिलों का विकास अपनी धरोहर को सुरक्षित कर सकेंगे और संयोजक आश्रय सिंह और जिलाध्यक्ष भानु मिश्रा एवं जिला उपाध्यक्ष संजय लश्करी, जिला महामंत्री आलीम खान,नगर अध्यक्ष सुमित सेन, नगर महामंत्री बादल प्रजापति, नगर मंत्री राज,कोषाध्यक्ष प्रभात मिश्रा, जिला मंत्री अंकुर जाटव नगर मंत्री राज, कोषाध्यक्ष प्रभात मिश्रा, जिला, मंत्री अंकुर जाटव आदि ने संकल्प लिया कि वह बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए अपना पूर्ण योगदान करेंगे।

निकाली गई विशाल ई रिक्शा मतदाता जन जागरूकता रैली

बाँदा। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अन्तर्गत जनपद बाँदा में दिनांक 20.05.2024 को होना निर्धारित है। शासन/प्रशासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी /निर्वाचन अधिकारी बांदा श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल के द्वारा किए जा रहे अधिक से अधिक संख्या में मतदान के प्रयासों के तहत उक्त निर्वाचन में मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या मतदान करने हेतु जागरूक करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग बाँदा द्वारा बाबूलाल चौराहा से पीली कोठी होते हुए महाराणा प्रताप चौराहा से कालू कुंआ चौराहा तक विशाल ई-रिक्शा रैली का आयोजन कर आम जनमानस को निर्वाचन में शतप्रतिशत मतदान करने हेतु जागरूक किया गया। सैकड़ो की संख्या में शामिल रहे ई रिक्शा एआ टीओ शंकर जी सिंह द्वारा 20 मई को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की गयी।

अराजक तत्वों ने थोड़ी बजरंगबली की मूर्ति नेताओ में आक्रोश: डॉ. धर्मवीर

अवधनामा ब्यूरो

सोनभद्र। जिले के धरोहर विजयगढ़ किले पर स्थित मंदिर में स्थापित भगवान बजरंगबली के मूर्ति खंडित करने मामले में राजनीतिक प्रक्रिया आनी शुरू हो गई वही बता दें कि सोमवार दोपहर कुछ अराजक तत्वों द्वारा मंदिर के प्रतिमा तोड़े गए जिसकी सूचना होते ही जिला प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे वहीं इस मामले को लेकर पूर्व में भी कई प्रश्न उठ चुके हैं वही इधर चुनाव का माहौल देखते हुए राजनेताओं में चल गर्मी शुरू हो गई जिला प्रशासन आनंद-खनन में मौके पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल करते हुए संबंधित के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई करने में जुट गया उधर बता दें कि सदर सिओ संजीव कटिहार ने बताया कि सोमवार शाम संबंधित पुलिस फोर्स द्वारा मामले से अवगत कराया गया जिस पर तत्काल मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की गई जिसमें जिन लोगों द्वारा मूर्ति खंडित कराया गया उनको चिन्हित कर अग्रिम कार्रवाई।

डॉ. धर्मवीर तिवारी ने मजिस्टिक जांच कराने की उठाई मांग

विजयगढ़ किले परहनुमान जी की मूर्ति को तोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है विजयगढ़ किला हम सबके लिए ऐतिहासिक धरोहर है विशाल कावर यात्रा का केंद्र है हिन्दु हनुमान जी की पूजा करने जाते है इस पूरे मामले में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉ धर्मवीर तिवारी ने मजिस्ट्रेट जांच की मांग की और विजयगढ़ किले के ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा लगातार जिला प्रशासन कराए बाकी आने वाले समय में ऐसी घटनाएं न हो सके।

भीषण गर्मी में पानी की राहत के मद्देनजर बेजुबानों के लिए रखाया गया नांद

बांदा। जनपद में भीषण गर्मी को देखते हुए विश्व हिंदू महासंघ गौ रक्षा समिति के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गौ रक्षा समिति के द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों को चिन्हित करके गोवंश तथा अन्य जानवरों को पानी पीने हेतु सीमेंट से बने हुए नांद रखवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को बिजली खेड़ा में वार्ड के सभासद शोभा देवी के आवास के पास नांद रखवाया गया और उनके जिम्मेदारी पर वह प्रतिदिन बेजुबानों के लिए पानी भरने का विशेष योगदान देंगी। समिति के जिलाध्यक्ष महेश प्रजापति ने इस दौरान कहा कि आप सभी भी इस विशेष योगदान से जुड़ सकते हैं और गौ माता तथा अन्य बेजुबान जानवरो की सेवा के लिए आगे आकर सेवा कर सकते हैं। इस मौके में वार्ड सभासद शोभा देवी, वार्ड प्रतिनिधि विनय प्रजापति, गौ रक्षा समिति जिला महामंत्री राकेश कुमार त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष महेश कुमार धुरिया, जिला प्रचार मंत्री रजनीश प्रजापति, भाजपा नेता देवेश कुमार मोनू, उत्तरी नगर अध्यक्ष विनोद कुमार, संदीप कुमार सेन आदि कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

कोर्ट नोटिस

ब-अदालत
श्रीमान् प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय, गढ़वा ।
ओरिजनल (OS) सूट नम्बर-303/2023
अमीना खातुन उर्फ तरन्नुम आरा पिता- फसी खान उर्फ फसीहुद्दीन खान निवासी ग्राम-शरीफ मुहल्ला उँचरी, थाना व जिला-गढ़वा (झारखण्ड)
आवेदिका बनाम तबरेज खान पिता-राजा खान
निवासी - वार्ड नं0 2 दुद्धी, थाना-दुद्धी जिला-सोनभद्र (उ0 प्र0) विपक्षी

बजरिये इस नोटिस के द्वारा आप (तबरेज खान) को सूचित किया जाता है कि आवेदिका (अमीना खातुन उर्फ तरन्नुम आरा) ने इस न्यायालय में ओरिजनल वाद सख्या 303/2023 (धारा 2 मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939/मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लिकेशन अधिनियक 1937 सह पठित धारा 7 (1 ए0, बी0) फेमिली कोर्ट अधिनियम के अंतर्गत) विवाह-विच्छेद हेतु दायर की है, जिसमें आपकी उपस्थिति हेतु नजारत एवं स्पीड पोस्ट दोनों के माध्यम से नोटिस निर्गत किया गया था, जिसके फलस्वरूप स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्गत नोटिस दिनांक 28/03/2024 को आपको प्राप्त हो गयी है पर उसके बावजूद भी आप अपना पक्ष रखने के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः आपको इस पेपर प्रकाशन के माध्यम से निर्देश दिया जाता है कि इस वाद की अगली नियत तिथि दिनांक 30.05.2024 को समय 07:30 बजे पूर्वाह्न में इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें अन्यथा वाद की कार्यवाही आपके विरूद्ध एकपक्षीय कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकित जानें।

आज दिनांक 01.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायलय के मोहर से जारी किया गया।

प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय, गढ़वा।

नरैनी में सघन जनसम्पर्क कर, मतदाताओं से आर्शीवाद मांगा

अवधनामा संवाददाता

बाँदा। पूर्व प्रस्तावित जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत 48 लोकसभा क्षेत्र बांदा चित्रकूट के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मयंक द्विवेदी का जनसंपर्क अभियान प्रातः 10.15 बजे अतर्रा स्थित मुख्य चुनाव कार्यालय से प्रारम्भ होकर प्रातः 10.45 बजे ग्राम पंडमई पहुंचा जहां पूर्व से प्रतीक्षा कर रहे श्री प्रकाश पांडेय, शशांक द्विवेदी, संतोष वर्मा इत्यादि सर्वसमाज के सैकडों चाहने वालों ग्रामवासियों ने प्रत्याशी मयंक द्विवेदी का गर्मजोशी से स्वागत एवं माल्यार्पण किया, युवा मयंक द्विवेदी को अपने बीच पा लोगों में भारी उत्साह दिखा।

भारी संख्या में समर्थकों के साथ बसपा प्रत्याशी मयंक द्विवेदी का जनसंपर्क अभियान नरैनी शहर पहुंचा जहां पूरे शहर में प्रत्याशी मयंक द्विवेदी ने पैदल चल कर व्यापारियों, युवाओं और बुजुर्गो का आशीर्वाद लिया। तदुपरांत काफिला ग्राम नशेनी, गोरेपुरवा, जमवारा, लहुलेटा, शंकर बाजार, मुकेरा, गुमानगंज, अकेलवा, उदई पुरवा, नहरी, पोगरी, करतल, महाराजपुर,हडहा होते हुए कबौली में जनसंपर्क अभियान का समापन हुआ। विजय का आशीर्वाद मांगा साथ ही क्षेत्रवासियों को संबोधित कर आगामी 20 मई को चुनाव चिन्ह हाथी पर बटन दबाकर विजयी बनाने की अपील की, उपस्थित जन समुदाय ने हांथ उठाकर समर्थन का भरोसा दिया। आज के इस मैराथन जनसंपर्क अभियान में कुल 17 कार्यक्रमों को कवर करते हुए हजारों लोगों से संपर्क किया गया। सर्वसमाज की माताओं, बहनों, बुजुर्गो और युवाओं से मिल रहे अपार जनसमर्थन के लिए मयंक द्विवेदी ने जगह जगह उपस्थित जन समुदाय का आभार व्यक्त किया और निवेदन किया इस बार यदि आपने सांसद चुन कर सेवा का अवसर दिया तो चित्रकूट बांदा जनपद के विकास एवं कृषि, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए आप सभी के मान संमान और गौरव के लिए अपना जीवन खपा दूंगा और पूरे पांच साल आपके बीच रह कर अपने कार्यो का रिपोर्ट कार्ड दूंगा।

अबकी बार 400 पार का लक्ष्य होगा पूराः मुख्यमंत्री योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को किया संबोधित, बोले मुख्यमंत्री, आज बहराइच विकास के नये आयाम गढ़ रहा'

अवधनामा ब्यूरो

बहराइच/लखनऊ। देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है जबकि पाकिस्तान की 24 करोड़ की आबादी भूखों मर रही है। इसके बाद भी कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। उनका वही हाल होगा जो महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद का किया था। ये वीरों की धरती है। उनसे बोलिए कि जिस भिखमंगे पाकिस्तान का वह नारा लगाते हैं, वहीं जाकर भूखो मरें। यहां भारत पर बोझ मत बनें। कांग्रेस और सपा की सरकार में देश में कहीं भी आतंकी विस्फोट हो जाते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज बहराइच विकास के नये

जनता का स्नेह और आशीर्वाद प्रधानमंत्री संग कमल को प्राप्त हो रहा

आयाम गढ़ रहा है। यहां पर महर्षि बालार्क के नाम पर अस्पताल और महाराज सुहेलदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज खुल चुका है। इसकी पहले कल्पना नहीं की जाती थी, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। महाराजा सुहेलदेव का भव्य विजय स्तंभ बनकर तैयार है। वह राष्ट्र रक्षक थे इसलिए सम्मान देना हमारा काम है। वहीं उनका भव्य स्मारक भी बनाया जा रहा है। हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थ का निर्माण भी किया है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार देश के महापुरुषों का सम्मान करना जानती है। वहीं कांग्रेस और सपा महापुरुषों का अपमान करना ही अपना धर्म मानते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देश की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में रामलला का भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। यह कांग्रेस, सपा और बसपा के लिए असंभव था, लेकिन इसे हमने करके दिखाया। साथ ही साथ जनता जनार्दन का सम्मान भी बढ़ाया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सपा के समय नौजवानों के हाथों में तमंचे पकड़वाए जाते थे। हमने उनके हाथों में टैबलेट थमाया। इससे प्रदेश का युवा स्मार्ट नौजवान हुआ है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज तीसरे चरण का मतदान चल रहा है। दो चरणों का मतदान पहले ही समाप्त हो चुका है। जनता जनार्दन का अपार स्नेह और आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कमल निशान पर प्राप्त हो रहा है। यह रुझान तीसरे चरण में भी देखने को मिल रहा है। जनता जनार्दन का यह उत्साह दिखाता है कि प्रदेश के तीसरे चरण की सारी सीटों पर कमल खिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अबकी बार 400 पार का लक्ष्य पूरा होगा और देश में फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। यह ऐसे ही नहीं होने जा रहा बल्कि इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले दस वर्षों में देश के लिए किए गए सार्थक कार्यों से संभव हो पाया है। दुनिया आज बदलते हुए भारत को देख रही है। वहीं वर्ष 2014 से पहले देश की क्या हालत थी, सभी जानते हैं। उस समय बदहाल भारत जनता का विश्वास खो चुका है। वहीं आज जनता का विश्वास मोदी सरकार पर अडिग हुआ है।

इस अवसर पर भाजपा के जिलाध्यक्ष बृजेश पांडेय, सांसद अक्षयबर लाल गौड़, विधान परिषद सदस्य पद्मसेन चौधरी, विधायक रामनिवास वर्मा, सुरेश्वर सिंह, अनुपमा जायसवाल, सुभाष त्रिपाठी आदि उपस्थित थे।

लोकसभा चुनावः सपा की सरकार न तो उत्तर प्रदेश और न ही केन्द्र में बनेगीः केशव

सपा की साईकिल को जनता ने पहले ही कर दिया पंचरः उपमुख्यमंत्री

अवधनामा ब्यूरो

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने धौरहरा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रेखा वर्मा तथा शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अरूण सागर के समर्थन में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव लड़ रही सपा की ना उत्तर प्रदेश में कभी सरकार बन सकती है और ना ही 2024 लोकसभा चुनाव में सपा का खाता खुलने वाला है। उन्होंने कहा कि सपा की साईकिल को जनता पंचर करके पहले ही सैफई फेंक चुकी है। परिवारवादी समाजवादी पार्टी के एक ही परिवार से पांच लोकसभा प्रत्याशी है। सपा ने पीडीए का नारा देकर परिवार डवेलपमेंट अथॉरिटी तैयार कर ली है।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा की सरकार में हालात यह थे कि उत्तर प्रदेश में सपा के गुंडे, अपराधी खाली प्लॉट, मकान, खेत, खलिहान पर कब्जा कर लेते थे और शिकायत करने वालों के खिलाफ ही पुलिस कार्यवाही करती थी।

श्री मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगातार बिना थके, बिना रूके ÷तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं÷ का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। मोदी का एक ही लक्ष्य है देश की उन्नति और देशवासियों की खुशहाली। उन्होंने कहा जनता ने कमल का बटन दबाया तो लोगों को पक्का घर मिला और प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ।

आईवीएफ का राजनाथ सिंह को समर्थन

लखनऊ। भारत सरकार रक्षामंत्री, लखनऊ सांसद, लोकसभा प्रत्याशी राजनाथ सिंह को इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष एवम उत्तर विधायक डॉ नीरज बोरा, अजय जायसवाल, मनोज अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, सुनीता गुप्ता, अनुराग साहू, प्रियंक गुप्ता ने पुष्प गुच्छ देकर, फेडरेशन का फटका पहनाकर अभिवादन किया साथ ही समर्थन पत्र देकर बड़ी संख्या में वैश्य समाज वर्ग, उपवर्ग के सदस्यों की ओर से भाजपा के पक्ष में मतदान करना का ज्ञापन दिया।

भाजपा प्रदेश की 80 सीटें जीतने की ओर अग्रसरः स्वतंत्र देव

प्रदेश में कानून के राज से जनता भाजपा को आशीर्वाद दे रही है

अवधनामा ब्यूरो

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मंगलवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश के सहकारिता मंत्री जे.पी.एस. राठौर के साथ प्रेस वार्ता को संबोधित किया। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि तीन चरणों के चुनाव के पश्चात यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी गरीब, किसान, नारीशक्ति एवं युवाओं के अपार समर्थन से प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने की ओर तेजी से बढ़ रही है। तीनों ही चरणो में जनता ने विपक्ष का पूरी तरह से सफाया कर दिया है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि चुनाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी मोदी के लिए स्वयं चुनाव लड़ रहे है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में स्थापित कानून के राज से जनता भाजपा को आशीर्वाद दे रही है।

पहले दिन 05 प्रत्याशियों ने किया नामांकन

कुशीनगर में 01, गाजीपुर में 01, वाराणसी में 02, मिर्जापुर में 01 प्रत्याशी ने नामांकन किया

सातवें चरण में 14 मई नामांकन की अंतिम तिथि, 01 जून को होगा मतदान

अवधनामा ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च, 2024 को लोकसभा निर्वाचन की तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने की प्रक्रिया संचालित है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के सातवें चरण में 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा 403-दुद्धी (अ0ज0जा0) विधानसभा उप निर्वाचन-2024 के लिए 07 मई, 2024 (मंगलवार) को निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। नामांकन के पहले दिन 07 मई को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 05 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 03 बजे के मध्य किये जा सकेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में सातवें चरण की 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 07 मई को नामांकन के पहले दिन 05 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, इसमें 65-कुशीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी से विजय ने नामांकन किया। 75-गाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्दलीय प्रत्याशी सत्यदेव यादव ने नामांकन किया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन के सातवें चरण के अंतर्गत 13 लोकसभा सीटों में 63-महराजगंज, 64-गोरखपुर, 65-कुशीनगर, 66-देवरिया, 67-बांसगांव (अ0जा0), 70-घोसी, 71-सलेमपुर, 72-बलिया, 75-गाजीपुर, 76-चन्दौली, 77-वाराणसी, 79-मिर्जापुर, 80-राबर्ट्सगंज (अ0जा0) हेतु चुनाव सम्पन्न किया जाना है।

सातवें चरण की 13 लोकसभा सीटों में 11 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं और 02 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। सातवें चरण के 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश के महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चन्दौली, वाराणसी, मिर्जापुर तथा सोनभद्र सहित 11 जिलों के अंतर्गत आते हैं।

प्रवास कार्यक्रम

राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बीएल संतोष

लखनऊ। राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बीएल संतोष बुधवार 08 मई 2024, को बाराबंकी और गोण्डा के प्रवास पर रहेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बीएल संतोष दोपहर 02:30 हिन्द मेडिकल कॉलेज, सफेदाबाद, बाराबंकी तथा सायं 7 बजे होटल भगवान पैलेस, गोण्डा में आयोजित संगठनात्मक बैठक में मार्गदर्शन करेंगे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह

लखनऊ। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह बुधवार 08 मई 2024, को लखीमपुर खीरी, हरदोई और कन्नौज के प्रवास पर रहेंगे। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे राजकीय इण्टर कॉलेज मैदान, लखीमपुर खीरी में आयोजित जनसभा को सम्बोधित करेंगे तथा दोपहर 01 बजे सीएसएन पीजी कॉलेज, ग्राउण्ड, हरदोई में आयोजित जनसभा को सम्बोधित करेंगे। इसके पश्चात् दोपहर 03 बजे डीएन इंटर कॉलेज छात्रावास मैदान तिर्वा, कन्नौज में आयोजित जनसभा को सम्बोधित करेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार 08 मई 2024, को कानपुर, एटा और शाहजहांपुर के प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 12:40 बजे रेलवे स्टेशन के पास खाली मैदान, घाटमपुर, कानपुर में आयोजित अकबरपुर लोकसभा की जनसभा को सम्बोधित करेंगे तथा दोपहर 02:25 बजे डी.ए.वी. इण्टर कॉलेज, अलीगंज, एटा में फर्रुखाबाद लोकसभा की जनसभा को सम्बोधित करेंगें। इसके पश्चात दोपहर 03:50 बजे रामलीला मैदान, कांठ, ददरौल, शाहजहांपुर में आयोजित शाहजहांपुर लोकसभा की जनसभा को सम्बोधित करेंगे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी

लखनऊ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी बुधवार 08 मई को हरदोई और कन्नौज के प्रवास पर रहेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी दोपहर 01 बजे सीएसएन पीजी कॉलेज, छात्रावास ग्राउण्ड, हरदोई तथा दोपहर 03 बजे डीएन इंटर कॉलेज छात्रावास मैदान तिर्वा, कन्नौज में आयोजित जनसभाओं में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के साथ रहेंगे।

भाजपा प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह

लखनऊ। भाजपा प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह बुधवार 08 मई को उन्नाव, कानपुर, इटावा और कन्नौज के प्रवास पर रहेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह सुबह 09 बजे केन्द्रीय चुनाव कार्यालय उन्नाव में आयोजित संगठनात्मक बैठक में मार्गदर्शन करेंगे तथा सुबह 11 बजे केन्द्रीय चुनाव कार्यालय कानपुर व दोपहर 12:30 केन्द्रीय चुनाव कार्यालय, कल्याणपुर कानपुर में आयोजित विभिन्न संगठनात्मक बैठकों में मार्गदर्शन करेंगे। इसके पश्चात् दोपहर 03 बजे केन्द्रीय चुनाव कार्यालय इटावा तथा सायं 05 बजे केन्द्रीय चुनाव कार्यालय कन्नौज में विभिन्न संगठनात्मक बैठकों में मार्गदर्शन करेंगे।

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक

लखनऊ। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बुधवार 08 मई को बलिया के प्रवास पर रहेंगे। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक दोपहर 01 बजे सुखराम इटर कॉलेज मैदान बलिया में आयोजित नामांकन सभा को सम्बोधित करेंगे। प्रदेश सरकार के मंत्री ओमप्रकाश राजभर भी नामांकन सभा को सम्बोधित करेंगे।

मंत्री स्वतंत्र देव सिंह

लखनऊ। प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बुधवार 08 मई को बलरामपुर और श्रावस्ती के प्रवास पर रहेंगे। प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह दोपहर 12 बजे मधुविजा लॉन निकट बालाजी गैस गोदाम तुलसीपुर रोड, बलरामपुर में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को सम्बोधित करेंगे तथा दोपहर 02 बजे शिवालिक महाविद्यालय भिन्गा, श्रावस्ती में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को सम्बोधित करेंगे।

मंत्री अनिल राजभर

लखनऊ। प्रदेश सरकार के मंत्री श्री अनिल राजभर बुधवार 08 मई को आजमगढ के प्रवास पर रहेंगे। अनिल राजभर दोपहर 02 बजे रामलीला मैदान, फूलपुर, आजमगढ़ में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को सम्बोधित करेंगे।

मंत्री दारा सिंह चौहान

लखनऊ। प्रदेश सरकार में मंत्री दारा सिंह चौहान बुधवार 08 मई को फतेहपुर के प्रवास पर रहेंगे। प्रदेश सरकार में मंत्री दारा सिंह चौहान सुबह 11 बजे अशोक वाटिका, अयाहशाह, फतेहपुर में आयोजित सामाजिक सम्मेलन को सम्बोधित करेंगें।

हसन मुस्तफा ने 98.40 प्रतिशत अंक पाकर बढ़ाया मान

लखनऊ। शिया धर्मगुरु मौलाना मुनव्वर हुसैन रिजवी जरगाम के पुत्र हसन मुस्तफा रिजवी ने आईसीएसई बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षा 98.40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। हसन मुस्तफा रिजवी (जकी) सिटी मान्टेसरी स्कूल की चौक शाखा के छात्र हैं। हसन मुस्तफा के बिना कोचिंग के इतने अच्छे अंकों के साथ कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर रिश्तेदारों और दोस्तों ने मौलाना मुनव्वर हुसैन रिजवी और परिजनों को बधाई दी है। इसी तरह विख्यात समाजसेवी रहे स्वर्गीय हसन असगर रिजवी के पोते और सज्जाद रजा रिजवी के पुत्र मोहम्मद इस्हाक रिजवी ने आईएससी बोर्ड कक्षा 12 की परीक्षा 94.25 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। मोहम्मद इस्हाक सिटी मान्टेसरी स्कूल चौक शाखा के छात्र हैं। उन्होंने कक्षा 10 की परीक्षा 97 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की थी।

भाजपा सरकार में सड़कों का जाल बिछाया गयाः पाठक

भाजपा सरकार में बेटी भयमुक्त होकर कहीं भी आ जा सकती है

अवधनामा ब्यूरो

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने झांसी में वॉलेटियर सम्मेलन तथा लखनऊ में किसान सम्मेलन को संबोधित किया। श्री पाठक ने कहा कि सपा, बसपा की सरकार के समय उत्तर प्रदेश में गड्ढे वाली सड़के थी। वहीं भाजपा सरकार में सड़कों का जाल बिछाया गया है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में अपहरण, लूट, व्यापारियों से चौथ बसूली से जनता त्रस्त थी। बेटी जब तक घर नही पहुंचती थी, तब तक पूरा परिवार डरा हुआ रहता था। लेकिन आज भाजपा सरकार में बेटी भयमुक्त होकर कहीं भी आ जा सकती है।

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि 2014 से पहले पाकिस्तान के आतंकवादी आकर देश में कहीं भी धमाका करके आराम से चले जाते थे। मोदी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति से आतंकवादियों को पाकिस्तान के अंदर घुसकर ठिकाने लगाने का काम किया गया। आज देश में कहीं कोई धमाका करने की हिम्मत नहीं करता है। यह मोदी के नेतृत्व में बदले हुए भारत की धमक है। उन्होंने कहा कि पूरे देश को आज भी याद है कि कैसे पाकिस्तान सम्मान के साथ अभिनंदन का अभिनंदन करते हुए भारत लेकर आया था।

श्री पाठक ने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार ने भ्रष्टाचार में कीर्तिमान स्थापित किए। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी घोटाला किया। कांग्रेस के मंत्री भ्रष्टाचार में जेल गए। जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 10 वर्ष के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का किसी पर कोई आरोप नहीं है।

श्री पाठक ने कहा कि कांग्रेस ने वोट के लिए गरीबी हटाओ का नारा दिया और जबकि भ्रष्टाचार व कमीशनखोरी से गरीबों का हक ही खा गए। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब को पक्का घर, नल से जल, इलाज की मुफ्त सुविधा, मुफ्त राशन सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से गरीबों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति को मजबूत करने का काम किया है।

राहुल गांधी की वजह से मतदाताओं में अप्रतिम उत्साह देखने को मिला

लखनऊ। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा कि आज तीसरे चरण के मतदान में इंडिया गठबंधन के प्रति राहुल गांधी की वजह से मतदाताओं में अप्रतिम उत्साह देखने को मिला। राहुल गांधी ने पूरी प्रतिबद्धता से भारत के लोगों के लिए अपने न्याय पत्र के जरिए प्रगति का एक निर्धारित मार्ग प्रशस्त करने का वादा किया है। कांग्रेस के न्याय पत्र के प्रति लोगों ने पहले तीन चरणों में अपनी पूरी आस्था व्यक्त की है। श्री दुबे ने कहा कि भाजपा की तीन चरणों की हार सातों चरण में बरकरार रहेगी। श्री दुबे ने कहा कि प्रदेश में बीते वर्षों में जिस तरह भाजपा सरकार में युवाओं को बेरोजगारी के दलदल में धकेल उनके भविष्य में भर्ती परीक्षा पेपर लीक का अंधकार भर दिया, उससे युवा भाजपा के खिलाफ खड़ा हो गया है।

कार्यकर्ताओं के बल पर भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी बनीः चौधरी

भाजपा जो कहती है वह करती हैः भूपेंद्र सिंह चौधरी

अवधनामा ब्यूरो

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने अमेठी में कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं के बल पर भाजपा आज भारत की ही नहीं अपितु विश्व की सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी बन गई है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि भाजपा जो कहती है वह करती है। भाजपा ने जो भी संकल्प लिए उन संकल्पों को मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 10 साल तथा योगी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के 7 साल में सभी संकल्प पूरे किए गए। राममंदिर का निर्माण, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति, तीन तलाक पर रोक सहित देश की बढ़ती आर्थिक व सामरिक शक्ति से देश विकसित बनने की ओर तेजी से बढ़ा है। सबको घर, राशन, पढ़ाई, दवाई तथा सुरक्षा की सुनिश्चिता ने गरीब, किसान, महिला एवं युवाओं में मोदी की गारंटी के प्रति विश्वास को और मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा परिवारवाद, जातिवाद और वंशवाद से कोसों दूर है। पार्टी में कार्यकर्ता ही सर्वेसर्वा है।

श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य करते हुए देश और प्रदेश का सर्वांगीण विकास किया है। प्रदेश में राम राज्य की अवधारणा को मूर्तरूप दिया जा रहा है। बिजली, सड़क ,शिक्षा, चिकित्सा सहित सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। आज देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया भारत की तरफ टकटकी लगाए हुए देख रही है। भारत विश्व गुरु के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ता घर-घर जाकर भाजपा सरकार के विकास कार्यों एवं मोदी की गारंटी से लोगों अवगत कराए।

सपा प्रदेश सचिव प्रदीप सिंह बब्बू ने सैकड़ों साथियों सहित दिया इस्तीफा

पार्टी में समर्पित कार्यकर्ताओं की हो रही है घोर उपेक्षाः प्रदीप सिंह

अवधनामा ब्यूरो

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से निकले हुए प्रदीप सिंह बब्बू ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।बब्बू उत्तर प्रदेश क्षत्रिय समन्वय समिति प्रदेश संयोजक भी हैं और नौजवानों के बीच खास लोकप्रिय हैं। प्रदीप सिंह के साथ समाजवादी लोहिया वाहिनी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हर्षित राजवीर और ऑल इंडिया मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय महासचिव मो हारून राईन ने भी इस्तीफ़ा दिया।उन्होंने कहा कि शीघ्र ही साथियों के साथ मिलकर अगले राजनीतिक क़दम पर निर्णय लेंगे।बब्बू ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उन लोगों से घिरे है जिनकी राजनीति उनके ही इर्द-गिर्द और उनकी कृपा पर निर्भर है। उनकी सलाह पार्टी की निर्णयों पर विपरीत असर डालती है। जिससे ज़मीनी लोग समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से दूर होते जा रहे है।

पार्टी लोहिया और नेता जी की समाजवादी नीतियों और सिद्धांतों से दूर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि हाइटहाउस में बैठे अखिलेश यादव और उनके स्वयंभू नौ रत्नों की वजह से पार्टी का समर्पित, अनुशासित, जुझारू और ज़मीनी कार्यकर्ता अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है।

प्रदीप सिंह बब्बू ने एक पत्र के माध्यम से अखिलेश यादव को अब तक के सहयोग के लिए धन्यवाद और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पार्टी समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकारमय है और वरिष्ठ लोग उपेक्षित होकर किनारे बैठने पर मजबूर हैं।

मतदाताओं से दुर्व्यवहार पर उतर आयी भाजपाः कांग्रेस

कहीं लाठीचार्ज किया तो कहीं बलपूर्वक जनता को पोलिंग बूथों से भगाया गया

अवधनामा ब्यूरो

लखनऊ। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पहले दो चरणों की हार की हताशा से बौखलाई भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मतदाताओं से दुर्व्यवहार पर उतर आयी है। प्रदेश की जनता को वोट देने के उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने की कुचेष्टा की गयी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे और प्रदेश मीडिया कमेटी के चेयरमैन डॉ. सी.पी. राय, कांग्रेस की राष्ट्रीय मीडिया कोआर्डिनेटर गरिमा दसौनी और चित्रा निषाद बाथम ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव की अपेक्षा करती है और उम्मीद करती है कि आने वाले चार चरणों में भाजपा सरकार के ऐसे प्रशासकीय दुरुपयोग की पुनरावृत्ति नहीं होने देगा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि तीसरे चरण की वोटिंग से कई संसदीय क्षेत्रों से यह खबर आयी है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग कर जनता को उनके मत देने के अधिकार से वंचित किया है। कहीं लाठीचार्ज किया तो कहीं बलपूर्वक जनता को पोलिंग बूथों से भगा दिया गया। संभल, मैनपुरी, बदायूं, एटा, आंवला और आगरा में व्यापक रूप से मतदाताओं को मतदान से रोकने की खबरें आई हैं। संभल संसदीय क्षेत्र में बर्बरतापूर्वक पुलिस के मतदाताओं पर लाठीचार्ज किये जाने के वीडियो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। संभल लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले कुंदरकी, बिलारी, चन्दौसी, संभल और असमौली सहित सभी विधानसभाओं में मतदाताओं के साथ मारपीट की खबरें आ रही हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ भाजपा सरकार इतना संवेदनहीन और अमानवीय व्यवहार कर रही है। समूचे उत्तर प्रदेश का मतदाता इन घटनाओं का संज्ञान ले रहा है और आने वाले चार चरणों में भाजपा को इस अराजकतापूर्ण व्यवहार के लिए चौतरफा हार का मुंह देखना पड़ेगा।

छठे चरण के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी

लखनऊ। कांग्रेस ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। पार्टी के स्टार प्रचारकों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गाधी वाड्रा सहित अन्य नेता शामिल हैं। छठे चरण के लिए 25 मई को मतदान होगा। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। सूची में कांग्रेस महासचिव व प्रदेश प्रभारी अविनाश पाण्डेय, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, नेता विधान मंडल दल आराधना मिश्रा मोना, पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, सचिन पायलट, डॉ. निर्मल खत्री, राजबब्बर, डॉ. पी.एल. पुनिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, अनिल श्रीवास्तव, किशोरी लाल शर्मा, विवेक बंसल, पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, संजय कपूर, इमरान प्रतापगढ़ी, जफर अली नकवी, रवि वर्मा, इमरान किदवई, बी.पी. सिंह, कांग्रेस सचिव धीरज गुर्जर, नीलांशू चतुर्वेदी, राजेश तिवारी, सत्यनारायण पटेल, पूर्व मंत्री नकुल दुबे, हाजी रिजवान कुरैशी, राजेश लिलोठियां, सुप्रिया श्रीनेत, मकसूद खान, दीपक सिंह, केशव चंद, नदीम जावेद, संजीव दरियाबादी और शरद मिश्रा का नाम शामिल है।